

४५२१

श्री गणधर सुधर्मा स्वामि सङ्कलितमूल सूत्र

श्रीयुत राय धनपतिसिंह बहादुर का जैनागमसङ्ग्रह भाग

तदुल्लयपाली २४ देविदृक्षय २५ गणियोक्त २६ चतसराण २७ संथार २८

आवरपञ्चरकाण २९ भक्तपरीज्ञान ३० चन्द्रयिक्त ३१ माहापञ्चरकाण ३२ मरणविभक्ति ३३

॥ अथ दशपयन्ना मूल सूत्र प्रारंभः ॥

वृहन्नगोरी लीकागच्छीय वाचनाचार्य्य रामचंद्रजीगणी ऋनानकचंद्रजीकी आशानुसार

[प्रतापजी अर्घ्यमहतरा करकेसंशोधितहोके मुद्रितहुया] बनारस जैन प्रभाकर प्रेस] सयत् १९४२ । सन् १९७६ ईसयो ।

५०० विमवुत् सुसाहटी से
५०० राय धनपतिसिंह बहादुर

पहिली दफे १००० पुस्तके
दास फी पुस्तक ५) और
जैनी भाइयो के लिये २॥]

२) दा:

भूमिका ।

श्रीमद्दूगढगोत्रस्यपृथुयशसो धीरदासामिघस्य पुत्रोमहनीयकीर्तिधुधसिहनामधेयश्चासीत् “ तत्सूनुर्गुणवा
नूवदान्यश्चश्रीप्रतापसिंहोभवत्,, तस्यधर्मार्थाश्रतस्त्रआसन्,, तासुधयाकनीयसीसती, तस्या कनीयान्सुती ल
सत्कीर्तिधामिकाग्रणीधीमान् दातागुणशामणी रायवहादुरेतिमुप्रसिद्धोघनपतिसिंहोवरीवति ,, सचलोकोपकृ
त्यैशुभस्य जैनागमसङ्ग्रहस्य सुललितानि पञ्चशतपुस्तका समुद्रयित्वा तावत्सुधस्थलेषु तावन्त्यैवपुस्तकागा
राणि आरचितवान्, येन सत्सोधव आवका अनायासेन पठन्पाठन च कुर्यन्तु, जिनशासन वसुधाया चि
रतिष्ठतु, विज्ञानद्विरस्त्वतीच्छ्रया, तस्य जैनागमसङ्ग्रहस्य चतुर्विंशतिभागमारभ्यत्रयस्त्रिंशभागपर्यन्ते दशभि
र्भागैः सयुतो दशपयन्तामिघशागम सुललितैः सीसकाक्षरैः सशोध्यसमुद्रित , अस्यभागाश्रमे, तन्दुलबयाली
२४ देविदुस्तव २५ गणियिज्ज २६ षउसण २७ सधार २८ आउर पञ्चस्काण २९ भट्टपरिज्ञान ३० चद्र
यिज्ज ३१ महापञ्चरकाण ३२ मरणविमत्तिसङ्गका ॥

॥ ए॥ दर्शन॥ नम ॥ निज्जरिष्यजरामरण वदित्ताजिणवरमहाधीर । धुत्यपहन्नगमिण तंदुश्यवेश्यालिगनाम ॥ १ ॥
 सुणहगणि एदसदसायाससयाउस्सजहद्विज्जति सकलिणवाग्गसिए जयायसेसयहोड ॥ २ ॥ जतिश्चमित्तेदिवसे जति
 यराइमुज्जत्तमुस्सासे गप्पतिवसइजीवे श्याहारविहिंचवुच्छामि ॥ ३ ॥ दोन्निश्चहोरतिसए सपुन्नेसतसतेरिचेष गप्प
 मियसइजीठं श्छमहोरत्तमित्तं च ॥ ४ ॥ एएउश्चहोरत्ता नियमाजीवस्सगप्पयासंमि हीणाहियाउडत्तो उयघाययसे
 णजायति ॥ ५ ॥ श्छसहस्सातिन्निउसया मुज्जप्पाणपन्तयीसाय गप्पगउयसइजीठं नियमाहाणाहिश्चाडत्तो ॥ ६ ॥
 तिन्नेषयाकोटीउ चउटसयहवतिसयसहस्साय दसचेवसहस्साइ दोन्नि सयाएपन्तयीसाय ॥ ७ ॥ उस्सासनिस्सासाइ
 तिश्चमिहाइयंतिसकलीया जीवस्सगप्पयासे नियमाहीणाहिश्चाइतो ॥ ८ ॥ श्याउसोइत्यीएनाजिहिठा सिराडुग
 पुप्फुनालिश्चागार तस्सयहिठाजोणी श्याहामहासठियाकोसा ॥ ९ ॥ तस्सयहिठायूश्चस्स मजरीतारिसात्तमसस्स ते
 रिकाळेकुडिया सोणिश्चलययाथिमोयति ॥ १० ॥ कोसायराजोणि सबपतासुक्कमोसिया जइया तश्यायाजीयुश्याए जो
 गज्जणिश्चाजिणिदेहिं ॥ ११ ॥ यारसाचेयमुहत्ता उवरियिठुसगच्छइसाठं जीवाणपरिसखा लस्कापुज्जत्तंचउक्कोस १२
 एणपन्नायपरेण जोणीएमिलायएमहिलिश्चाण एणसधरीयपरउ श्याएणपुमतयेथीउ १३ ॥ याससयाउश्चमेश्चपरेण
 जाहोइपुव्वकोटीठं नस्सठेश्चमिठाया सप्पाउश्चथीमजागोठं ॥ १४ ॥ रतुक्कावायइत्यीलस्सपुहन्नंचयारसमुज्जप्पा यिश्च

॥ सखसयमुक्तं वारसवासाउगप्रस १५ ॥ दाहिणकुलीपुरीसस्सहाड वामायडल्यिजाएउ उन्नयंतरेनपुंसेति रिएअठ
 वरिसाइ १६ ॥ डम्मोखलुजीवो अम्मापियोसंयोगे माउउयंपैउसुक्कंतंतदुन्नयसंसठंकन्नुसकिविसंतप्पढमयाए १७ ॥
 अहारंअहारिन्नागप्पत्ताए वक्कमइ सत्ताहंकलहंहोड सत्ताहंहोइअचुयं अचुयाजायए ऐसीऐसीउविघणंमवे १८ ॥
 तोपढमेमासेकरि मृणंपलंजायइ वीएमासेपेसीसजायएघणांतइए मासेमाउएओहलंजणड ॥ १९ ॥ चउत्येमासे
 माऊए अंगाइपीणड पंचमेमासेपंचपिंक्रियाउपाणिपायंसिरंचेवनिवतेड ॥ २० ॥ ठठेमासेपित्तासोणियं उववि
 णेइ सत्तमेमासेसत्तसिरात्मयाइं पंचपेसीसयाइ नवधमणीउनवनउयंचरोमकूवसयसहस्साइंनिवन्नेइ ॥ २१ ॥
 विणकेसंमंसुणसहकेसंमंसुणा अठुठाउरोमपूर्वकोठिउनिवन्तड अठमेमासेविहीकप्पोहवड ॥ २२ ॥ जीवस्सणं
 जंतं ! गप्पगयस्ससमाणस्स अत्यिउच्चारेइवा पासवणेइवा खेलेइवा सिघाणेइवा वंतेइवा पतेइवा सुक्कीइवा
 सोणिएइवा नोडणठेसमठे सेकेणठेणं जंतं ! एवं वुच्चइ जीवस्सणं गप्पगयस्ससमाणस्स नत्यिउच्चारेइवा जाव सो
 णिएइवा गोयमा ! जीवेणं गप्पगएसमाणे जं अहारंमाहारेड तं विणाइ सोइंदिअन्नाए चस्किदिअन्नाय घा
 णिदिअन्नाए जिप्पिदिअन्नाए फासिंदिअन्नाए अठिमंजकेसमसुरोमहत्ताय से पएण अठेणं ॥ गोयमा ! एवं
 वुच्चइ जीवस्सणं गप्पगयस्ससमाणस्स नत्यिउच्चारेइवा जावसोणिएइवा ते गप्पगएसमाणेपज्जसहेण कावलियं

आहारं आहारिष्ठए गोयमा ! नोद्वणठे समठे सेकेणठेण जते ! एव बुद्धे जीवेण गल्लगएसमाणे नोपल्लमुहेण
 कावळिय आहार आहारिष्ठए गोयमा ! जीवेण गल्लगएसमाणे सव्वत्तआहारेइ सव्वत्तपरिणामेइ सव्वजससइ सव्वनी
 ससइ अन्निरुक्कणआहारेइ अन्निरुक्कणपरिणामेइ अन्नि०ऊससइ अन्नि०नीससइ आहसव्वआहारेइ आहसव्वपरिणा
 मेइ आहसव्वजससइ आहसव्वनीससइ माऊरजीवरसहरणी पुनज्जीवरसहरणी माउजीवपडियइ पुनज्जीवफुला तम्हा
 आहारेइ तम्हापरिणामेइ अवरविअण पुनज्जीवपडियइ माउजीवफुला तम्हाविणाइ तम्हाउविचिणाई से एएण
 अठेण गोयमा ! एव बुद्धे जीवेण गल्लगएसमाणे नोपल्लमुहेण कावळिय आहारं आहारिष्ठए जीवेण गल्लगए
 समाणेकिमाहारं आहारेइ गो० ! जसेमायानाणाविहाउरसविगइ उच्चिप्तकहुअकसायविलमङ्गराइदव्वाइ आहारेइ
 तउएगदेसेण उअमाहारेइ तस्सफलघिटसरसाउप्पलनालोदमानवइ नान्नीरसहरणीए जणणीपसयाइ नान्निएप
 डियइ नान्नीएतीत्तं गल्लत्तअयअईय इअयतीएउय एनीपगल्लोविद्यइ जावजाउन्नि कइण जते ! माउअगा
 पन्नत्ता ? गोयमा ! तउमाउअगा पन्नत्ता तजहा मससोणिए मत्तुलुगे कइण जते ! पिउअगा पन्नत्ता ? गो
 यमा ! तउपिउअगा पन्नत्ता ? तजहा अठिअठिमिजा केसमसुरोमनहा जीवेण जते ! गल्लसगएसमाणेनरएसु
 उवज्जिज्जा गोयमा ! अत्येगइए उवज्जिज्जा अत्येगइए नो उवज्जिज्जा सेकेणठेण जते ! एवं बुद्धे जीवेण

गङ्गागणसमाणेनरएसु अत्येगईए उववज्जिज्जा अत्येगइए नोउवज्जिज्जा ? गोयमा ! जेणं जीवे गङ्गागणसमाणे
सन्नीयं पंचिदिए सद्वाहिं पज्जत्तीहिं पज्जत्तए वीरियलच्छीए विज्जंगनाणलच्छीए वेउच्चिअलच्छीए विउच्चिलच्छि
पत्ते पराणीअगइ सुच्चानिसम्मएएसेनिबुहइ निबुहित्ताविउच्चिसमुग्घाएणं समोहणइ समोहणित्तावाउरंगिणिं
सिंन्तंसन्नाहत्त सन्नाहित्ताएराणीए सिद्धिसंगमंसंगमेइ सेणजीवेअत्यकामए रज्जकामए जोगकामए रअत्तकंखि
ए रजकंखिए जोगकंखिए कामकंखिए अथपिवासिय रजपिवासिए जोगपिवासिए कामपिवासिए अथपिवा
सिए तच्चित्तेतमाणे तत्तेसे तदप्पवसिए जन्निअप्पवसाणेत्तयाहावउत्ते तदप्पियकरणे तप्पावणानाविएएयं सिवणं
अंतरसिकालकरिज्जा नेरइएसुववज्जिज्जा से एएणं एवं बुच्चइ गोयमा ! जीवेणं गङ्गागणसमाणे नरइएसु अत्येगइए
उववज्जिज्जा अत्येगईए नो उववज्जिज्जा जीवेणं जते ! गङ्गागणसमाणे देवलोएसु उववज्जिज्जा गोयमा ! अ
त्येगईए उववज्जिज्जा अत्येगईए नोउववज्जिज्जा सेकण्ठेणं जते ! एवं बुच्चइ अत्येगइए उववज्जिज्जा अत्येग
इए नोउववज्जिज्जा गोयमा ! जेणं जीवेगङ्गागणसमाणेसनी पंचिदिए सद्वाहिपज्जत्तीहिं पज्जत्तए विउच्चिए
लच्छीए वीरियलच्छीए उहिनाणलच्छीए नहारूवस्ससमणस्सवा माहणस्सवा अत्तिए एगमविअारियं धमियंसुवय
सुच्चानिसम्मतउसेज्जवइ तिवसवेगसंजायसह तिवधम्माणुरायरत्ते सेणं जीवे धम्मकामए पुत्तकामए सग्गकामए

१३
२॥

मुरककामए घमाकखिए पुमकखिए सग्गकखिए मुस्ककखिए धमपिवासिए पुत्तपिवासिए सग्गपिवासिए मुस्क-
पिवासिय तच्चित्ततम्भणे नह्वेसे तदप्पनसिए तत्तिष्ठप्पवसाणे तदप्पयकरणेतापाहावउन्नेतप्पावणाजावए एव सेण
अतरसिकाउकरिज्जा देवलोगएसु उयवज्जिज्जा से एएण अठेण गोयमा । एव युञ्जुठ अत्येगडए उयवज्जिज्जा
जीवेण जते । गप्पगएसामाणे उप्पाणएवा पासिप्पएवा अशुखज्जाएवा अत्यिज्जाया विठिज्जाया निसीहज्जाया तुय
हिज्जाया आसडज्जाया सडज्जाया माऊए मुयमाणीए मुयजागरमाणीए जागरड मुहिष्ठाए सुहिउज्जवड दुहिष्ठाए
दुस्किउज्जवड हता ? गोयमा । जीवेण गप्पगएसामाणे उन्नाणएवा जाव दुस्किष्ठाएदुस्किउज्जवड विरजायपि
दुस्केड सम्भसारकडतउजणणी सत्राहइतुयठइरस्कइ अप्पवगप्पव अणुसुयडमुयत्तीए जागरमाणीए जागरइष्ठा
सुहिष्ठाए होइयत्तुडिमुहिष्ठाए दुस्किउहोइ २ उच्चारेणसवणेखेलसिघाणउविसेनत्यि अठहीमिजनहाकेसमसुरोमेसुप
रिणामी ३ एव युदिमइगत्तं गप्पसयसइदुस्किउजीवो परमतमसघयारे अमिप्पजरिएपएसमि ४ आउसोत्तउनव
मेमासेतीएवापहुप्पन्नेवा अणागएवाचउज्जमायाअप्पवरपयायइत ५ इत्यिवाइत्यिरुवेण पुरिसवापुरीसक्खवेण नपु
सगवानपुसगक्खवेण विषवाविषक्खवेण अप्पसुक्कायत्तंअउय इत्यितत्यजायइ अप्पअउययज्जसुक्कापरिसीसवजायइ
दुक्कापिरप्पमुक्काणतुप्पजावेनपुसत्तं इत्थीठयसमात्तगोयियतत्यजायइ अइणपसवणकालसमयसि सीसेणवापाएहिष्ठा

आगच्छइसमागच्छइ तारंयमागच्छइ तिरमागच्छइ त्रिणिघायमावज्जइ कंइपुणपावकारीवारससंवच्छराइ उक्कोसं
 अत्यइत्तंगप्लवासे अमुइप्यजवेअमुइयमि जायमाणस्स जंतुस्सकंमरणमाणस्सवापुणो तेणदुखेणसंमूढोजाइं सरइनअ
 प्पणोविससरः रसतोसोजोणीमुहाउनिप्पिइ माउएअप्पणोवियवेयणमउलंजणेमाणे गप्लघरथमिजीवो कुंजीपाकं
 मिनरयसंकसे वुत्थेअमिप्लमप्पेअमुइप्यजवेअमुइयमि पत्तस्सयसिंजस्सयसुक्कस्सय सोणियस्सविश्रमप्पे मुत्तसपुरीस
 स्सय जायइजहवच्चकिमिउच्चतं इदाणिसोयकेरणकेरिसयहोइ तस्सजीवस्स सुक्करुहिरागराउजस्सु पत्तीसरीरस्स ए
 अरिसेसरीरेकलमलजरिएय मिप्लसजूएनिययंविगणिज्जं तासायमयकेरिसत्तस्सआउ सो एवं जायसजंतुस्सकमेण
 दसदिसानं एव माहिज्जाति तंजहा बाला १ किष्सा २ मदा ३ बलाय ४ एन्नाय ५ हायणि ६ एवंचा ७ पप्पारा
 ८ मुनमुही ९ सायणीय १० दसमायकालदसा १ जायमिहस्सजंतुस्सजासापढमिआदसा नतत्ययुजिउंजोएजइ
 सेअत्यिघरे धुवो ३ बीयाएकिहुयानामंजनरोदसमस्सिउ किट्टारभणजावेण दुलहगमइनरत्तवं २ तइयाएभंदया
 नामजनरोदसमसिउं मदस्समोहजावेण इत्थीजोगेहमुत्थिउं चउथीउवलानाम जनरोदसमम्मिउं समत्योवलंदरिसे
 जउसोत्तवेनिरवद्दावा ५ पंचमीइदसपत्तोआणुपुत्तीइ जोनरो समत्योअत्यचिंते उंकुहुंवचात्तिगच्छइ ६ ल्ठीमु
 थणीनामजनरोदसमस्सिउं विरज्जईअकामेसुइदिएसुपहायइ ७ सत्तमीथपचंवाउज नरोदसमस्सिउं निच्छत्त

इयिक्कण खेसखासइयरकणेखणो ८ सकुइश्चलीधम्मोसपधोश्चठमिदस नारीश्चश्चणिठोयजरापयरिणामिउ ९
 नयमीमुम्मुहीनामजनारादसमस्सिउ जराघरेयिणस्सत्तेजीयोवसइश्चकामत्त १० हीणत्तिअमारोथीणोविवरोउयिचि
 सत्त दुस्सिलोदुस्सिउसुयइसपन्नोदसमीदस ११ दसगस्सउचस्कुधोवीसइयरिसात्तठविज्जा जोगयतीसगसायवन्ना
 लीसत्तमवलमेव १२ विन्नाणपन्नासयचरकुढायइ सहिस्सइस्सयात्तयल जोगायसत्तरिश्चसीवविन्नाण १३ नउपनमी
 इसररीरयाससएजीयिश्चययइ कित्तिउत्यसुहोजागो दुहोजागोयकिस्सिउत्त १४ जीयाससयजीवइसुहीजोगेय जुज्जाइ
 तम्मा विसेयिउसेत्तधम्मोयजिणदेसिउत्त १५ किपुणसयच्चवाए जोनरोनिच्चदुस्सिउत्त सुटुयरतेणकायस्सो धम्मोयजिण
 देसिउत्त १६ नंदमाणेचरेधवलमंधरमेलत्तत्तरंजाव श्चणदमाणोविवरे मासेपावतरत्तये १७ नविजाइकुलवाविविज्जा
 याविस्सिसुरिकिया तारेडनरंयनारियासवपुस्साहिवहइ १८ पुन्नेहिहायमाणेहिपुरीसगारोविहायइ पुन्नहिवहमाणे हि
 पुरीसगारोविहहइ १९ पुत्ताइस्सलुष्साउसोकिस्साइकरणिज्जाइ पीइकराइवन्नकराइ जमकराइ किस्सिकराइ नोयस्सलु
 श्साउसोएव चिस्सेयवएसत्तिस्सलुयत्तवेसमया श्चावलियास्सणाश्शाणा पाणूधोवालवामुत्तत्ता दिवसाश्चहोरत्ताए स्का
 मासारिज्जश्चयणा सयच्छराजगायाससयावाससइस्सा वाससयसइस्सा दासाकोलीत्त वासकोलाकोलीत्त जत्यण श्चा
 म्हयत्तइसीलाइ वयाइगुणइ वेरमणाइ पच्चस्काणाइ पोसहोयवासइ पत्तिवज्जिस्सामो एठविस्सामोकरिस्सा ती

किमत्यञ्जाप्तसो नो एवं चितेयवञ्जवद् इतराद् वज्रलेखलुञ्चथं जीविए इमेयवहवेवाड्यपित्ति श्यसिञ्जियसंनिवा
इथा विविहारोगायंकाफुसतिजीविञ्चं श्यासीयखलुञ्चाउ सायुविमणुयाववगया रोगयंकावज्जवाससयसहससजी
विणो तजहा जयलधम्मिञ्चाश्चरिहतावा चक्कवहीवा बलदेवावा वासुदेवावा वरणाविज्जाहए तेणमणुयाश्चणाडवर
सोमवारहूवा जोगोत्तमा जोगुलस्कणधरा सुजायमञ्जगमुदरंगारतुप्पलपउमकरचण कोमलंगुलितला नगरगरमग
रसागर चक्ककवररुलस्कणं कियत्तलासुपडविचकुम्मचारुचलणा श्यणुपुञ्जिसुजायएवरंगुलीञ्चा उन्नयतणुत्तवनिद्ध
नहा सठिञ्चसिलिहगूढगुप्फाएणी कुरुविदावत्तवहाणुपुञ्जिजया सामुगनिमग्गरमूढजाणुगयदसणसुजासनिहोहूव
रवा रणमत्ततुल्लविक्कमविसालनीई सुजायवरतुरयगुप्पंदमोञ्चाडन्तहयत्रनिरुवलेवा मुइञ्चवरत्तरसीहञ्चडरेगवहय
कणी साहीञ्चसागंदसलदप्पणनिर्वारेपवकणगसरि सवरवइखलिञ्चमञ्जा गंगामवत्तपयाहिणावन्ततरं गजंगुरवि
किरणवोहिय उक्कोसाययमउपग मीरविञ्चुळनाजाउज्जयस मसहियसुजायवत्तणु किसिणनिहयाए जलरुहमुकु
मालमउ यरमणिज्जारोमराडं ऊसविहंगसुजायपीणकुत्थी ऊतोयरायञ्चविञ्चुळनाजा सगयपासा सनयपासा सु
दरपासा सुजायपासामि श्यमाडयपीणरइथपासा श्यकरदुयकण गरुयनिम्मलसुजाय निरुवहयदेहधारी पसत्यव
न्तीसकलस्क गधरा कणगसिलाय लुज्जलएसुत्थ समतलउवचिञ्चविचिक्कन्तपिज्जलवत्या सिरिवत्थकियवत्या पख

दुम ०
॥ श्री
भाग
॥ ०

रुद्रप्रदिरनुया जुयगीसरविउलनोग श्यायाणफलिह ठंत्यूददीद्वयाह जगसनिजपीण रइष्टपीपरपउहसठिय
उययियधिरसुवह सुसिलिठपुष्टसधी रसतलोवविद्यमउयमसलरकणपसत्य श्यल्यिहजालपाणी पीवरवहीयसु
जायफोमळ यरगुलीश्यातयलनिलिण सुठरुइ रनिहूनको चदपाणिलहारपाणिलेहा सगपाणिलेहा चक्कापाणिलेहा
सल्यिपीणिलेहा ससिरविसखचक्का ससिदपाणिलेहा वरमहिचयराहसीहसतूल उसननागयराविउलयमउदरकधा
वउरगुलसुयेमोगक युथरसरिषसगीवा श्यवठियमुधिसप्तमम् मसलमठियपसत्य सतूलविउलहाणुश्या नुश्याविय
सिलप्पथा लयियफल सनिजाधरुचा पफुरससिसगलत्रिमळ निम्मलसपागोखीर कुददगरयमुगालिया धयलदत्त
सेठी श्यखरुदत्त ऊयवहनिहृतधोयसप्ततवणिऊर उमलतालुजीहा सारसनयधणियमऊरगजीरकुवनिगयी सदुदुहिस
रा गरुलापयउजतुगनासाश्रव दारिष्यपुठरीयययणा कांकासिधधयलपुठरियपसलत्या श्यनामिष्यवाधरुईलकि
ऊचिऊरराइसुसंठिय श्यसगयश्याययसूजायनुमया श्यहीणपमाणजहसवणा सुसधणापीणमसलदेसमोगा श्यरुइ
गायसमग सनि— ३ — श्यनिहाला उरुवठपठिपुन्नसीमवयणा लन्नागारुष्टमगदेसा घणनिवियसुयरुलरकणु
नयक— ४ — गी सयचक्राज सिरा ऊयवहनिहृतधोयसप्ततवणिऊर केसतकेसनुमीसामलधाऊघणनिविश्यात्या
रुइ श्यीलाइ ययाइगुणइ वेर पसत्यसुगधिसुदरनुयमोयगजिगवील कऊलपहठजमरगणनिउ रयनिवियकुधीश्य

पञ्चाहिणावन्तेरुधुम्भरुत्कणयंजणगुणोवयेथा माणुम्माणपमाणपफि पुन्नसुजायसह्वंगसुंदरंगा ससिसौमगा
रकंतपियदंसणा सप्रावसिंगारचारुह्रवा पासाडया दरिसणिज्जा अजिह्वा पफिह्रवा लतेणुंमणुंयाउहस्सरा
मेहस्सरा हंसस्सरा कौचस्सरा नंदिस्सरा नंदिघोसा सीहस्सरा सीहस्सघोसा मंजस्सरामंजघोसा सुस्सरासुस्सर
घोसा अणुलोमघाउवेगा कंकग्रहणीकवोयपरिणामासउणी पोसपिठंतगेरुपरिणया पउमप्पलसुगंधीनीसाससुर
ज्जिवयणत्यवानिरायंकाउत्तमए सत्यअइसेसनिरुमतणू जल्लमलकलंकसेयरय दोसवज्जियसरीरा निरुवलेवा ज्जो
याउज्जोयाउज्जोवियंगमंगा वज्जारिसहनारय संघयणा समचउरंस संठाणसठिया लधणुसहस्साइंउठउच्चत्तेण पन्न
हा तेणं मणुयादोत्यप्पन्त पिळ्ळकरंदुगसया पन्नहा समणाउसो तेणं मणुयापगइज्जदया एगइविणीया पगडउ
सतापगइज्जदया पगइविणीया पगडउवसत्तापगइवणु कोहमणेमायलोत्ता मिउमद्वसंपन्ता अत्तीणात्तद्ववा अ
प्पित्या असनिहिसंबया अचंठा असिमसि किसिवाणीज्जविवज्जजया विळ्ळमंतरनिवासिणो इत्थियकामका
मेणो गेहागारुक्ककयनिलया पुळ्ळवि पुष्फफला हारात्तेणं मणुयागया पन्नत्ता आसीयसमणाउसो पुत्तिमणुयाण
लत्तिहेसंघयणे तंजहा वज्जारिसहनारायणघयणे रिसहनारायसंघयणे नारायसंघयणे अत्तनारायणसंघयणे
कीलियासंघयणे वेवहसंघयणे सपइखलु आउसोमणुयाणं वेवहसंघयणे वटइ आसीयवाउसो पुत्तिमणुयाणं

त्रयिहे सठाणे तजहा समचउरने १ निग्गोहमरुले २ सादि ३ खुऊ ४ वामणे ५ ऊढे ६ सपहखलुआउसीमणु
 याण ऊढेसठाणे व्हड सघयणसंठाणश्चउर स्याउयचमणुयाण अणुममथपरिहायह उसपिणिकालदासण १ को
 मायलोजाउ सन्तयहएयमणुयाण कूतुलकूतुमाणावेणणु माणेणससृति २ विसमाश्रुजतुलाचविसमाणियजणव
 एसुमाणाणि विसमरोमकुलाइतेणउविसमाइथासाइ ३ विसमेसुयघासेसुज्जाति अशाराइउसहिअलाइ उसहिदुआले
 णयस्याउपरिहायइनराण ४ एवपरिहायमाणेलोपव तुश्रुकालपस्कमि जेवम्मियामणुसासूजीवियंजीवियनसि ५
 स्याउसोसेजहानाम एकेइपुरीसेजाए कययलिकम्मे कयकाउयमगलपायत्तिसेसिरसिजाए कठेसालकठे स्यापिह
 मणिसुयणे अहिअसुमहयघयत्यपरिहिए चदणाकिणगायसरोरे सरससुरहिगघगोसीसचदणाणुलित्तगहे सुहमाला
 यन्तगविलेधणा कपियहाररुहार तिसरययालउपलयमाणककिमुअयसुकयसोहे पिणसागविन्नअगुलिजागल लिय
 गयललिपकस्यात्तरण नाणामणिकणगरयणकणगतुक्रियथजियनु० अहिअह्वेसस्सिरीए कुलुआवियाणाण मउ
 रुदिममरए टारुत्ययसुकय रुइययत्ये पात्वथपल यमाणमुकयापक्रिउररिजे मुहियापिगलगुलीए याणामणिकणग
 रयण विसलमडरिहानिउणोविय मिसिमिसितविरइयसुसि लठलठ स्याविह्वीखलए किंयऊणाकप्यरुस्कएवेअअल
 कियविनुसिए सुइपयपन्नविन्ता अम्मापियारो अजियादइजा तएण स पुरिस अम्मापियारो एव व्हऊजा जीव

पुन्तावाससयति तपिष्ठाडतस्सनीवज्जयंजवडं कम्दावाससयंजीवतोवीसं जगाइ जीवड वीसंजगाइं जीवतोदोऽय
णसयाइ जीवड दोऽयणसयाइं जीवंतोठउऊ सयाइं जीवड ठउऊसयाइजीवस्तो वोरसमासयाइं जीवइ वारस
मामसयाइ जीवतोवउवीसंएससयाइं जीवइ चउवीसंपरकसयाइ जीवंतोठतीसं राइदिश्यसहस्साइंजीवई ठती
संराइंदियसहस्साइंजीवंतो दसश्चसियाईमुक्त सयसहस्साइंजीवइ दसाश्चसीष्ठाइः मुक्तसयसहस्साइंजीवंतोच
न्नारिजसासकोहिसएसत्तयकोहिन ष्टयालीसवसयसहस्सा इंवऊत्तालीसवऊसासहस्साइजीवड चत्तारियऊसास
कोहिसए जावचत्तालीसऊमाससहस्साइ जीवतो ष्टतेविसतंदुलवाहेनुजइ कहमाउसोऽष्टतेवीसंतदुलवाहेनुजइ
गो०। दुह्लाए खंक्रियाणंवलियाएठक्रियाणं खाडरमुसलपह्याहयाणं ववगयतुसकृणियाणं अखंक्राणं अपक्रियाणं
फलगनरियाणं इक्किक्कवियाणं ष्टत्तेरसवलियाणं पह्यएणंनत्रियणंपत्यएमागहए कलपत्ये१ मायपत्ये२ वउसठि
साहस्सीउ मागहउएत्यांविमाहसिसएणंकवलेणंयत्तीसंकवलापुरिसस्सश्चाहारो ष्टावीसंडलियाए चउवीसंपंठगरस
एवामेवजाउसोएयाए गणणावदोऽसडउ पसडदोपसडयसेडयाहोर्ड चत्तारिसेडयाकुलउचत्तारिउलयपिठो चत्ता
रिपत्याश्चाठगाण जहंनएकुंत ष्टसीडश्चाठयणमप्पिमेकुते ष्टाठगसय उक्कोसएकुंते ष्टेवयश्चाठगसयागिवाहे एए
णवाहप्पमाणणं ष्टतेवीसतंदुलवाहेनुजइ तेवगगिनिदिठा तन्नारियकोहिसयासठिवेवयहवतिकोहीउ असा

म
श्री
म
५

इषतदुलसयसहस्साणिहवति घुमरकाय तएषश्चतेधीसतउलवाहेनुजतो अठठेमुग्गकुजनुजह लक्षीसंलयणपल
 सहस्साउनुजतीलप्यरुसाऊगसयाहनियसहदोमसिपण परिष्पृहएणवावरियहेणघरसपऊसाऊगसया हनियसेह ए
 वामेतष्ठाउसोवाससया उवस्सहृगणिष्पृतुलिष्पमविहाने हलवाणत्यायणपिएप्पगणियप्पमाण दुविहजगियमहरि
 साहिं जस्सत्थितस्सगाणिऊई जस्सनत्थि तस्सकिगणिष्पृह वयहारगणिदिठ सुज्जमनित्ययगयमुणेयञ्च जइएयन
 यिएयत्रिसनागणणामुजेयहा १ काळोयरमनिरुद्धो अत्रिनुज्जो तं तुजाप्पसमयतु समपायश्चसखिजाहवतिउं स्सा
 सनिस्सासे २ हहस्सश्चणवगसस निरुयकिठस्सअतुणो पगेउसासनिसकेए सपाणुत्तिवसुह ३ सप्तपानुगिसोघोवे
 सत्त घोवाणिसेउवे लयाप्पसहहसरी एएसमुज्जप्पे चियाहिए ४ एगामगम्मण जते ! मुहत्तस्सके वइयाउसासा
 वियणीहििया गोयमा । तिन्ति सहस्वसहयसयाहते चप्पारिचउमासा एसमुज्जप्पो जणितं सप्पेहिं अणतनाणी
 हि ५ दोनालियामुज्जतो सठिपुणनालियाश्चहोरत्तो पत्तरसश्चहोरत्तोपरेकाए रेकादुवेमासो ६ दाहिम्पुप्पगारा
 लोहमठनालिआउकायहा सीसेतलमित्थिहचिदप्पमाणपुणोवात्थं ७ उअउहपुत्थवाला तिवासजायाएगोतिहाणीए
 अस्सवलियाउक्कयनापसुनालियात्थिहुं ८ अहवाठपुठवाला दुअसजायापगयकरेणूए दोवालाउअजगानोयसुना
 लियात्थिहुं ९ अहवासुवणमासा चप्पारिसुवहियाचणामूर्द्धं अउरगुलप्यमाण नापसुनालियात्थिहुं १० उदगस्स

नालियश्चान्वन्ति द्वाष्टाढयाउपरिमाणं उदगचक्राणियवृंजारिसयंतपुणोद्युच्चं ११ उदगंखलुनायवृंकाय वंदूसपह
परिपूय मेहोदगंएसन्तंसार इयवागिरिनईए १२ वारसमासासवत्यारोउवस्काय पेउचवीसतिन्नोवयसहि सया
हयंतिराडादिष्णाणंच १३ एगंचयसहस्सतेरसचेवयजवेसहस्साइ एगंचसयतजयं हवंतिराइदिअसासा १४ तिहीसस
यसहस्सा पचाणउडनवेसहस्सइं सत्तयसयाश्रुणूणाहवति मासेणउसासा १५ चत्तारियकोळीउसतेवयज्जांतिसयसह
स्साइ श्रुणूयालीससहस्सा चत्तारिसयायवरिसेणं १६ चत्तारियकोळिसयास तयक्कोळिउज्जातिश्रुवरानु श्रुणूयाल
सयसवत्तालिस सहस्सा १७ वाससयाउस्सेएउस्साईतियामुणेयत्ता पित्यहश्चाउस्सखयशांहानिसंभिवृदमाणस्स
१८ राइदिएणतीसतमुज्जात्तालवसयाउमामेणंहायंतियमप्ला णंछयणश्रुहहाथियाणंति १९ तिन्निहस्सेमगलेत्यच्च स
यउमुत्ररोहरइशाउं हेमंतेगिम्हसुयदासामुयहोडनायवृं२० वाससयंपरमाउंइतोपन्नासहरइनिद्दाए इत्तोवीसइहाय
डवालत्तेवुहजावेय २१ सीउह्णथगमणेरघुहापिया सानयवसोगाय नारविहायएगोहव तीतासाइएत्यद्धे २२ ए
वंपचासीईनळा पंनरसमेवजीवति जेज्जांतियाससइनयमु लहावाससयजीवी २३ एवनिस्सह रमाणुसत्तणेजीविए
श्रुहिवत्तंतेनकरेहचरणधम्मं पत्योपत्याणुत्तपिहइ २४ तुहमिसयंमोहजीणेहिं वरधम्मत्तित्यमगास्स श्रुत्ताणंवनया
णाइ हजायाकेम्मजूमीए २५ नइवेगसमचवलंजीविय जीवणंचकुसुमसमं सुखंचजमनियत्तं तिन्निवितुरमाणञ्जुया

१३५
॥ श्री
भाग
८ ॥

इ २६ एयपुजरा मरणपरिस्त्रियद्व घग्गरावमयजूहं नयणवित्यदृष्टसमूहामोहजालेण २७ श्याठसोसोहपिडम
सरीरदृष्टं पियंरुंरुंमणुणमणाममणनिराम धिज्जवनामियसमयवज्जमय श्यणुमयनरुकररुगसमाण रयणकरंरुउवि
धमुसा गाधियंरुलापयिय सुसपरिबुद्धंतिस्त्रपेलायियमुसगाविय माणउरु माणसीय माणखुहा माणपियासा मा
णयारा माणयाला माणदसा माणमसगा माणवाडयपिधियसिजियसनिवाडय त्रिविहारागायकाफसतिहिकहु
एयपिपाडश्यधुयश्रनिय यश्रसासयचउ वसडयविप्यणानयमपत्याथपुराथश्रसविपचडय संपयस्सधियाड श्याउ
सा श्यणुपुमेण श्यठारसयापिठकररुगसंधीउ थारसपामुलिकरंरुत्यप्य सुलिणकराहेविहस्रियाकुत्थी वरुणगुलीश्या
गीयाचउपलिश्या जिप्लादुपलियागिश्रत्यणि अउकथालसी रयसीसदंक्षा सधुगुलियाजीहाश्रुहु पलियहैययण
णधीसपलाड कालिश्चंदाश्रतापचवामा पन्तसा सजहा वामेरासेदाहिणेणामय तत्यणजेमवामेपा सेसुहपरिणामे
तत्यणजेनतणुयतसेणपासवणेपरिणमड दीणमापचवामा पन्तसा तजहावामेणसेदाहिणेणसेय तत्यणजेसवारोध्या
सेसुह परिणामेतत्यणजसे दाहिणेपासेदुहपरिणामे श्याउसोहमेसरीरएसठिस सस्रिसयससुतरमससय तिन्निश्चहि
दामसयाइ नयज्जाकयसयाइ सधुसिरासयाइ पश्यायसीसथाइनवधमणीउ नयनउहचरोमकूयसयसहस्सइ विणाके
सममुगा सहकेसमसुणाश्रुठुठाउ रोमकूयकोठी उश्याउसोहममिसरीरएसठि सिरासयनानियनप्राणउहगामि णी

पांसिरमुवागयाणं जाउरसहरणी उत्तिवुव्वंति जाणंसिनिरुवघात्तेणं चरकुसोयघाणजीहावलंजवइ जाणसिउव
घाएण चरकुसोयघाण जीहावलउवहम्मड श्वाउसोइममिसरीए सठंसिरासयं नाज्जिप्यज्जवाणं श्वाहोगामिणीणं
पावतलमुत्रगयणे जाणसिनिरुवघाएणं जघावलंश्वइ नाणंचेव सेउवघाएणं सीसावयणा श्वसीसवेयणामेत्य
यसूले श्वत्थीणि श्वधिश्चत्ति श्वाउसो इमं मिसरीए सठंसिरासय नाज्जिप्यज्जवाणं तिरियगामिणाणं हत्थलमु
दगयाणं जाणसिनिरुवाघाएणं बाज्जवलहवइ ताणचेवासउवघाएणं पासवयणा पुठावयणा कुत्थिवेयणा कुत्थि
मूलेजवइ श्वाउसोइमस्स जतुस्ससठंसिरासयं नाज्जिपज्जवाणं श्वाहागामिणीणं गुदपविष्ठाणं जाणंसिनिरुवघाएणमु
त्तपुरीसववउक्कम्मंपवत्तड ताणंचेव उवघाएण मुत्तपुरीसवाउनिरोहेणं श्वरिसानुखुज्जत्ति पंहुरोगोजवड श्वाउसो इ
मस्सजतुस्सपणधीसंसिरानु संचधारीणीउणवीसंसिराउ पित्तधारिणीउदससिराउमुक्कधारिणीउ सत्तसिरासयाइं पु
रिसम्मती मुणाइ इत्थियाएविमूणाइ पिंहुगस्सश्वाउसो इमस्सजंतुस्सहिरस्सश्वाढयवसाए श्वाढयमत्तुलुगस्स पा
यामुत्तस्सश्वाढयं पुरिसस्सपत्थोपित्तस्स कुलवोसिज्जस्सकुलवोसुक्कस्स श्वत्तकुलवोजंजाहेदुठंजवइ तंताहेश्वइप्यमा
ज्जवइ पत्रकोठेपुरीसो त्यक्कोठाइत्थियानवसोएपुरिसं इक्कारससोथाइत्थिया पंचपेसीसयाइ पुरीसस्सतीमूणा
इत्थियाए वीमूणाइपहुगस्स श्वप्पंतरसेकुणमंजोपरीयत्तेउ बाहिरकुज्जातं श्वप्पुइंहुणंसयायज्जाणणीदुगंत्तिज्जा मा

तिलयसत्रिसेसं रायएणअहरेण सकरुकरसत्रियारतरलथ्यंजोवणत्याए १२ पिनसिवाहिरमठनपित्तनीउप्लरंकलि
मलरस मोहेणनवयतोसीसघनीकिंजियंपियसि १३ सीसघनीनिगोलजनिठुहसादुगुवृसीजंत्र तचेवरागरत्तोमूढोअ
इमुत्थिन्तपियसि १४ पूडयसीसकवालंपूडयनासंचपूडयदेहच पूडअत्थिदुत्रिदुपूडअचम्मेणउपिणरुं १५ अंज
णगुणसुविवरु क्काणुवट्टणगुणेहिंसुकुमाल पुप्फम्मीसियकेसजणइवालरसतराग १६ जसीसपुरउत्तिअप्पुप्फाइत्तगति
मंद विन्नाणा पुप्फाइत्तिअता सीसस्तयपूरयसुणह १७ मेउवसायरसियाखेलसिघाणएयत्तुत्तणअ अइसीसप्लरउ
नेनियगसरीरमिसाहीणा १८ सोकिरपुप्फात्तिपूरावच्चकुलीदुप्पुयाजवविम्माल क्कुरवेट्ठिअगघविलित्यावालजणो अ
इमुत्थियगिहो १९ जंपेमरागरातोअवयासेउणगूढमुत्तलि दंतमलचिक्काणगंसीसंगनीकंजियपियसि २० दंतमुत्तले

पुंस्यसरीरपुद्गलसतसुक्लहठेणं परिसठवियसोहृद्द शृक्लायणगधमक्षेण इमचेवयसरीरसीसघनीमेयमऊमसठिय
 सत्रुलुग सीणीश्रवालुफयधम्मा कीसनासियसिघाणोयधीम छालयश्रमणुणगसीस घनीजजियगलतनयणक्काणोठ
 गळशालुयंश्रवालुपास्त्रिप्ल चिक्काणविलियदतमलमडलयी न्त्यदरिसणिऊश्रजवाऊलगयगुलाये गुठगनहसधि
 सघायसधियमण यऊरसिश्चगार नाछधधत्यिराश्रणेगळरुधयऊधमणिसधि यरूपागळउदरकघाल करकनिकुळ
 करकगकलिश्चदुरंत श्रुठिधमणिससाणसतय सधुउसमतापपरिसयतघ रोमकूवेहिसयश्रसुइसजायउ परमदुगधि
 कीलिऊयश्रतपिप्ल जरहिययगोफसाफुफसपिलिहोदर गुठकुणिमनवठिदुधियिधियिधि वतहिययदुरठिपिप्लसिं
 भमुहो सहाययणसधुठसहायण सधुउदुरसगुप्लोरुजाणुजघा पायसधियश्रसुइकुणिमगधि एव चित्तिऊमाण यीन्त्य
 दरिसणिऊ श्रुधुवश्रनिययश्रसाचय सळणपळणविधुसणधम्म पत्यात्रपुराश्रवस्सवइयधुनि उसुठुजाणहएवश्रु
 निठणपरि सुसुइमणुपाणदेह एसयरमत्यउसयवो सुक्कामिसोणियमितूउजण गिकुत्तियमप्लमित्थेश्रमिप्लर सनध
 मासघुठिउसतो १ जीणीमुहनिप्विठिठघणगठिरेणप्रहिउजानं पगश्रमिप्लमइठ कहदेठोधोठउसक्को २ हाश्रु
 ३ श्रुवियनयानिगाया यसेणवेवदारेण सत्तयमोहपसप्तयारमतितात्येश्रसुइदारमि ३ किहताययरकुलीरीकइसह
 स्से हिश्रुपरितवेहि वन्तिदइश्रमुइमिलजघणतिसकळमूठेहि ४ रागेणनजाणतेतवरायाकळमलस्सनिधुमण ता

गं वरिणदंती फुल्लंनोलुप्यलयणं च ५ किंविश्रमिनोवन्तेश्चमिप्लनडयंमिब्रज्जसद्योए रागोज्जनकायश्चोविरागमूलेसुरीरं
 मि ६ किमिकुलनयसकिप्लेश्चामयमसारे सेवमलपुत्रुंमोनिह्येयं वच्चहसंरीरे ७ दंतमलकणघूहसिंधाणमलेयलामल
 वज्जले एवारीनचीत्तयेदुगंठणिज्जंमिकोरागो ८ कोसकणपकणविकिरिणविहंसणवयण मरणधम्मंमिदेहमिच्छही
 लासो कुहियककणकठनूणंमि ९ कोकागत्तुणत्तगेखेकिमिकुलत्तयेववाहिनत्तये देहमिमवुत्ततेसुसागत्तंमिकोरागो
 १० अत्तुडअमिप्लमुत्तं कुणिमकालेवर कुणिपरिवसंति अगंतुयसंठवियंनवठिदुमसासयंजाण ११ पित्तसिमुहंस
 तिलयसविसेसं रावणअहरेणं सककणकंसवियारंतरलत्तंजोवणत्याए १२ पित्तसिवाहिरमठंनपित्तनीउत्तरंकलि
 मलत्त मोहेणनययंतोसीसवन्नीकिंजियंपियसि १३ सीत्तवन्नीनिगोलजंनिठुहसादुगुत्तसीजंवं तंचेवरागरत्तोमूढोअ
 डमुत्तियन्तपियसि १४ पूडयसीत्तकवालंपूडयनासंचपूडयदेहं च पूडअत्तियदुविठिदुंपूडअत्तम्मणेणउपिणंठं १५ अंज
 णगुणत्तुविचरुं ज्ञाणुत्तहणगुणेहिंत्तुकुमाल पुप्फात्तिसियकेसंजणड्वालत्तसंतराग १६ जंसीसपुरउत्तिअप्पुप्फात्तणत्ति
 मंदं विन्ताणा पुप्फात्तविअत्ता सीसत्तयपूरयंतुणह १७ मेउत्तसायरसियाखेलसिंधाणएयत्तुत्तणअ अहसीत्तत्तरउ
 ज्जेनियगत्तरीरमिसाहीणा १८ सोकिरपुप्फात्तपूरावच्चकुहीदुप्पुयाजवविम्माल क्कणवेठिअगंधं विलित्यावालजणो अ
 इमुत्तियगिहो १९ जंपेमरागरात्तोअवयासेउणगूढमुत्तलि दंतमलचिक्कणगंसीत्तंगलीकिंजियंपियसि २० दंतमुत्तले

सुगेहीगया ग मसेयसमयामियाण घालेसुयथमरीणवमनदेहीवियाणच २१ पूइयकाएयडहनववण मुहेनिञ्चकालधिन
त्ये ष्याडस्कसुसम्भावकिमिअगिहोसुसमूढा २२ दताविष्णुकज्जकरावालाविविधहमाणथीनत्या यम्मपियविजत्यन
णकिस्तिमितगउराग २३ सिनेपित्तेमुंनेगूहमिवसाइदसकुलीसु नणसुकिमत्यतुम्भश्चमुहमिअियहिउंरागो २४ जधक्रिया
मुऊरूपहठियातहठियाकलीपिठी कलीयठियेठियाइ अठारसपिठिअठिणि २५ दोअत्यिअठियाडमोलसगीवहि
यामुणेयवा पिठिअठियाउधारसकिलपंसुलोऊंति २६ अठियकठेणसिरत्तोरुयघणेममवमालवमि विठाकोऊगा
रक्षाधश्च घरोवमेरागो २७ जहनामवञ्चकूयोनिञ्चनिणिनिणिनिणंतकायकली किमिएहिंसुलुसुलायइ साएहियपूड
ययहइ २८ उठियनयणस्वगमुहविक्किद्वियाविप्पइ नयाऊलय अतत्रिकद्वियमालसीसघलीपागक्रियगोर २९ निणि
निणिनिणतसहविसप्पिय सुलुसुलतसोऊ मिसिमिसिमिसतकिमिय धिधिधिविधियतथीनत्य ३० पागक्रियपासु
लियगरागलसुऊसधि सघायपक्रियनिक्केयणसरीरामयारिसजाण ३१ वञ्चाउअमुइतरनवहिसोएहिपरिगलतहि
अगममञ्जगऊअनिहेययइहसरीरे ३२ दोइत्याटापाघासीसउअपियकधधमि कलमलकोठागा एरिवहसिदुयाकु
ययञ्च ३३ तथकिरसञ्चवतवञ्चतरायमग्गमोइन्त परमगेहिसुगधयमन्तअप्परणागध ३४ पाऊलचपयमत्तेयअग्गु
रुचदणकुऊअमीस गधसमोयरतमन्ततेअप्पणोगध ३५ जयवाससुरहिगधचतेसुहअग्गुरुगधियअग्ग केसहाणसु


गंधाकयरोतेऽप्यणोगंधो ३६ इत्यिमलोकन्तमलो खेलोसिंघागडऽपूउऽप्य अमुडमुत्तपुरीसोएसोतेऽप्यणोगंधो
 । ३७ जाडविऽप्यमानु इत्यियांनुऽप्यणेगे हिंकडवरसहस्सेहि विचिहपासपहि वधेहि कामरागमोहेहि वन्धियांनु
 ताडविपरिसाड तजहा—एगडविसमानु पियवयणवल्हरीउकडवयापमगिरितहीउ अचराहसहस्सघरिणीउपन्नवो
 सोगस्सविणासोबलस्स साणापुरीसाणंनासोलज्जाए सकरोअविणयस्स निलडनिअहीणं खणीवडरस्स सरीरसो
 गस्सजेउमज्जायाणं आसउरागस्स निलडदुअरियाणं माइएसमोहोखलणनागस्स चलणंसीलस्सविएयाधम्मस्स
 अरीसाहूणं दूसणआयार पन्नाणं आरामोकम्मरयस्स फलिहोमुक्कमग्गस्स जवणंदरिहस्स अविआइवाड आ
 सोविखाविकुवियानु मत्तगनुविवमयएरवमानु वथीविवदुठहिअयाउतेणत्यन्नकूवोविवअप्यगासहिआयानु मा
 याकारडविचया रसबंधणपउत्तानु आयरियंसविधपिववज्जाभ्यसज्जावानु फुफयाविवअतोढडणंसीलानु नगामगौ
 विवअगवठियविज्ञानु अंतोदुहवणो विचविचलस्सजावानु मत्योविवदुपरियत्तणसीलाड वानगेविवचलचित्तानु
 मवूविवनिह्मिसेसानुकलोविवनिरणुकपानु वरुणोविवपामहत्याउमलि लमिवनिन्नगामिणाड किवणोविवनुत्ताण
 हत्यानु नरडविवउत्तामणिज्जानु खरोडवदुस्सालानु दुठमौविवदुहमानु वालोइवमुज्जहहिययानु अंधकारमिवदु
 यवेमानु विसवल्लीविवअणल्लियणिज्जानु दुठगहोइववावीअणवगाहानु वणत्तताविवईस्सराअप्यसंसणिज्जानु

किणगफठमिभ्रमुहङ्क राउरिष्ठमठीविषयाल्लोजिजातं मसपेसीगहणमिभ्रसायद्ववाउ जलियचुळीविषयमुच्च
 माणहणसीलानं अरिष्ठमिषदुषघणिळातं कूळकरिसायणोविषकालयिसवायसीलातं वळसीलोविषदुगतणिज्जातं
 अहविरसारदुगळितया पुरुषचराउ अगंजीराउअविस्वसगिजाउ अणविस्थितदुस्करस्किशातं दूकपालियातं
 अहकारउ ककसतं ददवेरातं अवासाहगाउममसातं जुयगगडकुळिलद्विययातं कतारगडठाणजूयातं कुलसयण
 मिप्राजयणकारियातं परदोसपगासियातंकयघातं चलासाहियातं एगंतहिरणकालातं चचलातं जायजळवगा
 रोविषमुहएगविरागातं अयियाइतातं अतरंजगसय अजाउपासोअडाह्या अळवीअणालस्सनिळतं अहस्क
 वेयरणी अनामियातंवाही अयिउगोविष्यलायोअरुउदसगौ रडयाताचिहयिसमोसहृगतं दाहोएणपप्पमूयाथ
 जामणी असलिलप्यलायोसमुहरतं अयियाइसासिह वियशापअणेगगणिनामनिरुप्राणिपुरिसकामरागप्यक्रियठे
 नागविहेहि उकायसयसहृमो हिमहयधणमाणपति पुरिसाणनोअवापरिसो अरीअत्यासिनारीतं तजहा नारीस
 माननराणाअराउ नारीउमाणाधीहेहिंसिप्ययाई एहपुरीसेमोहंतित्तिमहिलाउ पुरीसमत्तेकरातिप्पिमयतं महंतक
 लिजणयत्तिमहिलियातं पुरिसेहोवजायमाइए हिरमतिप्पिराउ पुरीसअगणुराएकरित्तिप्पिअगणातं नाणाजा
 यिहेसुजठतंअणसगमेळोयी सुमुद्राणगिइणसीउहदुक्कसुक्क किळेसमार्हएपुरीसलायतिप्पिलळणातं पुरीसेजोगनिउ

न
 नी
 ॥

ए हिं वसेठावितित्तिजोसियाउ पुरीसेनाणात्रिहे हिंजावेहिविणिंतित्तिवणिष्ठाउ काडएमन्नजावकाडयणयं सवि
प्रमकाडससहंसासिहंसासिहंसासिहंहरंति कासत्तवरोरोडवकाईणयएसुयणमति काइएवणएसुउवमंतिकोर्डकोउ
यनमति काउमुककृकमिरिस्कएहिंसवि लासमुक्रेहिंउवहसिएहिंउवगूहिंएहिं उवसदेहिगुरुगदरिसणेहिंच नूलि
लिहणविलहणेहिंच श्यारुहणनहणेहिंश्याललयउवगूहणेहिंच श्यंगुलिफाऊणघणपालणकफितकृजायणाहितणाहिं
तज्जणाहिंच श्यविथाइंताउपागांवव सिउंजेपुकुकुहृखुपिउ जेमचुवमरिउजे श्यगजिहृहृहिउंजे श्यसिहृत्थिज्जिउं
जेश्यसिमसिसारित्थीणं कतास्कवाऊवारयसमाण घोरनिउरंबकंदरचलं तवीजत्थजावाणं १ दोसयसगरीणंश्यजस
सउविसप्पमाणहिययाणं कडवपत्तन्नणत्ताणं श्यन्नायसीलाण २ श्यन्तरयतिश्यन्तरमति श्यन्तंप्रदितिउल्लावं श्यन्नो
दकतरिउ श्यन्नोपयऊतरेठविउं ३ गंगाएवालयसायरेजलं हिमवउयपरिमाणं उग्गस्सतवस्सगडउंगप्पत्तिंचवि
लयाए ४ सीवेकुंऊवयारस्सपुहलंकुकुयाडयश्यस्से जाणत्तिशुठिमंतामहिलाहिययनपालति ५ परिसगुणजत्ताणंता
णजडयवसठिगमणाणं नऊजेवीससियहंमहिलाणजीवलोगमि ६ निठनयंचखलयंपुप्फेहिंविवाहियंचश्यारामं नि
दुठियंचधेणुलोइहृयतिहियंपफं ७ जेणतरेणनिमिसंतिलोयातस्कणंश्वविगसति तेणतरेणंहिययंपिनिरत्थयंहोई ८
किपुवेहिपियाइवश्यात्थणव पफिणंजोमरणदेशकालेनहोइश्यालवणकिवि ९ पुन्नावयंतिमिन्नावयति नजामि

णमयषयइ तमरणदेदसकालेनषयइसुयिइज्जउधम्मो १० पीइकरोवणकरोजासकरोरइकरोय अजयकरनियुइकरो
 पारसविइज्जउधम्मो १३ अमरधरेसुअणोवमअत्र जोगोवजोगरिठीय विन्नाणस्ससुमेवयलअइसुकपणधम्मोण १४
 दयिअक्कअहित्तणाइ रत्ताइइत्थियाजोगोपयाइ धम्मलानफलाइजअविनिष्ठाण १५ आहारोउस्सोसोसधित्तराउय
 रोफूआय पिअरुठिरमुक्काणियगणियपपडापेहि १६ एयसोउसरीरस्सवासाणगणियपागअमहत्थ मुक्कएउमस्सइ
 इइसमतसइस्सपन्नस्स १७ एयसगअसरीरजाइ जरामरणवेयणावज्जलेय तइपन्नइकाउजेअइमुअइसअकुरकाण १९
 तदुलवेयालीपइन्नसमत्त ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥



॥
 ॥
 ॥

१
२
३
४

पुद्गलीखा दादीशकुमारिंदा पुन्नेयतहायसिठेय १६ दोउदहिकुमारिंदा जलकतेजलपनेयनामेण अमियगइअमि
यथाहण विसाकुमाराणदोइदा १७ दोवाउकुमारिदावेलघपन्नजणेयनामेण दोघणियाकुमारिदाघोसेयतहामहाघोसे
१८ दोविजुकुमारिदा हरिकतहरिस्सहेयनामेण अग्गिसिद्धअग्गिमाण यज्जयासणयइविदोइदा १९ एअधिकसियन
यणे दसदिसियसियकुसामएकहिवा जयणयरमुहनिसान्तसुणजवणपरिगाहमिमेसि २० चमरवइरोअणाणअसुरि
दाण महाअुजागाण तसिजवणवरारण चउसठिमहेसयसइस्से २१ नागकुमारिदाणे जूयाणदघरणाणणइपि तेसिजव
णवराणअुलसीइमहेसयसइस्से २२ दोसुयणुमुयणिदा वेणुदेवेयवेणुदालीय तेसिमवणवरारण यावसरिमोसयसइस्सा
२३ वाउकुमारिदाण वेलघपन्नजणाणदुरहपि तेसिजवणवरारणअुलसीइमहेसयसइस्से २४ चउसठीअसुराणअुलसी
इअेवहोइनागाण यावत्तरिसुवणाअयाउकुमाराणअनउई २५ दोवदिमाउदहीण विद्युकुमारिदमणियमग्गीण अइ
पिजअलयाण यावत्तरिमोसयसइस्सा २६ इक्किअमियजयालनियमा लावत्तरिसयसइस्सा सुदरिठीलाइहिए ठिइवि
सेसनिमामेहि २७ वरमस्ससागरोषम सुदरिउक्कोसियाठिईअणिया साहियायोघअा अलिस्सयइरोयणिदस्स २८ जे
दाहिणाणइदाअरणजूणसेसयाअणिया पालिउवमदियइठिइउउक्कोसियोत्तेसि २९ जेउअरेणइदाअलिमुतूणसेसया
अणिया पालिउअमाइंअुन्ति उदेमूणाइंठिइत्तेसिं ३० एसीविठिइविसेसी सुदरअुवेधिसिठअुवाण जोमिअमुरवराणसु

णञ्चणुजागेसुनयराणं ३१ जोञ्चणसहस्समेगं उग्गहित्तूणञ्जवणनगराइं रथणप्पजाडसञ्जे डक्कारसजोञ्चणसहस्से ३२
ञ्चंतोचउरंसाखलु ञ्चहिमाणोरहसहावरमणिजा वाहिरउंविद्यहा निम्मलवइरामयसञ्जे ३३ उक्किन्तंतरफलिहा ञ्चञ्चं
तरउंञ्जवणवासीण ञ्जवणनरोविरायति कणगसुसिलिठयागारा ३४ वरपउमकणिया मंठियाहिंहिठासहावलठेहिं सो
हिण्डठाणाइंहिं विवहमणिञ्जत्तिविस्सेहिं ३५ वंदणपयठिण्हिय ञ्चासत्तोसत्तमत्तदामेहिं दारेहिपुरावरा पफागमाला
उरारम्मो ३६ ञ्चठेवजोयणाइ उच्चिठाञ्जंतितेदुव्वारवरा धूमघण्टियाउलाइ कंचणिदामोवणिष्ठाणि ३७ जेहिदेवाञ्ज
वईवरतरुणीगीयवाइयरवेणं निच्चमुहियापमुइयागयपिकालनयाणंति ३८ चमरेधरणेतहवेणु देवापुणेयहोडजलकं
ते ञ्चमियगइवेलेवेथोसेञ्चञ्चरीञ्चञ्चगीसिहे ३९ कणगमणिरथणधूञ्जियरम्माडवेडयाइञ्जवणाइ एणसिंदाहिणउंसे
साणंदाहिणेपासे ४० चउत्तीसाञ्चयालाञ्चत्तीसंचयसहस्साइं वन्नापन्नासाखलुदाहिणउहित्तिञ्जवणाइं ४१ तीसाच
त्तालीसाचउत्तीसयेवसयसहस्साइं त्तीसात्तायालीउत्तरुड्ढंतिञ्जवणाइं ४२ ञ्जवणवइविमाणवईणंतायन्तासायाला
गपालायसञ्जेसत्तिन्निपरि सासमाणचउगुणाञ्चायरस्कानं ४३ चउसठीसठीखलुच्छञ्चसहस्सात्तहेवचत्तारि ञ्जवणवइ
वाणमंतरजोइसियाणंचसामाणे ४४ पंचगामहिसीउचमरवलीणंहवंतिनायत्ता सेसयञ्जणिंदाणंच्चञ्चेवयञ्चग्गमहीसी
उं ४५ दोचेवजंबुद्दीवेचत्तारियमाणुमुत्तरेसोल च्चञ्चारुणेसमुद्देश्चयञ्चरुणंमिदीवंमि ४६ जंनामएसमुद्देदीवेवाजं

॥ द
॥ व
॥ म
॥ ०

णुदालीखा दादीप्रकुमारिदा पुन्नेयतहायसिठेय १६ दोउदहिकुमारिदा जलकतेजउपनेयनामेण अमियगइअमि
यवाहण दिसाकुमाराणदोइदा १७ दोवाउकुमारिदावेलथपनजणेयनामेण दीधणियाकुमारिदाघोसेयतहामहाघोसे
१८ दोविजुकुमारिदा हरिकतहरिस्सहेयनामेण अग्गिसिइअग्गिमाण चक्रयासणघइयिदोइदा १९ एअधिकसियन
यणे वसदिंसिवियसियकुसामएकहिषा नयणयरमुहानिसान्तसुणनवणपरिगाहमिमैसि २० चमरवइरीअणाणअसुरि
दाण महाणुजागाण तसिन्नवणवराण चउसठिमहेसयसहस्से २१ नागकुमारिदाणे जूयाणदघरणाणणइपि तेसिन्नव
णवराणअुलसीइमहेसयसहस्से २२ दोसुयणुमुयणिदा वेणुदेवेयवेणुदालीय तेसिमवणवराण यावत्तरिमोसयसहस्सा
२३ वाउकुमारिदाण वेलयपनजणाणदुएहपि तेसिन्नवणवराणअुलसीइमहेसयसहस्से २४ चउसठीअसुराणअुलसी
इअेवइोइनागाण यावत्तरिसुवणाणयाउकुमाराणननउइ २५ दीवदिमाउदहीण यिद्युकुमारिदमणियमग्गीण अुए
पिजअलयाण यावत्तरिमोसयसहस्सा २६ इक्किक्कामियजयालनियमा लावत्तरिसयसहस्सा सुदरिलीलाठिठिए ठिइयि
सेसनिमामेहि २७ वरमस्ससागरोवम सुदरिउक्कोसियाठिइजणिया साहियायोघहा थलिस्सवइरीयणिदस्स २८ जे
दाइिणाणइदाचरणनुत्तुणसेसयाजणिया पालिउवमदिवइठिइउउक्कोसियोसेसि २९ जेउअरेणइदाथलिमुत्तुणसेसया
जणिया पालिउअमाइंइन्ति उदेमुणाइठिइसेसिं ३० एसोविठिइविसेसी सुदरअुवेयिसिठअुवाण जोमिअसुरवराणसु

णञ्जुजागेसुनयराणं ३१ जोञ्जुणसहस्रमेगं उग्गहितूणञ्जवणनगराइं रयणप्पजाडसहे डक्कारसजोञ्जुणसहस्रसे ३२
ञ्जुतोचउरसाखलु ञ्जहिमाणोरहसहावरमणिजा वाहिरञ्जुविद्यहा निम्मलवइरामयसहे ३३ उक्किन्तंरफलिहा ञ्जुञ्जं
तरञ्जवणवासीण ञ्जवणनरोविरायति कणगसुसिलिठयागारा ३४ वरपउमकणिया मंठियाहिंहिठासहावलठेहिं सो
हिएडठाणाइंहिं विवहमणिञ्जत्तिविस्सेहिं ३५ वंदणपयठिएहिय ञ्जासत्तोसत्तमत्तदामेहिं दारेहिपुरावरा पफागमाला
उरारम्मो ३६ ञ्जुठेवजोयणाइ उच्चिठाञ्जंतितेदुव्वारवरा धूमघफियाउलाइ कंचणिदामोवणिष्ठाणि ३७ जेहिदेवाञ्ज
वईवरतरुणीगीयवाइयरवेणं निच्चमुहियापमुइयागयपिकालनयाणंति ३८ चमरेधरणेतहवेणु देवापुणेयहोडजलकं
ते ञ्जुमियगइवेलबेथोसेञ्जुञ्जरीञ्जुञ्जगीसिहे ३९ कणगमणिरयणधूञ्जियरम्माडवेइयाइञ्जवणाइ एणसिंदाहिणञ्जसे
साणंदाहिणेपासे ४० चउत्तीसाञ्जुयालाञ्जुत्तीसंचयसहस्रसाइं वन्नापन्नासाखलुदाहिणउहितिञ्जवणाइं ४१ तीसाच
हालीसाचउत्तीसंचेवसयसहस्रसाइं त्तीसावायलोउत्तरउञ्जंतितेदुव्वारवरा ४२ ञ्जवणवइविमाणवईणंतायन्नासायाला
पालायसहेसतिन्निपरि सासमाणचउगुणाञ्जायरस्कानं ४३ चउसठीसठीखलुच्छञ्जसहस्रसात्तहेवचत्तारि ञ्जवणवइ
णमंतरजोइसियाणंचसामाणे ४४ पंचगामहिंसीउचमरवलीणंहयंतिनायत्ता सेसयञ्जणिंदाणंच्छञ्जेवयञ्जुगमहीसी
४५ दोचेवजंबुद्धीवेचत्तारियमाणुमुत्तरेसोल च्छञ्जारुणेसमुद्देञ्जुठयञ्जरुणंमिदीवंमि ४६ जंनामएसमुद्देदीवेवाजं

देविद्व
उपर
२ नाम
॥ १७ ॥

मिकुतिधासां तन्नामएसद्देदीयेयातेसिउपाण ४७ अस्सुराणनागाणउदहीकुमारणिज्जतिश्यायासा अरुणवरेदीयम्मिय
तत्येधयतेसिउपाया ४८ दीहंदिशाअग्गीणयणियकुमाराणज्जतिश्यायासा ४९ घाउसुधणिदाणएएसिमाणुसुत्तरेसो
ल हरिणोअहरिप्यहस्सयविज्जप्यनमालवतेसु ५० एएसिदेयाणयलवीरियपरक्कमोअजोजस्स तमुदरियणेहअहकम
आणुपुष्पीए ५१ जाययजयुद्दीवोजाययधमरस्सअउमरधघाठ अस्सुरेहिअस्सुरकणाहितस्सविसन्तारेउजे ५२ तथेव
समहरेगअलिस्सवइरोपणस्सयोधयं अस्सुरेहिअस्सुरकन्ताहितस्सविसउत्तरेउजे ५३ धरणोविनागरायाजयुद्दीवफला
इच्छाहउजा तथेवसमहरेग नूपाणदेवियोधय ५४ गुरुलोकवियेणुदेवो जयुद्दीववइज्जपरक्केण तथेवसमहरेग येण
दालमियोधय ५५ पुणोविजयुद्दीवपाणितलेण अइज्जइक्कोण तथेवसमयरेगहवइयेसिठेमियोधय ५६ इक्कोइजलुम्मि
एजयुद्दीवन्नरिज्जजलकतो तथेवसमहरेगजलप्यनेहोइयोधय ५७ अमियगइस्सविसउजयुद्दीवस्वरिजलकतो तथे
वसमहरेगजलप्यनेहोइयोधय ५८ अमीयगइस्सविसउजयुद्दीवतुपायपरहीए कपीज्जानिरवसेसइयत्तरोपुणतसइ
रेग ५९ इक्कोइवायगुजाइजयुद्दीवन्नरिज्जवेलयो तथेवसमहरेगपन्नजणेहोइयोधय ६० घोसेवजयुद्दीवसुदरिइक्को
णघणियसद्देण घहिरीकरिज्जसइयरोपुणतसमहरेग ६१ इक्कोइविज्जयाए जयुद्दीव हरियकासिज्ज तथेव समहरे
गहरिस्सहेहोइयोधय ६२ इक्कोइअग्निजालाइ जयुद्दीव रुद्विज्जअग्गिसिहो तथेवसमहरेगमाणयएहोइयोधय

६३ तिरियतु अस्खिजा दीवसमुदासएहिं लूवेहि उवगाठाउकरिजा सुंदरिएएसिएगयरो ६४ एजूअन्नयरोइं
दो जंबुद्दीवंतुमामहत्येणं त्यत्तंजाधरिजा अन्नयउमदरंथिनु ६६ जंबुद्दीवं काऊणजात्तयंमंदरंवासेदकं एजूअन्नयरो
इदोएसोतेसिबलयिसेसो ६६ एसोन्नयणवडणंठन्नयणइहन्नियासमासेणं सुणवाणमंतराणं न्नवणवईअणुपुत्रीए ६७
पिसायजूअजस्काय रक्कसाकिनरायकिंरिसा महोरगायगंधवा अठविहावाणमतरा ६८ एऊसमासेणं कहिया
सेवाणमतरादेवो पात्तयंपियवुच्चं सोलसइदेमहिहिए ६९ कालेयमहाकालेसु लूवयफिल्लवन्नपुन्नन्नदेय अमरवडमा
णन्नहे नीमेयतहामहानीमे ७० किनराकिपुरिसे खलुसप्पुरिसे खलुत्तहामहापुरिसे अइकायमहाकाए गीयरईचेव
गीयज्जसे ७१ सन्निहिएसामाणे धाडविधाडए विसायइसियाले इसारमिहिस्सरंयाहवड सुवत्येविसालेय ७२
हासेहासरईविअसेए अातहाजवेमहासेए पयएएययविडं पियनेयवाअणुपुत्रीई ७३ उहमहेतिरियमियवसयंहि
उवजितिवितरादेवा न्नवणापुणणहरयणप्पजाइ उवस्सिएकंठे ७४ इक्काक्कामियजयलेनियमा न्नवणावराअसंखिजा
अस्खिजावित्यकापुण नवरंएत्तत्यनात्त ७५ जंबुद्दीवसमाखलु उक्कोसेणंन्नवतिन्नवणवरा रकुह्हारिकत्तसमावि अ
वेदेहसमयायमस्सिमया ७६ जहिदेवावंत्तरिया वरत्तरुगीगीयवाडयरवेण निअसुहिया पमुइयागयंपिकालंनया
ति ७७ कालेसुल्लवपुणेनीमत्तहकिन्तरेयसप्पुरिसे अइकायगीयरई अठेचयज्जंतिदाहिणत्त ७८ सणिकणगरयण

देविंरु
उपदं
२ प्राम
१५ ॥

नूमिश्चंजतूणयषेयाइजत्रपाइ एएसिंदाहिणठ सेसाणउसुरेपासे ७९ दसवाससहस्साइ ठिईजहस्साउर्वतरसुराण
पलिउयमलुडक्कठिई उउक्कीसियातेसि ८० एसावतरियाणजथण ठिईवन्नियासमासेण पणजोडसालयाण श्यावा
सधिइंसुरवराण ८१ अदासुरातारागणायनस्कत्तगइणसम्मत्ता पवधि० हाजोडसियाठिईयारीयतेगणिया ८२ श्य
रूकविठंगसठाण सठियाफलियामयारम्मा जोडसियाणविमाणा तिरियलोएश्वसस्विजा ८३ घरणियलाउसमात्त
समाउसत्तहिंनउएहिंजोयणसएहिं हिठिसोडोइसलोसूरोपुण श्यठहिंसएहिं ८४ श्यठसएश्यासीएषदोतहचेय होइ
उवरितले एगदसुसुरसयथाइहा जोइसस्सजवेए ८५ एगठिजायकाऊणजो श्यणसस्सजागत्यप्यण वंदंरिमळलख
लु श्यरूयालाडोइसूरस्स ८६ जहिंदेवोजोइसिया वरतरुणीगीयवाइयरवेण निच्चसुहियापमुइया गयविकालनया
णलि ८७ श्यप्यन्नखलुजागाविच्छिन्नखंडुमळलडोइ श्यरूवीसवलार्तथाइलतस्सयोधस ८८ श्यरूयालीसजागावि
च्छिन्नसूरमळलडोइ अउवीसकलार्तथाइलतस्सयोधस ८९ श्यरूजोश्रणियाउमहातस्सरूचेवहोइनरक्ता नरकतठे
वारातस्सरूवेवथाइल ९० जोश्रणमठतत्तोगाउश्रपधणुसयाजाति गहनस्कत्तगणानतारविमाणाणविरक्को ९१
जोयस्सउविक्कनोतस्सरू वेवहोइथाइल ततिउणसयिसेसपरिरउहोइयोधसो ९२ सोलसचेवयसहस्साश्यठयधउरो
यतुन्नियसहस्सा जोइसिष्ठाणविमाणावहसिदेवामिउगात्त ९३ पुरउवहतिसीहादाहिणउकुजरामहाकाया पवित्थि

वेणवसहातुरगापुणउत्तरेपासे ९४ वंदिहिउसिग्घयरासूरासूरेहिंतहगहासिज्जा नरकताउगहेहियनरकत्तेहिंतुताराउ
९५ सव्वप्पगईचदातारापुणदुतिसव्वसिग्घगई पयोगइविसेसोजोडसियाणंतदेवाणं ९६ इप्पहियानंतारानरकताख
लुतउमहिहियरा नरकत्तेहिंतुगहागेहहिंसूरातउचंदा ९७ सव्वजितरत्तीईमूलोपुणसव्ववाहीरोजमइ सव्वोवरिवसाही
जरणीपुणसव्वहिहिमाया ९८ साहागहनरकत्तामज्जेएगाज्जांतिचदसूराण हिठासमंचउप्पिताराउचंदसूराण ९९ पंचे
वधणुसयाइंजहन्नयंइतरंतुताराणं दोचेवगाउष्पाडंनिष्ठाघाएणउक्कोसं १०० दोन्निसेएवावहेजहन्नयंइतरतारात
णिं बारसचेवसहस्सादोघायलावउक्कोसा १ पयस्सचंदीजोगीसव्वत्तिखंठिउष्हीरत्ती तेज्जातिनवमुज्जत्तसत्ताविसंकला
उठंइयासयत्तिसयाजरणीनुष्पाइष्सेससाडजिवाय एएच्छन्नरकत्तापन्नरसमुज्जत्तसंजोगा ३ तिन्नवउत्तराइंपुणव्वसू
रोहिणीविसाह एयच्छन्नरकत्तापणयालामुज्जत्तसंजोगा ४ इवसेसानरकत्तापन्नरसयातीसडमुज्जत्ता चंदमिएसजोगा
नरकताणंमुणयत्ती ५ इज्जिईत्तच्चमुज्जत्तेचत्तारिष्कवलेष्हीरत्ते सूरेणसमवच्चइइत्तीसेसाणबुक्कामि ६ सयत्तिसयाजर
णीनुष्पाइष्सेससाडजिठाड वच्चंतिच्छहीरत्तेइक्कावीसंमुज्जत्तेण ७ तिन्नवउत्तराइंपुणव्वमूरोहिणाविसाहाय वच्चंति
मुज्जत्तेत्तिन्निचेववीसवहोरत्तो ८ इवसेसानरकत्तापन्नरसविरसहगयाजंति बारसचेवमुज्जत्तेतेरसयसमेष्पहीरत्ते ९ दोचं
दादोसूरानरकत्ताखलुहवतिच्छप्पन्नाच्छावत्तरंगहसयंजबुद्धीवेवियारोणं १० इक्कांचसइसहस्संतित्तासंखलुजावेसहस्सा

विदुः
पद्य
भाग
१६

इ नययसयालपलासातारागणकोक्रिकोलीण ११ चहारिचेशचदाचत्तारियसूरियालयणे धारनरकप्तसयगहाणमिते
वधावन्तो १२ दोचेयसयसहस्सासप्तठिखलुनवेसहस्सात् नययसयालयणजलेतारागणकोक्रिकोलीण १३ चउवीस
सचिराविणोनस्कप्तसयायतिस्मिच्छेत्तीम्स इक्काचसगहस्सहस्सप्यन्तधायइसके १४ अलेवसयसहस्सातिणिसहस्सा
यसत्तयसयात् धाहसकेदीवेतारागणकोक्रिकोलीण १५ अयालीसचदायायालीसचदणयरादिष्ठा कालोदहिंमिए च
रतिसयह्लेसाय १६ नरकप्तमिगसहस्साग मेयलायप्तारिचसयमन्तलच्च सयात्तन्तउश्यामहग्गहाणतिन्नियसहस्सा
१७ अठावीसंकालोदहिंमिता रसयसहस्साइनत्रयसयापनासातारागणकोक्रिकोलीण १८ घोयालचदसयघोयालचे
वसूरियाणसय पुस्करवरमिएएचरतिसयह्लेसय १९ चहारिचसहस्सा लक्ष्मीसचैवजातिनरकत्तालच्चसयायायक्षा
ग्हायारससहस्सा २० लक्षउइसयसहस्सा ययालीसजवेसहस्साड चहारियसयाठतारागणकोक्रिकोलीण २१ थायप्त
रिचचदाथायप्तारिमेवदिणयरादिष्ठा पुस्करवरदीवहेचरतिएएग्गसितो २२ तिणिसयालक्ष्मीसलच्चसहस्सा महग्गा
णतूनरकत्ताणतुजावे सोलाणिदुवेसहस्साणि २३ अयालीसलस्कायावीस खलुनवेसहस्साइ दोश्रसयपुस्करके ता
रागणकोक्रिकोलीण २४ यक्ष्मीसचदसययक्ष्मीसचैयसूरियाणसय सयलमणुस्सलोयचरतिएएपयासिता २५ इक्कारस
यसहस्साळपियसोला महग्गहसयात् लच्चसयात्तन्तउश्यानस्कतातिन्नियसहस्सा २६ अठावीइश्रताइसयसहस्साइ

मणुयलोगमि सप्तसयामणुणातारागणकोक्रिक्रीणं २७ एसीतारापिऊोसहसमासेणमणुयलोगमि वहियापुणता
रानुजिणेहिन्नणियाअसखिजा २८ एवइयत्तारगंजजणियंमणुयलोगमि वारंकलवुयापुफ्फसठियंजोडसवरड २९
रविससिगहनस्कहाए वडंआआहिआमणुयलोए जेसिनामग्गेयं नयागयापन्नाडवेति ३० आवठिपिऊयाइचंदाड
ह्वाणमणुयलोगमि दोचंदादोसूरायजांतिइक्किऊएपिऊए ३१ आवठिपिऊयाइंनस्कहाणतुमणुयलोगमि लप्यनंनस्क
त्तायजातइक्किऊएपिऊए ३२ आवठिपिऊयाणमहग्गहाणंतुमणुयलोगमि आवत्तरगहसयचहोइइक्किऊएपिऊए ३
३ चत्तारियपंतीउचंदाडह्वाणमणुयलोगमि आवठिआवठिहोडइक्किऊयापत्ती ३४ लप्यन्तपतीणनस्कहाणंतुमणुय
लोगमि आवठिआवठिचहोइइक्किऊयायती ३५ तेमेज्जमाणुसुत्तरपयाहिणावत्तमऊलासहे अणुवठिएहिजाए
हिचदासूरागहगणाय ३७ नस्कहारयाणंअवठियामंऊलासुणोयत्ता तंविद्यपयाहिणावत्तमेवमेरु अणुचरंति ३८ र
यणियरदिणयराणएवउहमहेएवसककमोनत्थि मऊलसकमणपुणअजित्तरवाहिरतिरियं २९ रयणियरदिणयराण
उठमवेएवसंकमोनत्थि मऊलसकमणपुणअजित्तरवाहिरतिरिय ४० रयणियरदिणयराणंनस्कहाणनवग्गहाणच वा
रविसेसेणजवेदुस्कविहीमणुसाणं ४१ तेसपविसठाणंतावस्कित्तेउवहएनियमात्तेणवडकमेणपुणोपरिहायडनस्कमिहा
ण ४२ तेसिकलंबुयाप्फसठियाजातित्तावस्खित्तमुहा अतोअसकुलावाहिचवच्छाचदसूराणं ४३ केणंवहयचंदोपरि

ॐ नमः
१७
४

मि कप्पवर्हणविसुदरिठिठविसेसेनिसोमेहिं ७६ दोसांगरोधमाइसक्कस्सठिठमहाणुजोगस्स साहीयाइसाणेससेय
सणकुमारमि ७७ माहिंदिसाहियाइसंभुदंससेयत्रजलोगमि चउदसलंतइकप्पेसत्तेरसजवेमहासुक्को ७८ कप्पमिसह
स्सारेथ्ठारससांगरोधमाइठिठ एगुणाणयकप्पेवोपुणयाणएकप्पे ७९ पुणायइक्कावीसाउदहिसनामेणश्चारणेकप्पे
श्चइश्चुयमिप्पेधावीससांगराणाठिठ ८० एसाकप्पवर्हणकप्पठिइवणियासमासेण गेथिज्जणुत्तराणसुणश्चणुजोगधि
माणाण ८१ तिणवयगेविज्जाहिठहामज्जिमायउधरिवा इक्किक्कापियसिथिहिनयएवज्जतिपायिवा ८२ सुदसणाश्च
मोहायसुप्पयुठोअसोघरा वत्थोसुवत्थासुघणासोमणसापियदसणा ८३ एक्कारसुत्तरहेठिमएसुतुसरंधमज्जिमए स
यमेगउधरिमएसुवेयश्चणुत्तरविमाणे ८४ हेठिमगियिज्जाणसेयीससांगरोधमाइठिठ इक्किक्कामासहिज्जाश्चाठिसेसहि
नमियंगी ८५ विजयवयजयतजयसमएराजियवयोघह ससुठसिठनामहोइचउरहत्तुमज्जिमय ८६ पुष्णेणहोइविज
यदाहिणेउहोइवेजयतत्तु श्चधरेणत्तुजयत श्चचराइयमुत्तरेपासे ८७ एएसुविमाणेसुतिप्पोस सांगरोधमाइठिठ ससु
ठसिठनामेश्चअइत्तुक्कोससिंसीसा ८८ हिठिवाउधरिवादोदोअयलसुचदसठाणां पफिपुअचदसठाणसठिथामज्जिमा
चउरो ८९ गोविज्जायलिसरिसागेविज्जातिनि २ श्चासन्ता दुल्लुयसठाणाइश्चणुत्तराइविमाणाइ ९० चणउदधिपड
ठाणसुरजयणादोसुक्कतिकप्पेसु-तिसुवाउपइठाणासुदुनयेमुपइठियातिस्सि ९१ तेणपरउधरिमयाश्चागासतरयजव

णवतरिया जोडससोहम्मीसाण तेउलेसोविमाणणं ९२ किरहानीलाकाउ तेउलेसायन्नवणवंतरिया जोडसोहम्मी
साएए तेउसेसोमुणेयद्या ९३ कप्पेसणकुमारि माहिंदेचेववन्नलोएय एएएम्हालेसो तेणपरंसुक्कलेसान ९४ कणगत्तय
रत्ता नामरवसजादोसुजांतिकप्पेसु जांतिएमहागोरो तेणपरंसुक्किलादेवो ९५ नवणवडवाणमंतर जोडसियाजाति
सत्तरयणीया कप्पवड्ढएसुदरिसुणउच्चत्तंसुसुवएणः ९६ सोहम्मीसाणेसुरवरा जातिसत्तरयणीयान दोदोक्कप्पोतुल्ला दो
सुविपरिहायएरयणीए ९७ गेविज्जेसुयदेवा रयणीउदुन्निजांतिउच्चान रयणीपुणउवत्तं अणुत्तरविमाणवासीण ९८
कप्पाउकप्पमिउ जस्सठिडसागरोवमज्जहियाउ स्सेहतस्सन्नवेडक्कारसजागपरिहीणा ९९ जीअविमाणुस्सेहो पुढ
वीणडजंचहोडवाहत्तं दुरहपितंपमाणं बत्तीसवतीसजोयणसयाइं १०० नवणवडवाणमंतर जोडसियाजातिकप्पवि
यारा कप्पवड्ढणविसुदरि बुत्तपवियारणविहीण १ सोहम्मीसाणेसु सरवराजांतिकप्पवियारा सणकुमारमाहिंदे सु
फासपवियारयादेवा २ वनेलतयकप्पे सुरवराजातिल्लेक्कवियारा महसुक्कसनस्सारे सद्देपवियारयादेवा ३ अण
यपाणयकप्पेप्पे अरणेतहअचुएसुकप्पमिदेवामणपवियारा तेणंपरंल्लुअपवियारा ४ गोसीसागुरुकेययपा यत्तप
न्नांगउलगंधाय चंपयकुवलयगधा लगेरेलसुगंधगंधाय ५ एसाणंगंधविही उवमाएविगियासमासेणं दिठ्ठीएवियति
विहाथिरसुकमारायफासेणं ६ तेवीसचविमाणा चउरासीदचसयसहस्साइ सत्ताणुइत्तसहस्सा इउहंलोएविमाणणं ७

गधीसजोयणसयाइ पुठधीणसेसिद्वोड्रभाइइ पचसुश्रुणुत्तरसु रयणविचिसासयापुठधी ६७ तस्यविमाणयज्ञविहा
 सस्वकसन्तिकासा सहेदगरयतुसारसरिवन्ता इक्कारससउविहा / पासायातविरायति ६८ तस्यासणायज्ञविहा
 सपणिजायमाणिसि सयविधिभाविरडपवित्यकादूसाय रस्यमयदालकारे ६९ सवृष्टविमाणस उसवृत्ररि
 ह्वाउधुन्नियताह यारसदिजोश्रुणेहि णसिपभ्योरुतउपुठधी ७० निम्मलदगरयवणा तुसारगोखीरफणसरियणा
 नगियाउजिणवरेहि उभाणपल्लसठाना ७१ पणयालीसश्यापामवित्यका होइसयसहस्साइ तसिउणसविसेस
 परिरउहोइधोघयो ७२ पाणोजोयणकोली वायालीसचसयसहस्साइ तीसवेषसहस्सा दोश्रुसयाश्रुउणवन्तासा
 ७३ स्विष्ठपयिच्छिन्ना, श्रुठेययजोयणाणियाइइ परिहायमाणीवरिमते मच्छियपत्तायणुश्रुययरी ७४ सस्वक
 सन्तिकासांनार्येणसुदमणाश्रुमोहाय श्रुजणसुधन्तयमह उभाणपल्लसठाना ७५ इसापझाराएसी श्राएजीश्रुण
 मिलोगहो ससुवरिममिजाए सालसमेसिठमोगाठे ७६ कहपकिडयासिद्धा ^{सिद्धापयधिया} तस्यतेचइज्ञाणक
 त्यगतूणसिज्जइ ७७ श्रुलोएपकिडयामिद्धा लोयगेयपयठिया ^{सत्यगतूणसिज्जइ} ७८ जसठा
 णतु इहनवचर तसुचरमसमयमि श्रासीयपुएसिधणतं ^{उभाणतहितसस} ८० श्रोहयाज्ञससया असठाणहविज्जच
 रमन्तये । ततोतिजागहीणा । सिद्धाजोगाहणाजणिया ८१ सिन्तिसयाठासठा ^{श्रुणुत्रिजागोश्रुहोइधोघहो} एसास्व

१२४
 २
 ३
 ४

राय पनपातासइ वा श्रायम सुयइ प्राण २ ।

लुसिद्धाणं मज्जिमउगाहणाज्जणिया ८२ इक्कायहोइरयणी अष्टेवयअंगुलाइं साहियाएसखलुसिद्धाणं जहणउगा
हणाज्जणिया ८३ उगाहणाइसिद्धा जवतिजागेणज्जतिपरिहाणा संठाणमणिच्छत्यं जरामरणविकल्पमुक्काणं ८४
जत्ययणगासिद्धो तत्यअणंतजवस्कयविमुक्का अनुत्तसमोगाढा पुठासवेअलोमंते ८५ असरीराजीवघणा उवउ
न्नादसणेणनाणेण सागरेमणागार लखणमेयतुसिद्धाणं ८६ फुमइअणणतेसिद्धा सहपएमेहिणियमसोसिद्धो ते
विअसंखिज्जगुणा देसपएसहिजेपुठा ८७ केवलनाणुपउत्ता जाणत्तीसहजावगुणजाव पासतिसहउखलु केवल
दीठीअणताहिं ८८ नाणंमिदंसणमिय सोएगयरयंमिउवत्ता सहसकेवलिरसा जगचदीनत्यिउवउगो ८९ सुर
गुणमुहसंसत्तं सवधापिणियअणंतगुणं नविपावडमुत्तिसुह अणंताहिंवग्गूवग्गूहि ९० नविअत्यिमाणसाणत
सस्कंतवियसहदेवाणं जसिद्धाणं सुखउवावाहं उवगयाणं ९१ सिद्धस्समुहोरासी सहाठापिणियउजडहविज्जा
अणतगुणवगुणइत्तं जहागासेनमाडजा ९२ जहनामाकाडमित्यो नवणगुणवज्जविघाणंतो नवएडपरिकहेउ उवा
साएलहिअसतीए ९३ इअसिद्धाणंसुखं अणोवमनत्यितस्सउवम्मं किचिविसेमिणित्तो सारिस्कमिणं सुणहवुत्यं
९४ जहकालहकामगुणियं पुरिसोत्तोत्तणजोइणंकोड तणहाबुहाविमुक्को अत्यिज्जजहा अमियसिद्धो ९५ उयस
उफालतिहो अउलनिहाणमुवगयासिद्धा सासयमवावाह विठंतिसुहीसुहंपत्तो ९६ सिद्धतियवुद्धतिय पारगय

स्त्रियपरपरगयति । समुद्रकर्मकवया । अजराअमराअसर्गाय १८ नश्चिन्त्वेसद्वंदुरकोजाइ जंरामरणबंधणविमुक्ता
सासयसहाधाइ अणुइवसिसयाकाल १९ सुरगणइत्यिसमग्गा सवृष्टोपिफिर्य अणतगुण नविपाचेजिणइठि अ
णतेहिविवग्गायगूहि १०० ज्ञवणवइवाणमतरजोइस वासीमियाणवासीय सविहीपरियारिया अरइतेवदयाऊ
ति १ । ज्ञवणवइवाणमतरजोइस वासाविमाणवासीय इतिवालिमयहिया करितिमहिमजिणवराण २ सिवालि
यस्सज्जह्मुरव रपरकारयसहीरस जेहिसयावुधता सवेइदोयथरकिस्तीया ३ तेसिसुरासुरगुरु सिद्धासिठि उव
मिहतु नीमेज्जवणयण् जोइसियाण मियाण० वासीण देवनिकायण घउदइसहस्स समत्तो अपरिमेसो ३०४ ॥
देहिषुउपइत्त समसु ॥ ॥ राय घनपतिसिह बहादुरस्य जैनागम सद्गहस्य द्वितीयो जाग समाप्त ॥ ॥

॥ए॥८॥युत्थंयलाबलिविहंनवलविहिमुत्तमंउपसत्यं जिणवयणजासियमिण पवयणसत्यमिजहदिष्ठं १ दिवस १
 तिही २ नरकत्ता ३ करण ४ गगहादिवसय ५ मुक्तत्तच ६ जयण ७ वललवल ८ निमित्तवल ९ मुत्तमवावि २ उश्याव
 लिश्यादिवसा जम्मापुणदुव्वलाउन्नयपक्के विषरीय राडसुयबलाबलविहिं विद्याणाहिं ३ दारंपफिबएपफिबत्ती जणत्ति
 बीश्याए तडश्याएश्यासिष्ठीनत्यिविवत्तिवियग्गीपंचमीजणिया ४ जाएससत्तमीसाउ वज्जगुणाडत्यसंसत्तनत्यि द
 समीडयत्यियाणं जवंतिनिक्कटयापंथा ५ श्यारुग्गमविग्घंखेमियं चडक्कारसवियाणा जविज्जातिश्यामित्तात्तेतेरसि
 पिहउजिणइ ६ चाउद्दसिपन्नरसिं वजिज्जात्तमिंनवमिच त्तिचचउत्यिवारसि घटुत्तांपिपस्काणं ७ पढमीपंच
 मिदसमि पन्नरसिक्कारसीवियतहेव एएसुयदिवसेसु सेहनिप्फेणंकरे ८ नदानद्दाविजयाउत्या पुन्नायपंचमीहो
 ड मासेणयत्यच्चारे डक्किक्कायत्तएनियए ९ नदंजएयपुन्ने सेहनिनिस्कमणकरे नदेजद्देसुजद्दावे पुन्नेश्याणसणंकरे १०
 दारंपुस्ससिसिणिमिगसिरे वर्डयहत्थोत्ततहेवचित्तये श्यणुत्तराहजिठमूला नवनरकत्तागमणसिष्ठाः ११ मिगसिरम
 हायमूली० विसाहेतवहोइश्याणुसहा हत्युत्तररेवडश्यासिणीय सुवणंयनरकत्ते १२ एएसुयश्याणं एत्याणंठाणयं
 चकायत्तं जडयगज्जत्यनवि ठडसजामुक्कचडहोड १३ उप्पन्नत्तपाणो श्याणमिंसयाउजोहोड फलपुप्फावग
 वेउ गउविरकेमेणसोएइ १४ सजागयंरविगय विहेरसग्गहविलवि चराज्जगयगहत्तिन्नच वज्जाएससन्नरकत्ते १५

महाविं
पत्रक
म १४
१२ ०

स्यत्यमणेसऊगय रविगयअहियठिनउष्यायहो विन्नेरमयद्धारिय सग्गाहशूरयडठियतु १६ श्याइश्चविठउऊसेवि
लयिर। कूठयजहिंगहण, मऊकेगगहोजस्सउ गठठतहोडगडजिन्त १७ सज्जागयमिकलहो होइवियानुविलयिनरक
से विन्नेरेपरयिजत श्याइश्चगएअनिष्ठाणी १८ जसगाहमिकीरडनरक्त्ते सत्यनिग्गहोहोड राऊहयमियमरण ग
हजिन्तेसोणिउगाले, १९ सप्लागहगहगय श्याइश्चगयअदुहूलरिक्क सप्लाइअविमुक्का गहसुक्काचेवयलियाड २० पुत्यो
हत्योअनिहय अस्सिणीजरणीतहा, एअसुपरिस्केसु पाउवगमणकरे २१ सयणेणघणिठह, पुणअमूनयिकरिजानि
स्कमण सयजिसयपूसघने, विज्जारजेपवितिज्जा २२ मिगसिरअद्दापुस्सो तिन्निघणिठापुणवसू रोहिणीपुस्सो २३
पुणअसुणापुस्सेण सुअणेणघणिठया, एअहिचउरिस्केहि लोयकम्माणिकारए २४ किन्निहाहिविसोहाहि मघाहिज
रणीहिय एअहिचउरिस्केहि लोयकम्माणिवज्जए २५ तिहिउन्नराहित रोहिणीहितुज्जाउसेहनिस्कमण, सेहोवहा
वृण कुज्जाअणुन्नागणिवोयए, २६ गणसगहणकुज्जा गणहरचेवठावए उअहवसहिठाणव थायराणिपवत्तए २७
पुस्सोहत्योअनिह, अस्सिणायतहेवय अत्तारिस्किप्पकारीणि कज्जारजेसुसोहणी २८ विज्जाणघारणकुज्जा अज
जागेयसाहए सप्लायअअणुन्वअ उहसयसमुहिसे ३० अणुराहीरेवचेव चिन्नामिगसिरसहा, मिऊनियानिअत्तारि
मिकमंतेसुकारए ३१ अणुराहारेवहेव, चिन्नामिगसिरसहा, मिऊनेयानिअत्तारि मिउकम्मलेसुकारए ३२ जि

राय अन्पतिविह का आगम सपट पारा ३ -

स्कावरमत्ताणं कुज्जागहणधारणं संगहोवग्गहचेव वालवुह्णीणकारणं ३३ अद्दाअस्सेसजिठा मूलोचेवचउत्थउ गु
 रुणाकारणयत्तिम तथोकम्मवकारणं ३४ दिव्वमाणुसत्तेरत्थे उवसग्गाहियासए गुरुसुचरणकरण उग्गाहोवग्गहकरे
 ३५ महान्तरणिपुह्णाणि तिन्निउग्गाहिया एएसुतवकुज्जा सन्नितरवाहिरच ३६ तिन्नि सयाणिसठाणि तवोकम्मा
 णिआहिया उग्गनस्कत्तजोए सूतेमन्तरेकरे ३७ कितिवाविसाहाय उमहाएयाणिदुन्निउ लिंपणंसीवणंकुज्जा स
 थारुग्गहधारणं ३८ उवकरणत्तंमार्द्धेण यिवायंचोचराणिय उवगरणविजागच श्यायरियाणकारणं ३९ धणिठास
 न्नि सन्नाई सवणोथपुणवसू एएसुरुसुस्सू संचेडयाणचयूयणं ४० सज्जायकरणंकुज्जा विज्जारयकारणं वउवठावणकुज्जा
 अणुन्तगणिवायए ४१ गणसगहणंकुज्जा सेहनिस्कमणंकरे सगहोयग्गहकुज्जा गणावत्थेडयतहा ४२ दारं ३ चव
 १ लवंच २ तहा कोलवंच ३ थोलीयण ४ गराइच ५ वणिय ६ वल्लीयतहा ७ सुह्ययत्तिवएनिसाईया ४२ सउ
 णिचउप्पयनाग किथुग्गपचकरणाधुवाज्जति किन्नचउदसरत्ति सउणीपत्तिवज्जएकरणं ४३ काऊणतिहिविज्जणं जन्ना
 गेसोहएनपुणकाले सत्तंहिहरिज्जाग जंसंसंतमवेकरणं ४४ ववेयवालवेचेव कोलवेवणिएतहा ज्ञागेचउप्पएया
 विसंहनिस्कमणकरे ४५ वउवठावणकुज्जा अणुन्तगणिवायए सउणीमियविठिए अणमणंतत्यकारणं ४६ दार ४
 गुरुसंक्कासो मदिवसेसेहनिस्कयणकरे चउवणावणकुज्जा अणुन्तगणिवायए ४७ विज्जोमकोणदिवसे चरणकरणा

बि०
पर्व
ग ६
२४ ॥

णिकारण सवीकम्माणिकारिजापाउकगमणाणिय ४८ दार ५ रुद्धमुक्तासाण श्याडुत्यन्तवडुशुगुलच्छाउ सेउवह
इसठी वारससमित्तोहवइज्जतो ४९ त्तवेयशारज्जतो सोमित्तोपवशुगुलोहोई चत्तारियवइरित्तो तुवेवयसावसूही
इ ५० परिमळोमुक्तासाण श्यसीयमसतितठिएहीइ दोहोइरोहणीपण थलोयषउरगुलोहोइ ५१ विजउपचगुलित्त
च्छेवयनेरिउहवइज्जतो वरणीपहयइयारस श्यत्यमदोवाहवइसठी ५२ त्तवउडुशुगुलाइ एसादिवसमुक्तासा रसि
मुक्तासाधियाहिया दिवसमुक्तासुगइ पढायामाणमुणोयइ ५३ मिस्सेनदेतहसुठिए यशुजिइषदेतहेयया वरुणगि
वसई साणेसाणदेविजएइस ५४ एणसमुक्तासजाए सुसेहनिस्कमणकरे वउवठावणाइ चशुणुन्तागणियाए ५५
वन्नेवलएषाउम्मि उसन्नेवरुणीतडा श्यणसणपावयगमण उत्तमवचकारए ५६ दार ६ पुन्नामधिज्जसउणेसु सेहनिस्क
मणकरे थिनामेसुसउणे मुत्तामाहिंकारएविज ५७ नपुत्तएसुसउणे सुसच्चकम्माणिवजाए थोमिस्सेसुमित्तिसु सच्चारं
जाणियजाए ५८ तिरियवाहरतेसु श्यद्वाणागयणकरे पुप्फियफलिएथत्ये ससायकरणकरे ५९ तुमस्वथेवाहिंरते सु
सेज्जयहायणकरे गयणेवाहरते सुउत्तमठतुकारए ६१ थिलमूलेवाहरते सुठाणपरिगिण्णए उप्पायमिथयत सुसउ
णसुमरणभवे ६१ पक्कमतेसुसउण सुहरिसतुहिषयागरे ७ थलराशिविलगगे सुसेहनिस्कमणकरे ६२ धिरएसिथि
लगामुवहा वहावणंकरे सुयस्वधाणुन्ताउ उहिसेयसमुद्दिसे ६३ विसरीरविलगगेसु ससायकरणकरे रथिहोराविल

गण... वि... ११

गोसुं सहनिरकमणंकरे ६४ चंद्रहोराविलगगे सुंसेहीणंसंगहंकरे सुम्भदिक्काणलगगेसुं चरणकरणंतुकारए ६५ कूणदि
क्काणलगगेसु उत्तमठतुकारए एधलगगाणिजा णिज्जादिक्काणेसुणससउ ६६ सोमगोसुहविलगगेसुं सेहनिरकमणं
करे कूरगगहविलगगेसु उन्नमठतुसारए ६७ राज्जाकेउविलगगसु सव्वकम्माणिवज्जाए विलगगेसुएसत्येसु पसत्याणिउ
अरत्ते ६८ अण्णसत्येसुलगगेसु सव्वकम्माणिवज्जाए विलगगाणिजाणिज्जा गहाणजिणत्तासिए ६९ ननिमित्ताविव
ज्जांति नमत्थारिसिज्जासिसं दार८ दुद्धिठेणंनिमित्तेणं अादेसोउविणस्सइ ७० सुदिठेणनिमित्तेणं अादेसोनिविण
स्सइ जायउप्पाइयान्नासो जवजपंतिवालया ७१ जंविथीउपत्तासति नत्थितस्सयइक्कामो तज्जाएणयतज्जायं त
न्निजेणयतंनिजं ७२ ताल्लवणयताल्लवं सरिसंसरिसेणनिदिसे थीपुरिसनिमित्तेसु सहनिरकमणंकरे ७३ नपुंसक
निमित्तेसुं सव्वकज्जाणिवज्जाए वामित्तेसुंनिमित्तेसुं सव्वारंजेविवज्जाए ७४ निमित्तकित्तिमेनत्थि निमित्तेजाविसुसए
जेणसिठांविधाणंति निमित्तुप्पायलक्कण ७५ निमित्तेसुपसत्येसु दढेसुवलिसुएय सेहनिरकगणंकुज्जा वन्नवहावणा
णिय ७६ गणसंगहणकुज्जा गणहरेइत्थयावए सुयखंधाणुन्नाउ अणुन्नागणिवायए ७७ निमित्तंसुपसत्येसु सिठिले
सुवालएसुय सुव्वकज्जाणियंज्जाज्जा अण्णसाहरणकरे ७८ पसत्येसुनिपत्यसु पसत्याणिपयारत्ते अण्णसत्यनिमित्तेसु
सव्वकज्जाणिवज्जाए ७९ दिवसाउतिहीवलिल तिहिउवलियंतुसुव्वईरिक्कं नक्कत्ताकरणमाहंसु करणागहदिन्नीवली८०

गह्वेदिगाउमुझसो मुझासासङ्गणोयली सउणाउधलविलगं तउनिमिहपहाणंतु १८ विलगोउनिमित्तानु निमिह
 घलंमुसम नतसंविजाणलीए निमित्तजंघलजाय ८२ ऐसोयलायलविही समासउक्तिउसुविहि एहिअणुउगना
 णाणो नेयिहोअंप्पमंतेहि ८५ गणिविजापडन् १ समस ॥ रायधनपतिंसिह याहादुरस्य जेनागमसग्रहस्य
 नाग वृतीयां यणिविजापडन्त्तं समाप्तं ।

०
 ५
 ५

१ १ १ ३ १५

गायत्रपाठासु माहुर का आगस सपुत्र प्राण ३ ।

॥४॥ सावज्ज^{नंकरे ६४ चंदहो} नगुणावतंशुप्युवती खलिस्सनदणा वणतिगित्तगुणधारणाचेव १ चारिहस्सा
 चिसोहिकारइ सामा^{नठतुकारए एव} थं सावज्जेयरज्जोगाणं वज्जणासेधणात्तणत्तं २ दसणयारविसोहि चउवीसायथुए
 णकिजईय शुच्चयगुणकित्तण रुवेणजिणवरिदाणं ६ नाणाडंशुआउगुणा त्त्सपन्नपक्खिक्खिकरणात्तं वंदणएण
 विहीणा कीरइसोहीयावसिथि ४ खलियस्सयत्तेसिपुणो विहिणाजमिदणाइपक्खिमणं स्तेणइपक्खिमणो णित्ते
 सिंपियकारएत्तसोही ५ चरणइशुआइयाणं जहक्खमवगुत्तिगित्तरूवेण पक्खिमणासुत्ताण सोहीतयकाउसग्गेणं ६
 गुणधारणरूवेण पञ्चकारेणतवईयारस्स चिरियायारस्सपुणो सत्तेहिपुमाणत्तवणयणुच्चयसिहिच ७ शुमरिदन
 रिदमुणिंद वदियवंदिउमहावीर कुशलाणुवधिवंधुर ससयणंकित्तइसामि ८ चउसरणगमणदुक्कळा गिरिहासुक
 ळाणुत्तोहणाचेव पसगणोशुणवरपंका यत्थाकुसलहेउत्ति ९ अरिहंत्तसिठसारू केवलिकहिउसुहाववोधमो एएच
 उरोचउगइ हरणासरणंलहरधन्तो १० शुहसाजिणत्तत्ति ज्जसुत्थरं चरोमंच कच्चुअकरालो पहरिसपणउत्थाससीणं
 मिकपजलत्तणइ ११ रोगादोसासिणं हित्तांक्रमंत्तगाइअरिहंत्ता विसयकसायाएणं अरिहंत्ताज्जंतिमेसरणा १२ रायसि
 रिमयकसिहो तवचरणंदुच्चरंशुणुचरिहंत्ता कावलिसिरिमरिहता अरि० १३ थुइवंदणमरिहंत्ता शुमरिदनरिंदपूइ
 मरिहंता सासयसुहसरिहंता अरिहंत्ताज्ज० १४ परमणग्गईमणत्ता जोइंदमहिंदाणमहीहंत्ता अरिहंत्ताधम्मकहं

अरिहं० १५। सप्तजीश्याममहिंसं अरिहंतोसहययणमरिहंसा यजस्यमेरिहंसा अरि० १६ उसरणमवसरित्ता
 अउतीसंश्रुसरेनसेवसा चमकडश्राकडसा अरि० १७ पराहृगियगेणेगे सदेहेहेदेहिणसमविष्ठा सिद्धश्रुणुमणुसा
 सप्ता अरिहस्ता० १८। अयणामपपन्नवर्षं निश्रुयसागुणेषुष्ठावता जियलौयमुधरत्ता अरिहंसाकृतिमेसरणा १९
 अयनश्रुणुगणुवसेमिय असशसहंरंपसाहियपोउ घनीवलीदीयते निययमणाहृश्रुणतेपक्रियन्तो सरणमरिहसे २०
 उंसियजरमरणेणः समसदुस्करसससरंणाण सिद्धयणजणसुहाणंअरि० २१ अरिहंतसरणमलसुद्धि लक्षसुत्रिसुद्ध
 वमाणो परयामिरिरिहंयकर कर्मसहरोसहरिसज्जणड २२ कसठरकयसिद्धा साहायियनाणपन्तोषणसमिद्धा
 ससुद्धलक्षसिद्धा सिद्धाकृतिमेसरण - २३ तिष्ठलोश्रुमपथा परमपपथाअचित्तसीमथा मगलासद्धिपपथा
 सिद्धासरणसुद्धपसेथा २४ मूलस्करयपक्रियस्का अमूढलस्कासजोगीपञ्चस्का सोहाविष्णुसुस्का सिद्धासरणसुपर
 मसुस्का २५ पक्रिपत्रिपपक्रिणीश्या समसाक्ष्णगिहृहुजवधीया जोईसरसरणीसिद्धा ससरणसुमरणीया २६ पायि
 अपरमाणव गणनीसदाविद्विज्ञवकदा लक्षार्हकपरविधदा सिद्धारणस्वविददा २७ उवलक्षपरमयजा दुसुद्धलजा
 विमुक्तासरजा जुवणयरखजा सिद्धासरणनिरारंजा २८ सिद्धिसरणेणनययंजहे उसाहृगुणाजिणिश्रुयज्जमाणो मेह
 णिमिलत्तसुयस अमअउतिअमज्जणड २९ जश्रुलोश्रुयधुणो कुगडसिद्धास्वणोपारगामहाजागा नाणाहृएहिंसिवसुर

एकसाङ्गसाङ्गोसरणं ३० केवलिणोपरमोही विउलमडसुञ्चरुण्जिणमयंमि श्यायिञ्चउसाया त्तैसत्तैसाङ्गो
सरणं ३१ चउदसदसनयापुष्ठी दह्वालसिकारसगिणोजेश्च जिणकप्पाहालिदि अपरिहारविसुद्धात्तञ्च ३२ खीरास
वमञ्जशासत्र सज्जिन्तसोकठवठीय चारणयिउच्चिञ्चप्पयाणु सारिणोसाङ्गोसरणं ३३ उज्जिवयरथिगेहा निह्व
महोहापसंत्तमुहमोहा अज्जिमयगुणसदोहा हयमाहासाङ्गोसरणं ३४ ख्खिञ्चसणेहिदामा श्याकामधामानिकाम
सुहकामा सुसरिसमणाजिरामा श्यायारामामुगीसरणा ३५ मिलियविसयकसाया उसियघरघरणिस्संगसुहसाया श्या
कलियहरिसुधि सायासात्तसरणंगयपमाया ३६ हिंसाडोससन्ना कायकारुत्तासयत्तरुप्पत्ता अजरामरपञ्जरकन्ता
सात्तसरणंसुकयपुत्ता ३७ कामयिञ्चवतुक्का कलिमलिमलमुक्काविमुक्काचोरिक्का पावरयसुरयरिक्का सात्तगुणरयणच
च्चिक्का ३८ साङ्गसुद्धियाजं श्यायिरुद्धंश्यायरात्तेसात्त साङ्गजणिणरमहिया त्तैतम्हासाङ्गोसरणं ३९ पक्खिनसा
ङ्गसरणी सरणकाउपुणोविजिणधम्मं पहरिसिरोमच्चपव चकंचुञ्चिञ्चत्तणूत्तणड ४० पवरसुकएहिपत्तंपत्तेहिबिन
वरिकेहविनपत्त त्तकेवलिपत्तत्तं धम्मंसरणपयंनोहं ४१ अण्णपत्तेणयपत्तंणयपत्ताणिञ्च जेणनरसुरसुहाणि मुक्कसुहंपु
ण पुत्तेणंनवरिधम्मोसमोरणं ४२ निह्वलिञ्चकलसुकम्मो कयसुहजम्मो खलीकयञ्चहम्मो पमुहपरिणामरं मोसरणं
मेहोउजिणधम्मो ४३ कालत्तपावनमयजंमणजर मरणवाहिसयसमय अण्णमयच्चवज्जमयजिणययंच धम्मंसरणंपवनो

ह १४ पसमिष्टकामेपमोह दिठादिठेसुनकलिययिरोह सियसुहफलयमरोहं धम्मसरणपघनोहं १५ नरयगडुगमण
 रोह गणसदोहपथाहनिरकाह निहपिष्टमहजोहं धम्मसरणपघनोहं १६ नासुरसुधन्तसुदर रयणालकारगारय
 महग्घ निहमिष्टदागसुहरं धम्मजिणदेसियवठे ४७ चउसरणगमणसचिय सुधरियरोमधो अचियसरीरोकयटुकळ
 ठगरिहाशुसुहकम्मस्सकयस्सिरात्तणहं ४८ इहंनत्रियमक्कनविथ-मिठसपवप्पण जमिठगरण जिणपवप्पणपफिकुठटु
 ठगरिहामिसंपाव ४९ मिठसत्तमधेगअरिहत्ताहं सुपवनयेणिज्ज अन्ताणणधिरडय इरिहगिरिहमिसंपाव ५० सु
 यधम्मसघसाहसुं पावेपफिणीयथाइजरेडय अन्तेमुयपायेसुपठरिह ५१ अन्तसुयजीवसुमित्ती करणाडुगोयरेसुक
 सपरियात्तणाडुवुरक इरिहगिरिहामिस ५२ जमणवकयाहिकय कारियअणुमइहि आयरियधम्मधिरुद्धमसुठ इ
 रिहगिरिहामिस ५३ अहंसोडुक्कणं गिरिहां वोलिउक्कणोडुकळोफुणत्तणहं सुक्कणुराणसमहं कपुत्तफुलयकुस्कराठो
 ५४ अरिहत्तंअरिहत्तेसु जंत्रसिद्धत्तणचत्तिठेसु आयारआयरिए उवज्जावत्तउवज्जाय ५५ साङ्गसाङ्गाधिरिय दे
 सधिरियंअसायजिणाणं अणुमेत्तेसत्तेसिःसम्मत्तसेहदेठोणं ५६ अहंवाअधियधीयराय ययणाणुसारिज सुक्कळकाल
 सएयित्तिविह-अणुमोएमत्तयसंत्त ५७ सुहपरिणामोनिच्च चउसयरगमाय आयरिजीधो कुञ्जलपर्यक्रिययथाहं यधो
 उसुहाणयथाउ ५८ मदुप्पजावायेपत्तिः यणजावाटकुणहये साधेवअहाउनिरणूयथाउ कुणरत्तिष्ठाणमदाठ ५९

एय एनपविचिर वरुदुर वा धामस सपर प्राग धा

ज्ञापयकायत्रुवहोहिनिञ्च विसंकिलेसमि हीडितिकालसम्भं असकिलेसमिसुकयफलं ६० चउरंगोजिणधम्मो नक
उचगरउमसरणमविनकयं चउरणंजवनकउत्ये हाहारिलजम्मो ६१ डयजीवपमायमहारिवीर जदत्तहेवजयण ऊ
यसुतिसज्जमवजा कारणंनिञ्चुयसुहाणं ६२ ॥ इतिचउसरणसम्भत्तं ५ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥



॥८॥ काज्जणनमुक्त्वार जिणवरयसहस्रस वरुमाणसस सयारमिनियरु गुणपक्रियाक्रिनसामेह १ एसकिराराहणया
 एसकिरमणो रठोसुविहिस्थाण एसकिरपठिमत पक्रागहणसुविहिस्थाण २ जूर्डगहणजहनक्त्वाण श्ययमाणय श्य
 वशाणसस मझाणचपक्रागा तहसयारोसुविहिस्थाण ३ वेरुसिउस्रमणीण गोसीसचदणवगघाण जहवरयणेसुधइ
 र तहसयारोसुविहिस्थाण ४ सुरिसवरपुक्ररीत्त श्यरिहाइयसस्र पुरिससीहाण महिलाणजगयइत्त जिणजणणित्त
 जयमिजहा ५ वसाणजिणवंतो सस्रकुलाणचसाययकुलाइ सिद्धिगईवगईण सुप्पिसुहसस्रसुक्काण ६ घम्माणचश्य
 हिता जणत्रययपणाण साज्जअठणाठ जिणययणचसुठण सुठीणचजहा ७ कलाणश्यस्रुदउदेवाण दुव्वहसिज्जश्यण
 मि यतीसंदेघिदा जत्तकायतिणगमणा ८ उरुत्तुतयएय पंक्रियमरणसुजिणवरस्काय हतूणकम्ममस्र सिद्धियक्रागातु
 मेलहा ९ ज्जाणाणपरमसुक्कू नाणाणकेवलजहानाण परिनिह्वाणचजहा कमेणत्तणिश्यजिणरहि १० ससुप्पम
 छाजार्ण सामन्तवेयलाजसन्तति परमुप्पमतित्ययो परमगइपरमसिद्धुप्पि ११ मूलतहसजमोवपरलोग रयाणकिल
 रुक्कमाण सस्रुप्पमयहाण सामप्रचेवमनति १२ लेसाणसुक्कूलेसा निश्यमाणचत्तवेरयासोश्य गुप्पिसमिद्धगुणाण मूल
 तहसजमोयात्त १३ समुत्तमसित्याण तित्यपरययामिश्यजहातित्य श्यजिसंउस्रसुराणतहसया० १४ सिश्यकमलस
 सत्पिश्यनदावस्र वरुमस्रदामाण तसिपिमगलाण सयारोमगलश्यइप्पि १५ स्रवश्यग्गिनियमसुरा जिणयरनाणा

त्रिसुहृद्यत्ययणा जेनिह्वहंतिसुरिसा संधारगहंदमारूढा १६ परमठोपरमउलं परमाद्यवर्णंति परमस्कृति परमुत्त
मतित्यय परमगईपरमसिद्धि १७ ताएञ्चंतुमेवष्टं जिगवयणमयविन्नूसिञ्चंदेहं धम्मरयणंस्सिञ्चाते पफिञ्चान्तु
वणंमिथसुहाग १८ यत्ताउत्तमसुरिसा कल्लाणपरंपरापरदिह्वा पावयणसञ्जधारं कयंचतेञ्जसप्पुरिसा १९ संम
त्तनाणदंसणवरयणां नासणतेञ्जुत्ताचारित्तसुहृत्सीला तिरयणमालातुमेलठा २० सुविहिञ्चगुणवित्यारंसंधारं ज
लहंतिसोप्पुरिसा हसिजिञ्चलोकसारं रयणाहरणंकयहोई २१ तंतित्यंतुमेलष्टंजयवर सव्वजीवलोगंमि हायाजत्य
मुणिवरा निह्वाणमणुत्तरपत्ता २२ ञ्जासवयंवरनिज्जर त्तिन्निविञ्चत्यासमाहिञ्चा जत्यतित्यंतित्तणंता सीलव
यद्यसोवाणा २३ ज्जिपरिसहचमू उत्तमसंजमवलेणसंजुत्ता जुंजंतिकंमरहिञ्चा निह्वाणमणुत्तररज्जा २४ तिञ्ज
ञ्चणरज्जासमाहिं पत्तोसितुमंहिसमयकप्पंति रज्जात्तिसेउमउलवि तलंफलंलोडविहरति २५ ञ्चिन्नंदडमेहिञ्चयतु
भ्य सुरकस्ससोहणोवाउ जलहोसधारोसुविहि ञ्चपरमत्यवित्यारो २६ देवाविदेवलोएञ्जुंजंतो वज्जाविहाइंजोगाई
संधारचितंत ञ्जासाणसथणांइंजुंचति २७ चंदुव्वपित्यणिज्जोसूरोवात्त ञ्चसावदिप्पंतोधणुवत्तो हिमवतहंतविस्का
उ २८ गुह्नीसमईउवेउ सजमतवनिञ्चमजो गजुत्तमणोसमणो समाहिञ्चमणो दंसणनाणेञ्चणन्ममणो २९ मेरुव्व
व्वयाणं सयन्नुरमणव्वचेवउदहिणं चदोइवताराण त्तहसंधारोसुविहाणं ३० ज्जणकेरिसस्सत्तणित्तु संधारोकेरिसेव

अथगगसे उरुं पिगस्सकरण एष्यताईत्यिमोनात् ३१ हापतजस्सेहो जोगाजराय विविहायकृतिश्यायका अरुइइ
 श्यपार सुत्रिसुहातस्ससपारी ३२ जोगारवेणमधो नित्यड अलोश्रणगुसगासे अरुइइ ३३ जोमृणपपुत्रुउक
 रेइ अलोश्रणगुरुसगासे अरु ३४ जोमृणदमणसुद्धो सिफलचरितोकरेइसामन्त अरु ३५ जोपुणदसणसुद्धो
 श्यायचरिष्ठाकरइसापक्कं ३६ जोरागदीसरहि उत्तिगुप्तिगुत्तो तिससमयरहिउ अरु ३७ तिहिगारवे
 हिरहिउ तिरुत्तपत्तिमोय गोपहिक्किप्ति अरु ३८ अउयिहकसापमहणो अउहिअिकहाहिअिरहिउनिच्च अरु
 ३९ पंचमइत्थयकालिउपवसुसमिइ सुसुधुआउधो अरु ४० अक्कायापत्तिअिरउ ससन्नयगाण अिरहिगमहेत्तं अ
 रु ४१ अरुमपवाणअधोक्रमक अिहस्सस्वयणहेउत्ति अरु ४२ नवअन्नचेरगुत्तोउत्तधो दसअिहेसमणधम्मो
 अरु ४३ जुत्तस्सउत्तमठेमलिय कसायस्सनिच्चया जगकरिसोउलात्तो सथाणयस्ससमणस्स ४४ जुत्तमलि
 जगकेरिसवसुखं सथारगुयस्सस्वमगस्स ४५ पठमिष्णुगमिदिवसे सथारगयस्सओहवड लात्तोकोदाणिस्सस्स सक्काअ
 ग्घकागतअणग्घस्स ४६ जोसस्विज्जअत्रिइं सच्चपिस्ववेइसोत्तहि कमअणुसमयं साक्खुभोतहियमए ४७ सणस
 थारनिअिन्तोअि मुणिवरोत्तहरायपमोडो जपायइमुमसुइ कसोतचक्कअटोअि ४८ निप्पुरिसनाटुगमि अिनसारइ
 सहस्सवित्तारे जिणययगमिअिसालहे उअइस्सावगुत्तमि ४९ जरागदासमइय सुरक्कजहाइअिसयमइय अणुइयइअ

रायचनपाठासु बाइरु का भागम सपइ प्राण २१

रिषणीहृषडत्तं जलकीरुठियाविकहंष्टी सोतह० ६६ जलमलपकधारीश्याहारो सीलसजमगुणाण अज्जीरणोश्चग्गी
 उ किप्तिश्चश्चज्जोसखरमि ६७ रोहीकगमिनघरेश्याहार फासुश्चगवेससो कोवेणखप्तिएणय जिक्कोसत्तिप्पाहारेण
 ६८ एगसमणावाए वित्तिनेघफिलेचह अदेहसोवितहजिक्कवेहोय० ६९ पाळलिपुत्तमिसुरेश्व दयगुस्सधेवश्यासी
 अ नामेणघसीहो चदसिरिसोपयहिऊण ७० उल्लउरमिमुखरे अहसोश्चप्पठिउठित्तं घमेकीश्चगुरुपठ पच्चस्काण
 विमयसोविहहजिनदेहोय। ७१ अहसोविचिह्वदेहोत्तिरिहसश्चस्सो हिंस्रज्जमाणोश्चसोदितहस्व ७२ पाळलिपुत्तं
 मिपुरे चाणक्कोनामविस्सउश्यासि सखारंजनिअतोहं गिणिमरणअहनियिस्सो ७३ अणुलोमपूश्याणाए अहसोस
 पुजउरुहहदेह सोतहविक्कसमाणोपफि० ७४ काइदीनघरीए रायानामेणअमयत्तोसुत्ति तोसोसुश्चसरज्ज दाउण
 हृषधरेघम ७५ श्याहिजिउणवसुह सुतत्यविचारउसुश्चरइस्सो काइदिचेयपुरिं अहपप्पोविगयसोगोसो ७६ ना
 मेणचंनवेगी अहसोपाळिदिअसयं सोतहवीठिज्जमाणो पफिवन्तो० ७७ कोसघीनघरीए उलिकघफानामवि
 स्सुश्याश्यासि पाउषगमनियन्ता असीसप्पेसुश्चरइस्सा ७८ जलमसेउधढोनहं इपूरेणनिम्ममसरीरा तहविक्कजल
 दहमसे पफिवन्ता० ७९ श्यासीकुलाणलनयर रायनामेण वेसमणादासोतस्स अमाश्यारिहो मित्यादिठिपफिनिविठो०
 ८० तत्ययमुणिवरयसहो गणिपिक्कगधरोतहासिअयारित्तं नामेणउवसहसेणा सुश्चसायरपारगीधीरो ८१ तस्सासी

राय वलपावासाव वशदुर का धायस सयइ साव ५१

शृगणहरोनागासत्यत्यगहि शृपेशालोनामेणसीहसेणो वायंमिपराजिउरुठो ८२ शृहसीनिराणुकंपो शृग्गिदाऊणसु
 विहि शृपसते सोतहविहसा ० ८३ कुरुदक्षोविकुमारो सिबलिंचशृग्गिणादठो सोतहविहस ८४ शृसीचिवलाइमु
 न्नो मुइगुलिशृाहिंचालणिहृकउ सोतहविहस ० ८५ शृसीगयसुकुमालो शृत्तचम्दावकीलयसएहिं धरणीशृलेशृव
 ठो तेणविशृाराहिशृंमरण ८६ मखलिजाविशृरहण सीसीतेशृमुउवगयादठातेतहविहस ० ८७ परिजाणईतिगुप्तो
 जावज्जीवाइसहृमाहारं सघसमवायपसे सागारगुरुनिउगेणं ८८ शृहवासमाहिहेउकरेड शृप्पागस्सशृाहारं तो
 पाणगपिपत्या वासिरइमुणीजहाकालं ९९ खामेइसहृसंधं सवेगंसेसगाणकुणमाणो मणवडजोगेहिंपुरा कयका
 रिशृशृणुमएवावि ९० ससहृेशृधराहएए एसखमावमि शृज्जानिसहृो शृमापिकुसरिसया सहृेविखमंतुमहजीवा
 ९१ धीरमुरिसपन्नत सप्पुरिसनिसेविशृंपरमघोरं धन्तासिलायलमषा साहंतीउत्तमशृठं ९२ नारयतिरिशृगइए
 माणुसदेवहृणेवसंत्तेणं जपत्तसुहसुहदुस्कं तंशृणुचिंतेशृणन्नमणो ९३ नरएसुवेनणानं शृणोवमाउशृसायबकलानं
 कायनिमित्तपत्तो शृणंतखुत्तोबकविहाउ ९४ देवत्तेमणुशृहो परान्निउगत्तणउवगएणं दुस्कपरिकिलेसकरी शृण
 तखुत्तोसमणनूउ ९५ तिरिशृगइंशृणुपत्तो जीममहावेशृणाशृणोयरया जमणमरणरहठे शृणंतखुत्तोपरिशृमि ९६
 सुविहिशृशृइवकाले शृणंतकालतुशृागयगएणं जमणमरणमणत शृणतखुत्तोसमणनूउ ९७ नित्यिजयमरणसमं ज

मणसरिसनविष्णुदुर्कं जमणमरणायं क विदिममसरीराउ १८ अंनडमसरीर अन्तो जीवति नित्ययमडुठं दुस्कपरि
क्लिसेकर विदमयत्त ० १९ जावसिकेदुस्कासारीरा माणसावससारे पक्षोश्चतसुक्ष्मो कायस्सममभदोसेण १००
तमहासरीरमाह सखितरयाहिरनिरसस विदममत्तसुविहिश्च अहहत्तसिउत्तमठाण १ जगत्पारहोसधोसधो मह
खमउनिरवसेसपि अहमविस्वमामिसुद्धो गुणसघायस्ससगस्स २ श्यायरिउत्तउवसाए सीसेसाहम्मिएकुलगेपोय
जेमेकेयकसाया सखितिविहेणस्वामेनि ३ ससुस्ससमगसघस्स जवयउत्तयलीकरो असीसेससुस्वमावडहो अहम
विस्वामेमिसहस्स ४ ससुसजीवरासिस्स जावउधम्मनिदिश्चनिश्चचित्तो ससुस्वमावडहो अहयपिस्वमामिसह्वेसि
५ इत्तस्वामिश्चाइत्तारोश्चणुत्तर तयसमाहिमारुढो पफोत्ततोविहरइ अत्तविहयाहाकरंकरं ६ जवत्तमसखिज्जाहिं
असुत्तजवसयसहस्स कोलीहिणगसमण्णविष्णुगह सघारश्चारुहत्तोउ ७ इत्ततहविहारिणोसे यिग्घकरीवेश्चणास
मुठेह तीसेविष्णेषणाए अणुत्तठिंदित्तिनिज्जावया ८ जहतावतमुणिवरा श्यारोविष्चवित्तरा अपरिक्कमागिरिपक्षा
रविष्णगा अत्तसावयसकत्तनीम ९ धीघाणेश्चयत्तकथा अणुत्तरविहारिणो समक्काया सावयदाढगयवत्तसाहती
उत्तमत्त १० क्किपुणश्चरगारसहा यगेहिधीरेहिसगमयणहि नत्तनित्यरिज्जड्ढमो सघारोउत्तमत्त ११ अत्त
हसरीरघरा अत्तो जीवोसरीरमत्तति धम्मस्सकारणेसुविहि आसरिरपित्यत्तहुत्ति १२ पोराणिश्चयत्तुप्पविष्णुत्त

राय पणपविंसिह बहुर का वाक्कस सपह वाग ५।

शुद्धिश्चासिऊणविष्णुणाउ कंमकलंकलवल्लीवि ऊणडसंधारमारुढो १३ जंशुंनानीकंमं खवेडवऊश्याहिं वासको
 ऋहिंतंनानतेहिंगुहो खवडइऊसासमित्तेण १४ शुहविहकंममूलं वऊएहिंसचिष्णंवावतंनाना १५ एवमरिऊधी
 रा संधारंमिउगुरुपवित्यमि तइष्णवेणवतेणव सिसिऊाखीणकमरया १६ गुह्नीसमीईगुणठो संजमतवनिअमक
 रणकयमउळो संमन्नानाणदंसण तिरयणसंपाविष्णुसमघो १७ संघोसष्टंदयाणं सदेवमणुश्यासुरंमिलीगंमि दुल्लहत
 वोविसुहो सुविसुहोतोमहामउळो १८ ऋप्लंतेणविगिम्हे कालसिलाएकविह्विनूश्याए सूरणवचंदेणव किरणसहस्सं
 पयणेण १९ लोगविजयंकरितेण तेणऊ.णावउह्वचित्तेणं परिसुठनानाणदंसण विह्विडमंतंण० २० चंदगविप्लंलसं के
 वसरिससमाउपरिहीणं उत्तमलेसाणु गउपफिवन्नाउत्तमंगशुठं २१ एवमएष्णिसुश्या संधारगइयंदखंधमारुढा सु
 समणनरिंदचंदा सुहसंकमणंसयादिंतु २२ संधारकपडन्तसंमत्त ॥



॥१॥ देसिक्कदेसविरउ समद्विठीमरिण्णजोजीयो तहोद्वयालपफिञ्चा मरणजिणसाससोत्तणिञ्चं १ अंचयण्णुञ्च
 पाठ सप्तउसिस्काउदेसजडधमो सङ्घेणवदेसेणवत्तेण जुउहोद्वेसजड २ जचदिसावेरमण ष्णणत्यदकाउजचवेरमण
 विसवगासिष्णपिष्ण गुणह्णयाडुत्तवेताहं ३ पाणियहमुसायाए अदन्तपरदारनिष्मणहिच ष्णपरिमिडुत्याउविष्ण ष्ण
 पुष्णयाडविरमणाड ४ जोगाणपरिसखासामाड ष्णअतिहसविजोगोश्च पोसहविहीउसह्वे चउरोसिस्काउवुत्ताउ ५
 ष्णासुक्कामिमरणेष्यच्छिनाए अजीविसाए नाएहिवाअमुक्को पच्छिमसलेहणमक्किञ्चा ६ ष्णालोद्वअनिस्सह्वो सधरे
 चेरकेयासहित्रुसघार जडमरड्वेसवरित युष्णयालपफिञ्चयं ७ जोत्तसपरिञ्जाए उवक्कामोवित्यरेणनिद्विठी सोचेवया
 लपफिञ्च मरणेनेउजहाजुगं ८ वेमाणिएसुकपोषगेसु नियमेणतस्सउवयाउ नियमासिस्मिहउक्कोसएण सोसप्तम
 मिज्जवे ९ इअयालपफिञ्चंहोड मरणमरिहतसासणेदिठ अत्तोपंफियपफियमरण युच्छसमासेण १० इत्तामिज्जतेउ
 तिमठ पफिक्कामामि अहयपफिक्कामामि अणायपफिक्कामामि पशुपन्तपफिक्कामामि लयपफिक्कामामि कारियप
 फिक्कामामि अणुमोहयपफिक्कामामि मिठज० असजम० कसाय० पाधपयोगपफिक्कामाकि मिळादसणपरिणामे सु
 वाडडलोगेसुवा परलोगेसुवा सच्चित्तसुवा अचित्तसुवा पचसुइदिअत्तेसुवा अज्ञानजाणे उदसणजाणे कोहंजाणे
 मानजाणे मायजाणे लोहजाणे राग० दोस० मोहं० इत्त० मिठ० मुठ० सक० सख० गोहि० अ्यास० सएठ०

तुह० पथं० पंथाण० निहृ० निष्ठाण० नेह० कामं० कञ्जुसं० कलहं० जुष्टं० निजुष्टं० संगं० संगहं० ववहारं०
त्यक्रयत्रिक्रयं० शृणदहं० शृणाग० शृणाजोग० शृणाडह्ववेर० विश्वक्काहिस० हास० पहासं० पउस० फरुसयं०
रूव० शृप्पयसंस० परनिद० परिगरहं० परिग्गहं० परिपरिवाय० परदूमण० शृरत्तं० संरत्तं० पात्राणुमोशृणं० शृहि
गरणऊ० शृसमाहिमरण० कंमोदयपञ्चयं० इहिंगारव० रसगारगवं० सायागारवं० शृवेरमण० शृमुत्तिमरणं ऊाणं ६३
पसुत्तस्सवापळावृरुस्स वाजोमेकोइदंयसिउराइउत्तमिठं शृइक्कमोवेइक्कमो शृइयारो शृणायारो तरुसमिच्छामि
दुक्कळ १३ एसकारमियगामं जिणवरवससहस्सवह्माणस्स ससाणंपिजिणाणं सगणहराणचसल्लेसि १४ सल्लंपा
णारंत्तं पञ्चस्कामित्ति शृलियवयणं च सल्लमदिन्तादाणं वेज्जन्तपरिग्गहंचेय १५ समंमेसल्लूणसु वेरंमऊनकेणइ शृ
सानुधोनिरत्ताणं समाहिमणुयालए १६ सल्लचाहारविहिं सन्नाउगारवेकसाएय सल्लंचेयमत्तंच एसिसल्लंखमावेमि
१७ ऊज्जाइममिसमाए उवक्कमोजीविशृजइमज्ज एशृपञ्चस्काणं विउलाशृाराहणाहेउ १८ सल्लदुक्कएहीणाणं सि
द्धाणशृरहनुनमो सहेहेजिणपन्नत्त पञ्चस्कामिशृपागच १९ नमृत्युधुशृपाठाणं सिद्धाणंचमहेसिणं सथारंपफिवु
च्छामि जहाकेवलिट्टेसिशृ २० जकिंचविदुञ्जरिशृ त्तसल्लंयोस्सिरामित्तिवहेणं साम इशृचत्तिविहं करमिसल्लंनिरा
गार २१ ब्राह्मशृप्पित्तरंदोवाहं सरीराइसजोशृण मयसावयकाएहिं सल्लजावेणवीसिरं २२ रागवधंपउसच हरिसंदी

णजात्रयं उस्सुगत्तजयसोग रयंश्चरयवधोसि २३ समसपरियज्जामि निम्ममत्तउवठिठं च्यालयणचमेच्याया सवसे
 सधयोभिरे २४ च्यायाउमहंन्ताणो च्यायामेटसणचरिहेषु च्यायापञ्चुक्काणो च्यायामेसजमेजोगे २५ एगोवञ्चुह्ज
 धो एगोवेवधज्जण एगस्सवेवमरण एगोसिह्मह्नीरउ २६ एगामेसासउष्णणा नाणदसणमजुउ सेसामेधाहिरात्ताया
 सत्तसजोगलखणा २७ सजोगमूलाजीवण पञ्चोक्कपरपरा तम्हासजोगसधध सत्ततिविहेणयोसिरे २८ मूलगु
 णउत्तरगुण मेनोराहिसुपयत्तेण तमहसत्तनिदेयत्तिकुमेच्यागामिसेसाण २९ सत्तजणष्ठमण सन्ताचत्तारिगारव
 तिन्नि च्यासापणत्ततीस रागदोसधगरिहामि ३० अस्सजमणनाण मिच्छत्तसत्तमेवय समत्तजीवेसुश्चजीवेसु अत्त
 निदेतधगरिहामि ३१ निवामिनिद णेज्ज गरिहामि अजचमेगरिहगिज्ज च्यालोएसिअसत्त अस्सितरेधाहिरदुवहिं
 ३२ जह्मयालीजर्पतो कज्जमकज्जचउज्जुअनणइ ततहच्यालीहज्जा मायामयविप्पमुक्कोअ ३३ नाणमिअत्तवे चरि
 त्तेश्चउसुयिअ प्पकोधीरोअगमकुसलो अप्परिसात्रीरहस्साण ३४ रागेणवदोत्तणय जत्तेअकयत्तुआपमाएण जो
 मेकिअचित्तिणित्तं तमहत्तिविहेणस्वामेमि ३५ तिविहत्तणत्तिमरण थालाणथालपत्तिअणच सत्तयपत्तिअमरण ज
 केवलिणोअणुमरति ३६ जेमुणअत्तमत्तआपहलिअसन्ताचवक्कजायाय अस्समाहिणामरती नक्कत्तेअराहगत्तणि
 अ ३७ मरणेअत्तिअत्तिअत्तिदुगाई दुस्सहापकिरयोही ससारीअअणतो हयइत्तुणोअगमिस्साण ३८ कादेवदुग्ग

इकाश्चयोहि केनेवबुच्छइत्तरणं केणश्चणत्तपाणं संसारंपिच्छइजीवो ३९ कंदप्पदेवकित्तिसञ्चज्जिन्तगा आसुरीश्चस
मोह त्तादेशदुग्गाइत्तं मरणंमिवाराहिज्जति ४० मित्थादसणरत्ता सनिश्चाणांकिरहलसामोगाढाडहजेमरंतिजीवा ते
सिंदुलहात्तवेवोहि ४१ मित्थादंसदसणंरत्ता अनिश्चाणासुक्कलेसमोगाढा इहजेमरंतिजीवा तेसिसुलहात्तवेवोही
४२ जेमुणगुरुपत्तीणीआ वज्जमोहससबलाकुसलाय अस्समाहिणामरंती तेज्जंतिश्चणंतसंसारी ४३ जिणवयणेश्च
णुरत्ता गुरुवयणजेकरंतिजावेणं अस्सवलश्चसकिंलठा तेज्जंतिपरित्तससारी ४४ बालमरणाणिवज्जसो वज्जश्चाणिश्च
कामग्गाणि मरणाणिमरिहंतितेवराया जेजिणवयणनयाणति ४५ सत्थग्गहणविसत्तखणच्च जलणच्चजलपवेसीश्च
श्चणयारत्तं सेवीजमणमरणाणुबंधीणि ४६ उठमहेतिरिञ्चंमि विमयाणिजीवेण बालमरणाणिदंसणनाणसहगत्तं प
फिश्चमरणश्चणुसरिस्स ४७ उव्वेश्चणाइंजाडमरणं नरएसुलेश्चाणानुश्चएश्चाणिसं ज्जरंतपंफिश्च अमरणंमरसुडारिह ४८
जइउप्पज्जइदुखंतोदठव्वे सहानुनवरं किकिमएन पत्तंससारसंसरंतेणं ४९ ससारच्चक्कवाले सव्वेविश्चप्पग्गलामए
वज्जसो आहारिश्चायपरिणामिश्चाय नयहगत्तत्तिं ०५० तणकठेहिविश्चग्गी लवणजलोवानईसहरसंइं नडमोजीवा
सक्कातिप्पेत्तकामजोगेहिं ५१ आहारनिमित्तेण मच्छागत्तंसत्तमिपुढविं सच्चित्तोश्चाहारो नखत्तोमणसाविपत्येत्तंपर
मुक्किंकरयपरिकमोश्चनिश्चाणो ऊहिमइवुत्तिंयत्यामलिश्चकसानुं सज्जोमरणंपफिच्छामि ५३ अक्कंफेचिरत्तविश्चत्तमु

रिसोम रणदेसकालमि पुष्यकयकमपरिजायणावृपत्यापरिचक्रोति ५४ स्रग्हाचदगविह्य सकारणंउज्जएण पुरीसेण
 जीशेअविरहि अगुणोकायहीमुस्कमग्गमि ५५ घाहिरजोगविरहितं अस्सिंहरऊणजोगमल्लीणो अहस्रमदेसकाल
 अमूढसनीघयद्वदिह' ५६ इहणरागदोस वित्रुणयअठकंमसथायं जमणमरणरहहत्पितूणजथाविमुच्चिहसि ५७ एव
 ससुअसजणिदिठसद्वहामिति विहेणतसथावर खिमकरपारनिष्ठाणमग्गस ५८ नहिअमिदेसकाले सक्काधारसयि
 हासुअस्कधोसिद्धो अणुचितेउघणिअपिसमठअिहेण ५९ एगमिअिजमिपए सवेगयोधरांयमग्गमि गल्लइनरोअ
 जिरकत मरअ्यहणमरिअस ६० लोएगपिसिलोजजो पुरिसोमरणदेसकालमि अाराहणाअउत्तो अितताराहगोहो
 ह ६१ अाराहणाअउत्तो कालकाऊणसुअिहितं सम्मउक्कोसतिन्नजये गतूणलहडनिष्ठाण ६२ लसु अलसुपुसु जिण
 अयणसुजासि अअमयजुअंगहि लसग्गइमग्गोनाहमरणस्सयीहामि ६३ धारेणयिमरिअस काउरिसेणविअससम
 रिअस दुएहंपिअमरिअस परखुसीरत्तणेमरितं ६४ सीलेणयिमरिअस निस्सीलेणविअससमरिअस दुन्हपिअम
 रिअस धरखुधीलहणमरितं' ६५ नाणस्सदसणस्सय समत्तस्सयधरितजुत्तस्स जोकाहीउयउगससारासोयीमुच्चिहि
 ही ६६ अिरउअिअयजपारी पफोप्रेऊणसेसयकमा अणुपुष्ठीडविमुद्धो गच्छुडसिद्धिधुअकिलेसो ६७ निकसायस्स
 ण्तस्स सूरस्सवववाहणो ससारपरिनीअस्स पच्चस्काणसुहजथो ६८ अाउरपच्चस्काणजोकाही मरणदेसकालनि

धिरोऽमूणसनी सोगढइउत्तमंठाणं ६९ धीरोजरमरणविउधीरो थिन्नाणसंपत्तो लोगस्सुज्जोष्णगरो दिसउखयं
सहदुक्काणं ७० ष्टाउरपञ्चकाणसमत्त ॥ रायधनपतिसिंह बहादुरस्य जैनागम सग्रहे ष्टाउरपञ्चकाण नामक
प्रकर्णः षष्ठो ज्ञागः समाप्तः ॥ ॥ ॥ ॥ ॥



हो अहंदुरतोन्नवसमुद्रो १५ पच्छायावपरश्रीपियधमो दोसदूसगसयएहो अरहडयासच्छाई विदोसवोसिल्लकलि
 उवि १६ इअकलिउणसहरिसं गुरुपामूलंजिगमविणएणं नालययलमिलि अकरमलसेहरोवदिउन्नणड १७ अरुहि
 अमहसुसुरिस जत्तपरिन्नायसत्यवोहित्य निज्जामएणगुरुणा इत्यामिज्जवंनवंत्तरिउ १८ कारुन्तामयनीसंदसुदरो
 सोविमंगुरुज्जणड अलोअणवयखानण मुरस्सरतएवज्जेसु १९ इत्यासुत्तिज्जणित्तो जतीयज्जमाणसुद्धसं कप्पोगुरु
 णोविगयाए पाएअज्जिउविहिणा २० सल्लउद्धरिअमणो संवेगुत्तिअत्तिअसठाउ जंकुणइसुत्तिहेउसोतणाराहण
 होडं २१ अहसोअलोअणदोसवज्जिअं उजअजहायरिअं बाजुअलकालाउदेई अलोअणंसम २२ उविएपाय
 च्छित्ते गणिगागणिसंपयांसमग्गेण सम्ममणुमन्निअसयं अपावजावोतुणोन्नणड २३ इदारुणदुहगलयरनिअर नी
 रज्जजलहितारणसमत्ये निअप्यवायप्पोए महअएअम्हउरिक्खिसु २४ अडविसख्खिअचको अखम्महअजडवि
 वल्लवत्तवण मुठायणमरिहडतहावि २५ पज्जणोसुकयाणुत्ति अच्चापच्चिअणंतिजहविहणा जावज्जोवपडणा
 तिं गुरुणोतत्तासोवि २६ जोसाडअरचरणो अउत्तिअदंअखंअिअवउवा तहतस्सविसम्मसुवहिअस्स अठाव
 अणिअ २७ अत्तोतस्ससहअय पअयनारोनमतसोस सोसस्ससमारोवड सुगुरुविमहअएविहिणा २८ अहदु
 वेसचिरउ सम्मत्तरउरउअजिणधम्मो तस्सअिअणुअयाइ अरोत्तिज्जंतिसुद्धाई २९ अनियाणोदारमणो हरिसव

सत्रिसहस्रयुपकरालो पूण्ड्रगुरुसघं साहंमीश्वमाइजनीए ३० निश्चदक्षमउष्ट्रजिणिद जत्रणाजिथियवरपडठासुवि
 अरद्वएसत्यसुत्यय सुतित्यतत्यपरपूश्यासु ३१ लजइसोयिसह्वथिरड कयाणुराउयिसुष्टमड काउठिन्नसयणाणुराउ
 विसयविसाउथिरसोशु ३२ सथारयपष्टुज्ज पष्टुज्जडसोविनिश्चमनिखज्ज सष्टुथिरडपहाणसामइ श्वथरिन्नमारुहड
 ३३ श्वडसोसामइश्वधरोपफि सुन्तमहज्जउजीसाऊ देसवरुउचरिम पञ्चस्कामिभिष्कुहत्त ३४ गुरुगुणगुरुणो पयप
 कपनमिश्चमलउज्जणड जयवज्जयपरिन्न तुणाणुययपयज्जामि ३५ श्वासडणाडखेमतस्से ययश्चप्पणोश्चगणिथस
 होदिश्वेनिमिधेण पफिलेहडहरडासा ३६ ततोन्नथश्चरिमसो पञ्चस्काइतितियिहमाहारं श्वक्कोसिश्चाणिदस्राणि
 तरुससह्वागिदसिज्जा ३७ पासिन्नुप्राडकोडतीर पप्तस्मिमेहिमस देसवक्राडनुच्चा सवेगगउविचितेड ३८ किश्चिन्न
 कोत्रजुत मेपरिणामासुडसुड दिठ ोसेसुहज्जाइय चोश्चणेसात्रसीश्वउ ३९ श्वमरलसोहणठा समाहियाणमणुनमे
 सौवि मङ्गरपज्जेश्वसोम टथथिरयणखमत्त ४० एलतयनागकेसर तमालयत्तससक्कर दुक्कपाठणकठिश्चसीश्चल स
 माहियाणतत्तपत्या ४१ मङ्गरथिरेश्चणमेसो कायसोमुप्फलाडदशेहि निह्वायिउश्चश्चगी समाहिमेसोसुहलडड २४
 जाउयज्जीचतियिह श्वाहारथोसिडडडखवगो निज्जायगोश्चपरिठ सघस्सनिवेश्चणइ ४२ श्वाराहणयश्चडश्चखमगस्स
 यनिरुवसग्गपञ्चइश्च सोउसग्गोसुधेगहोइसह्णेणकायशो ४४ पञ्चरक्कावितिलड ससेखमयचउविहाहार सघयसमुवा

१०१ पणपत्तिसिद्धवर दुर का प्राणस सत्रि साग ७

यमप्रे चइवदणपुंयविहिणा ४५ अहवासमाहिहेउं साग्गरचयडतिविहमाहार त्तोपाणयंपियथा वोसिरिअघंज
हाकाल ४६ तोसोनमतसिरसघरुत करकमलसेहरोविहणाखांडमे सल्लसंघंसवेगंसजयणेमाणो ५७ आयरिअउ
वसाए ४८ सहेअवरायएराखामेम अहंसमेउमेअयव अहमविखमोमिसुद्धो गुणसघायस्सघयस्स ४९ इअवदणख
मेणगरिहणाड अत्रसयसमज्जि अक्रमउवणेइ खणेणखयंमि अावडरायपत्तिव ५० तहतस्समंहअयसुठिअस्स जि
णवयगजाविअमइस्स पञ्चस्कायाहारस्स तिअसवेगसुहयस्स ५१ आराहणलाजाउ कयत्यमप्याणसमुगतस्स कलु
सकलतरणलठि अणुसठिदेडगणिवसहो ५२ कुग्गहयरूठमूलं मूलाउत्तिदवच्छमिच्छत जावेसुयरमत्तत्तं संमत्तंमु
नीडेए ५३ अत्तिचकुंणडतिअं गुणाणराएणवीअरायाणं तहपंचनमुक्कारे पवयणसारंरइकुणलुसु ५४ विहिअहि
अनिजाए सअयएउअुज्जुत्तसयाहांसु निअंपंचमहअय रेस्ककुणआयपअस्कं ५५ उअसुनिआणसल्ल मोहसहलंसकम्म
निस्सल्ल दमसुअणुणिहस दाहनिदिराइंदिअययंद ५६ निअ्हाणसुहाचाए विअंनिनिरयाडदारुणाचाए हणसुकसा
पिसाए विसयतिसाएसडसाहाए ५७ कालअपअप्पत्तं सामनेसावसेसिएडरिहं सौहमहारिउदारण अंसिलविकुण
सुअणुसठि ५८ संसारमूलवीअ मिअत्तंसल्लहाविवजाहि संमत्तेदठचित्तोहा सुनमुक्कारकुसलोअ ५९ मयतरिहअ
हिअोअं मनंतिनराजहासंतजाए सुक्काइकुहअ्मानं तहेवमिअत्तमूठमणो ६० नवित्तंकारेविअग्गी नअविसनेन

अकिंरहस्योश्च जकुण्डमहादोस तिष्ठजीवस्समित्त ६१ पायइइहेयसणसुरुमिणिदत्रुद्धारिणपुरिसो मिठिससो
 हिश्यमणो साङ्गपडसाउपावात्त माकासितपमाय समहेससुदुरकनासणए जसमप्तपडठा नागतवविरिइयपुरणाइ६३
 नावागरायपेमाणु रायसुगुणरायरसो अघंमाणुरायरसो अहोसुजिणसासणेनिष्प ६४ दसणजठोनज्जसठा होइ
 धरणपचयठो दसणमयणपसस्सङ्ग परिअरुणनित्यिससार६६ दसणजठजठोदंसण जस्सनत्यनिष्ठाण सिस्सतिचरण
 रदिस्या दसणराहिस्यानिंसिसति ६६ सुठेसम्मत्तेअयित्त अज्जेडतित्ययरनाम जइयागामित्तितहा इरिकुलपज्जसे
 णिंश्याइया ६७ कत्ताणपरपरय लहंसिजीवायिसुठसम्मत्ता समठसणरयण नग्घइसुसुरासुरेओए ६८ तेलुकुस्सप
 जत्त लठूणायिपरिवुत्तति कालेणसमप्तपुणलठु अरकयसुस्सकलइइरसुस्स ६९ अरिहत्तसिस्सवेइअ एवयणअयारिअ
 ससुसाहसु तित्यकरेसुज्जति तिगरणसुस्सेणजायेण ७० एगाविसाणसमत्या जिणज्जहीडुगडनिवाररेउ दुलहारलहा
 वेअ्या सिद्धिपरंपरसुहाइ७१ विज्जाविज्जतिमप्तस्स सिद्धिमुखयोडहोइफलयाय किमुणनियुइइज्जा सिंसिइइअज
 ष्मिमत्तस्स ७२ तेसिअ्याराहणनायगोण नकरिज्जजोनरोज्जति धणिअपिउज्जसतो सालिसाज्जसरेववइ ७३ यीएण
 विणासस्स डक्खइसोवासमसुण्ण विणाअ्याराहणमित्ततो अ्याराहइज्जत्तिसकरतो ७४ उप्तमकुलसयेत्ति सुहंसि
 त्तिसकुणइजिणज्जत्ति मणियारसिद्धि जीवस्संडुइइरस्सवरायगिहे ७५ अणोहणापुरस्सरमत्तहिअ उविसुत्तलेसात्त स

राधपपपपिचइ बाइदुर का अागम सयइ थाप ७१

सारक्यकरणं तंसामुचीनेमुक्त्वा ७६ अरिहतनमुक्त्वा विरहेविजाजोसरणकाले एकीसोजिणयरंहि दिठोसंसा
रुत्तेशससमत्यो ७७ मिठोकिलिठकमो नमोजिणाणति सुकयपणिहाणो कलदलस्कोजस्को जाउवोरुत्तिसूलिहंड
७८ ज्ञावनमुक्त्वा विवज्जिआइ जीवेणअक्यकरणाइं गहियाणिअमुक्त्वाणिअ अणंतसोदह्वलिंगाइ ७९ आराह
णापकाघागहणेह ल्योत्तवेनमोक्त्वा रो तहसुगइमग्गमणे रज्जुजीवस्सअप्पहिहो ८० अनाणीविअंगावो आरा
हित्तमउनमुक्त्वा चपाएसिविसुउ सुदंसणोविस्सुउजात्त ८१ किंजाजहासिसायं सुठुवणात्ताकारइ पुरीसवमं
नाणंहिअपिसायं सुठुवउत्ततहकरेइ ८२ तुवसम्मइकिएहसप्पो जहमतेणविहिणाएउतेण तहहियमकिएहसप्पो
सुठुचउतेणनाणेण ८३ जहमक्काउखणमवि मसत्योअनसक्केइतह खणमयिमसत्योवि सएहिंविणानहोइमणो ८४
तम्हासउठिउमणो मणमक्काउज्जिणोवएसेणं काउसत्तनिवत्तो रामेअहोसुहसाणो ८५ मूर्इजहासमुत्तान जस्सइ
कयवरंमिपहिआवि जीवोवितहसमुत्तो नमस्सत्तईगउविससारे ८६ खंठसिलोगेहिजवो जडतामणाउरखिउराया
एत्तोअसुसामन्नांकिं पुणजिणउत्तसत्तेण ८७ अहवाचलाइमुत्तो नाणेत्तहामरत्तंच उवसमविवेगसवर पयसुमरणमि
त्तसुअनाणो ८८ परिहरच्छजीववहं समंसणवयकायजोगेहि जीवविसेसनात्तं जावज्जीवपयत्तेणं ८९ जहंतेनपि
अटुस्कं जाणिअएमेवसह्वजीवाणं सहायमुवउत्तो धाम्मेणकुणसुयदत्तुं ९० गनसंदराउआगासाउ विसालयनत्थि

१५६
१
४७

पुरिस कसायकलिणोपयष्टेण ५१ जश्चइतिस्फटुस्क जश्चसुहउप्तमतिओठए तज्जाणकसायाण शुद्धिरकयहेउश्चससं
 ५२ कोहेगनदमाइ निहयामाणणपुरसरामाई मायाइमररजा लीहेणलीहनदाई ५३ इश्चउष्टएसामयपाणएण प
 दहाइश्चमिश्चित्तजाउसुनिहुउसो पाऊणपाणिश्चित्तिउ ५४ इत्यामोश्चणुसिद्धि जतेजयपकतरणदठलठि जजहउप्त
 तंतह। करमिधिणउत्तणइ ५५ जडकडविष्णुसुइक मादण्णदेहमिसजवेविष्णुणा श्चहयाप्तएहाइश्चापरीसहसेउदीरिजा
 ५६ । निरु मंजरण्णायणि जहिश्चयगमश्चणलिष्चव तोसीहावेश्चो सोस्कवत्तपनवतेण ५७ सजरसुसुश्चणजत
 मप्पमिधउत्तिहस्स' वूढामहापइना श्चइयश्चाराहइस्सामि ५८ श्चरिहंतसिद्धकेयलि पञ्चस्कसससघसरिकस्स पञ्च
 स्काणस्सकघस्स जजणनामकोकुणइ ५९ जालुलुकीणकरणस्वज्जतो धीरविष्णुणतोधि श्चाराहणपयनोऊाणेण श्चव
 तिसुकुमालो ६० गिगल्लगिरिमिसुंकीसलोवि सिद्धत्यदइश्चउत्तवयं यग्धीणस्वज्जतो। पन्निवनीउप्तमश्चठ ६१ गुठे
 पाउवगतंसुयधुणा गोमएवलिवश्चमि ऋप्पतोत्याणक्कोपन्नि-वनोउप्तमश्चठ ६२ श्चयलयिउणसत्त नुमपिताधार
 धीरयकुणसुं ज्ञावेसुष्णनेगुन ससारमहासमुहस्स ६३ जमजरामरेणजले श्चणाइवससणसाययाइत्ते जीवणेदुस्सहंऊ
 कठरुद्धोत्तयसमुद्धि ६४ वनोहजणमए श्चणोरपारमिप्तसमुद्धमि जयययसहंस्सदुलह लरु ससुमजाणमिण ६५ एश्च
 स्सपलवेण पालिज्जतस्संसडपयत्तेण जमतरेविजीवा। पावतिनदुस्सदोगसं ६६-चित्तामेणिअउष्ट एश्चमपुष्पोश्चक

एव श्रमपतिविश्व ब्राह्मण का प्राणम सपर भाग ७ ।

श्री एश्वमपुत्रोश्चक्रप्यरुक्रति एसीपरमोमती एअपरमाडमयच ६७ अहमणिमदिरसुदरफुर तजिगनिरजगुज्जाले
पंवनमुक्कारिममे पाणेपणउत्रिसज्जेइ ६८ परिणामत्रिसुछीए सुहम्मेसुखगेमहिहीने अाराहजणजायड नत्तपरिन्तं
जहणभो ६९ उक्कोनगगिहल्यो अच्चुयकप्पमिजायइ अमरोनिवाणसुहपावड साज्जसत्तठसिठ्ठिवा ७० इयजोइ
सरजिगवीरजह नणिशाणसारिणीजगीयो नत्तपरिन्तयन्ता पढंतिजावतिजावति ७१ सत्तरिसयंजिणाणचगा हा
णसमयस्त्रिपणत्तं अाराहतोविहिणा रोसोखलुहवैइमुव्वयं ७५ इतिनत्तपरिन्तापयन्तसमत्तं ॥ राय धनपतिसिह
वहादुरस्य जैनागम संग्रहे समप्रमो भागः सभाप्रः ॥

॥८॥ एसकरमिषणाम तित्यधराणश्चणुस्रगईण सहेसिचजिणाण सिहाणसजयाणध १ सहुदुस्कप्यहीणाण सि
 हाणश्चरहोनमो सहहसणपक्षस पञ्चस्काणमिपावग २ अकिचिदुच्चरियतमह निदामिससुजायेण सामाह्ययचसि
 श्रिह करेमिससुनिरागारं ३ यादिरस्त्रिभरदधिहि सरीरादिसजोडण मणसावइकाण ससुतिविहेणयोसिरइ ५ रा
 गयधंपत्तसध हरिसदीणानाविय उस्तुगभ्रनयसोग रइमयधयोसिरे ५ रीसेणपञ्चुतिविहेण श्यकपणुश्चद्वेपमज्जाए
 जोमेकिचिचिजणेत्तं तिचिहतिविहेणा स्वमेमिससुजीये सहेजीयास्वमत्तमे श्यासवेशोसिरिहाण सहाहिपदिसधए
 ७ निदामिनिडाणिञ्ज गरिहामिश्चजधमेगरदणिञ्ज श्यालोएमिश्चसय जिणेहिअजधपदियुद्ध ८ उश्चहीसरीरागधे
 वश्याहारधधउच्चिह समत्तसहृदेहेसु परिजाणामिकेधलं ९ समसुपरिजाणामि निम्नमत्तेउवदितं श्यालयणधमेश्या
 या श्यधसेसधयोसिरे १० श्यायामेजनाने श्यायामेदसणेशरिहेय श्यायामेपञ्चस्काणे श्यायामेसजमेजोगे ११ मूलगु
 णउत्तरगुणे जमोनाराहिश्याय माएणसेसहेनिदामि पदिकुमेश्यागमिस्साण १२ इक्कोहनत्यमेकोइ नयाहमधिक
 स्सई श्यधशदीगमणसो श्यप्पाणुमणसासए १३ इक्कोउप्पञ्जएजीयो इक्कोचेथियज्जइ इक्कस्सहोइमरण इक्कोसिज्जइ
 नीरत्तं १४ इक्कोकरेइकम्म फलमयिसस्सेकत्तं समणुहवत्तइक्कोजायइमरत्त परलोकइक्कत्तंजाइ १५ इक्कोमेसासत्तंश्यप्पा
 नाणदसणलरकणी ससामेथाहिरानावा सहेसजोगलरकणा १६ सजोगमूलाजीवेण पञ्चादुस्कपरपरा तम्हासजो

गसयंध सप्तविहणयोसिरे १७ अंसंजमश्रुत्ताणं मिच्छत्तंसष्टुत्रिंशसमतं जीविसुश्रुजीविसु श्रुत्तंनिदेत्तंचगरिहा
मि १८ मिच्छत्तपरिजाणामि सप्तश्रुसजमश्रुलीयंच सष्टुत्तोइसमत वपासिसहृंघखामेमि १९ जेमेजाणंतिजिणा
श्रुयराहाजेमु२वाणे सुत्तंत्तहश्रुलोएमी उग्रठित्तसहृत्तावेणं २० उप्पन्नाणुप्पन्ना मायाश्रुणुमग्गत्तनिहं तह्याश्रुलो
एणनिदणगरिहणाहिं नपुणुत्तिश्रावीय २१ जहवालो जपतो कज्जमकज्जचउज्जुश्रुत्तणइत्तं तह्याश्रुलोइइज्जा माय
मयधिप्पमुक्कोउ २२ सोहीउजुश्रुत्तश्रुत्तसधम्मो सुश्रुत्तसचिच्छई निह्याणपरमजाइ चयसित्तिवृपावए २३ नज्जसिज्जड
समत्तो जहत्तणियंससासणे धुश्रायाणउत्तरिंश ससत्तोसिसई जीवोयुश्रुकिलेसो २४ सुप्पबुज्जंपिजावसत्तं श्रुलोएज
णगुहसग्गसमि निसत्तोसंधारगमु वित्तश्राहगाज्जति २५ श्रुत्तंपिजावसत्तं जनालोत्तंतिगुरुसग्गसंमि धत्तंपिश्रुसु
श्रुसमत्ता नज्जतेश्राहगाज्जति २६ नवित्तंसवंचविसंच दुप्पउत्तोयकुणड वेश्रुलो जतंचदुपउत्तं सपुत्तपमाइउबुत्तो
२७ जंकुणइत्तावसत्तं श्रुणुत्तिउत्तमत्तकालमि दुत्तन्नवोहिश्रुत्तं श्रुणंतससारिंशत्तंच २८ तोउत्तरत्तिगारवरहि श्रा
मूलपुण्णवलयाण मच्छादंसणसत्तं मायासत्तंनियाणच २९ कपपावोविमणूसो श्रुलोइयनिदिउं गुरुसगासेहोइ श्रु
इरेगलत्तउहरि श्रुत्तहत्तंत्तारवहो ३० त्तस्सपच्छित्तसंजम चेज्जगुरुवइस्संति त्तंत्तहश्रुणुसरियत्तं श्रुणवचपसंगीजी
एण ३१ सदीसधिप्पमुक्कंत्तम्हा सत्तंश्रुगूहमाणेणं जंकिंपिकयमज्जं त्तंजहवत्तकहेत्तं ३२ सत्तंपाणारंत्तं पच्चरक्कामि

शिश्चलियवचर्णच सप्तस्यदस्तादाण अर्धनपरिगाहवेय ३३ सप्तवधुसणपाणच चउच्चिहजोशुधाहिरो उवञ्जाही
 अग्निभरच उवाहिंसहतिविहेणयोसिरे ३४ कप्तारेदुम्निस्केश्याय केवामहयासुमुप्यने जपालियननगगप्त जाणसुपा
 लमासुच ३५ रागेणवदोसेणव परिणामेणयनुदुसिश्च जतूत्तखलुपञ्चकाण जायधिसुठमुजेयसु ३६ पीयघणपच्छी
 र सागरसुलिलात्त यक्ततरङ्गाञ्जा ससारमिश्चणसे माहणश्चन्तमन्नाण ३७ यक्तसोविमएरुण पुणोरतासु २जाईसु
 नपणादयंपिजनेसु यक्तश्चरसागरअलाउ ३८ नयिकिरसोपएसोलो एयालग्गकोफिमहो यिससारिससारहो जयन
 जाउगउयायि ३९ चुलसीहकिउलोए जोणीणपमुह सयसहस्साहइक्किक्कमिश्चइहो अणत्तखुहोसमुप्यन्तो ४० उहु
 महेतिरियमियमपाइ यक्तयाइयालमरणाह तोह्नाइसजरहोपफि अमरणमरीहामि ४१ मायामिप्तपियामै न्नाया
 गिणीश्चपुत्तघोयाय एश्चाइसजरहोपफि अमरणमरीहामि ४२ मायापीइयधूहि ससारयैहिपूरिउजोगो यक्तजो
 णिद्धिआएहि नपत्तेताणचसरण ४३ इक्कोकारइक्कम्मइक्को अणुइयइदुक्कयधियाग इक्कोससारइजि जरमरणचउगा
 इगुविल ४४ उच्चैवयणजम्मणमरण नरएसुवेयणाउए अशाइसजरहो पाळेपमरणगरिहामि ४५ उच्चैवयणजम्मण
 मरणतिरिएसुवेसुवे अणाउवापशाइ सजरहोपफियमरणमरीहामि ४६ उच्चैवयण० मणुएसुचे० णश्याय० पिफिय
 म० ४७ उच्चैव० यणजमण० चयणचदेवलोगात्तशाइ ४८ इक्कपफियमरण निदइजाइसयाइयक्कइत्त मरणमरि

राध यनपाठसिइ यशदुर वा अणम सगइ पाप ८

यत्तुंजेण मउसुम्भउहोड ४१ कइशोणुत्तंसुमरण पडिअमरणंजिणेहिं पसत्तंसुहोउअिअ सत्तोपाउपमउमरीहामि
५० नवससारेसत्ते चउत्तिहापुगलामएवत्ता परिणामपसगेण अठविहेकअसघाए ५१ ससाखक्कवलेसत्ते तेपुग्ग
लामएवत्तसो आहारिअायपरिणामि अयतपहिगउत्तिहि ५२ आहारनिमित्तेण अहयंसत्तेसुनरयलोएसु उवय
णोमिवत्तसो सत्तासुअमच्छडजाई ५३ आहारनिमित्तेण मच्छागच्छतिदाहणे नरएसत्तिहोआहारो नखत्तोएम
णसाविववेउ ५४ उत्तणकठेणवअग्गी लवणजलीवानइसहस्सहिं नडमोजोमेसक्का तिप्पेत्तकामजोगेहि ५५
तणकठे० लवणज० नडमो० तिप्पेत्तअवसारेणं ५६ त्ण०नवण० डमो० तिप्पेत्तगंधमत्तेहिं ५७ त्ण० लवण०
नरमा० तिप्पेत्तओअणविहीए ५८ वलयासुहसामाणा दप्परोवणरत्तअपरिमिच्छो उडमो० तिथेत्तगंधमत्तेहिं ५९
अविअत्तोअंजीवो अडअकालंआगमिस्साए सद्दाणयरूवाणय गंधाणरसाणफासाणं ६० कप्पत्तहसंजवेसू
दंभूउत्ताक्रुवसापमुए सुउअवाएणयत्तित्तीन पनरविज्जाहरसुरेसु ६१ खडएणवपीएणव नयएसोत्तोइउहवई
अप्पाजडुग्गइनत्तं त्तोत्तूणताडउहोड ६२ देविदत्तक्कवत्तिन्न णाइंउत्तमात्तोग्गपत्ता अणत्तखुत्तीनपहति
तिउत्तिहि ६३ खीरदगिथुरसंसु साऊसुमहांदहिसुवत्तसो विउववणोनयत्तरहो विन्नत्तैसीयलवणेण ६४
तिविहेणयसुहमउल त्तरहाकांमरइविसपसु स्काणवत्तसोसूहमणुत्तुअं त्तयसुहत्तएहापरिविन्नाएहा ६५ जोकाइप

णरहितं शृणादसोताहेइदियधरा करंतितवसजमविठोय १८ जिणवयणमणुगपमई जवेठहीइसवरपविठो शृग्गी
 वधाउसहितं समूलकालकडडकम्मं १९ जहदकडवाउसहितं शृग्गाइरकेविइरि शृवणसकेतहपुरिसकारसहेउ नाण
 कम्मखयनेइ १०० जशृन्ताणीकमखवेइ यकशृाहशामकीरुहि सनाणातिहगुप्तो खवेठजसासमित्तेण १ नकमरण
 मिउवगी सक्कायारसविठोसुअखघो सहीशृणिचित्तेउ घतपिसमयचित्तेण २ इक्कमिचिजमिपएसवेग क्रुणइयीय
 एगमए ततस्सहिइनाण जेगविरागपणमुवेड ३ इक्कमिचिज० सवगपमोत्तेण माइआउविदड शृज्जप्यउरगेण ४
 इक्कमि० सवेग० यशृाडनरोशृत्तिस्कत मरणतेणमरियसु ५ जेगविरागोजायाड त्तप्तसशृाईरेणकायसु मुसुइइइसवे
 गी शृणतहीइशृसवगी ६ घम्मजिणपन्तत्त सम्ममिणसइहामित्तिविहेण त्तसयावरमूशृहिय पयनिशृाणनारस्स
 ७ समणोमित्तिउपठम धीयसइयसजउमि त्तिससुचयोसिरामि शृजिणेहिजजषपक्रियुउ ८ उयहीसरीरगधव शृाहा
 रवचउत्तिइ मणसाययणकाएण धोसिरामित्तिजावउ ९ मुणसोशृचित्तिणिज्ज सइजासाडशृजासणिज्जव काएणशृ
 करणिज्जसइत्तिविहेणयोसिर १० शृस्सजमवरमण यशृहियवेगकरणडयममोअ पक्रियजोगविरउ खहीमुत्ती
 यिवगीशृ ११ एशृपइरकाण शृाउरजणशृावइसुजावण शृणयरपक्रियन्तो अपतोपापइसमाहि १२ एत्तसिनिमि
 त्तमी पइरकाकणजइकरे कालतोपइरकाइशृसु इमेणइक्कोणविपएण १३ मममगलमरिहता सिशृावाकसुशृवध

एव वनपत्तिविह बरादुर का आनस सपइ भाग ८ ।

मीणु तैमिराणोत्रगउ सायज्जवोमिरामिति १४ अरहतामगलमज्जअरिहत्ताममदेवयां ठेयकित्ताइत्तावोसिरा
 मित्रिपात्रग १५ मिहायमंगलमस सिहायममदेवया सिष्ठेअकित्तइत्ताण वोसिरामितिपात्रगं १६ अयारिएकि
 प्रियामगलमस अयारिएत्तामसदेवया अयारिएकित्तइत्ताणवोसिरा० १७ उवसायामगलमस उवसायामसदेवया
 उवसाएकितिइत्ताणवोसि० १८ साह्मअमगलमस साह्मअमज्जदेवया साह्मअकित्तिइत्ताणं वोसि० १९ ससुउव
 सपत्तो अरहतकेवलेत्तिनावेण इत्तोएगपरेणविघएण अाराहउहोइ २० ममुडन्तवेअणापुणसम णोहियएणकिपि
 चिज्जा अालवणाइंकाडं काऊणमुणोदुहंसुहड २१ वेअणासुउइन्तासुकिमेसात्तनिवेअए किचअालंअणकिच्चा त्तं
 दुक्कपहिअसए २२ अणुत्तरेसुनपएसु वेअणुत्तरा पमायवहमाणेण मएपत्ताअणत्तसो २३ मएकयंइमकम्म सम्म
 मज्जअवेहिअ पौराणगडमकम्म मएपत्तंअणत्तसो २४ तहिंदुक्कविवागाहि उवविणाहिंनवजीवो अजीवोउकथ
 पुत्रोअचितउ २५ अणुज्जअविहार इवजणदेसिअविउपसवं नाउमहापुरिससेवि अणुज्जअमरणं २६ जहप
 लममिकाले पळिमतिवयरदेसियमुअारं पळानिअयपव उवेमिअणुज्जअमरणं २७ वत्तीसमंफियाहिं कळजोगी
 जोगसगहवलेणं कुज्जमिऊणयवारस विहोणत्तिठिहेणपाणेणं २८ संथाररंगमज्जेधिड बलववसायवसुक्कळाउ हंतु
 गमीहमत्तं हराहिअाराहणपठाग २९ पौराणगंचकम्मं खवेइअन्नंनविणाइ कामकलकलिवत्ति विंदइसंवारमारु

ढी ३० श्याराहणोवउन्नोसनागा ऊणसुयिहिउकाल उक्तीसतिन्निजवेगतू णलनिज्जानिष्ठाण ३१ धीरपुरिसपन्नस
सुप्युरिसनिसेविष्णुपमघोर उड्ढोक्तीसिरगदरसुपफायशुविग्घेण ३२ धीरपफागाहरण करेहजसमिदेसकालमि मु
ठमणुगुणतो धिडनिवृलयकयाउ ३३ चत्वारिकसायतिविखे पंचिदिशुहसापरिसठ थसूहराहिश्याराहणपफाग
३४ मायाऊयधितिजा जीवामिधिविर मरामिथलऊति जहृहृत्तसितारउ जससारमहीअहिमयार ३५ जहृहृत्त
सिनिठरिउ सहेसिचेपात्रकम्माण जिणनाणदसणथरिभ जायउऊउजण ३६ दसणनाणचरिस्ता तवेष्णश्याराहणा
चउखधा सावेवहीडतियिडाउ क्तीसानज्जिमजहन्ता ३७ श्याराहेऊणविऊउक्ती साराहणाचउखधा कम्मरयविष्णु
मुक्ती तेणेघनवेणसिज्जिजा ३८ श्याराहे० जहन्तमाराहणच उखधासत्तठजत्रगाहणे परीणामेऊणमिज्जिजा ३९
सहमेसहृनु०सु वेरमसनकेणड स्वामेमिसहृजीव स्वामिमिश्रहंसहृजीवाण ४० धारेणविमरियसु काउसेणविष्णुधस्स
मरियसु दुराहपियमरणाण थरखुधीरहणोमरिहं ४१ एशुपञ्चरकाण श्यणुपालेऊणसुयिहिउसम्म वेमाणिशुदेवो
हविजाएहथाविसिज्जिजा ४२ ॥ इतिमहापञ्चरकाणसमाप्त ॥ राय धनपतिसिहयहादुरस्य जैनागम सम्रहे सम
प्तमो जाग समाप्त ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

॥४७॥ तंदुलवेपालियायडन्नयं जोविचिंतडमहप्पाइ हपरलोएसोन्नोयससुधरका रणलहइसिवसुरस्कं १ श्रीजठ
 न्नत्रुसघस्य जगमयवयाणं विसयपवरनाणदंसणघराण नाणुज्जेयगराणुलोगमि नमोजिणवएणं २ डणमोसुणह
 महत्र निस्संदमुरकमगा सुत्तस्सविगहनियत्तिपचित्ता सोज्जाणयमापमाइत्ता ३ विणपञ्चायरियगुणे सीसगुणेविय
 निगाहगुणेय नोसुणमुणेचरणगुणे मरणगुणेडब्बवुत्तामि ४ जोपरिजवडमणुस्सो ष्यायरियकुळसिस्काएवि ज्ञातस्स
 गहियावि विज्जांडुस्केणविनिस्सालाहोइ ५ वधोविणपविहणो नलहइकित्तंजसलोगमं जोपरिजवककरेइ गुणग
 ष्याइकम्माण ६ सल्लवलत्तिज्जनरोविस्सं न्सल्लयचकित्तंवाजोगुणजणोवइत्तं विह्वंविणएणगिरिहज्जा ७ ष्यवणी
 यस्सपणस्सड जडविमज्जस्सड नजुब्बडगुणेहि विह्वसुसिरिकायाविज्जागुणपरिजववुद्धिदीसेणं ८ विह्वामणुसरिय
 वृत्तज्जाविणीयस्सहोइदायव्वा परिजवडज्जाविणीउत्तं विह्वंत्तचञ्चायरियं ९ विह्वपरिजवमाणोञ्चायरियायाणंगुणेप
 णासित्थोरिमाघायगाणलोयं वड्ढमिळत्तसत्तो १० विह्वविहोइवालियागहियापुरिसेणजाग धिज्जेणसुकुलक्रुवा
 लियविवञ्चासरिपुरेसंपत्त ११ रिरकाहिताविवणयं किंतेविज्जाडज्जाविणीयस्स ज्जस्सिखिउंविणउंसुलजा विह्ववि
 णीयस्स १२ विह्वसिरकह विह्वगुणेहगहिभंचमापमाएह गुहियगुणियाज्जाविह्व परलोयसुहाहोइ १३ वेणपासि
 सिरिकयाण विह्वानंपरिसमत्तसुत्ताणं सक्काफलमणुत्तुत्तं गुणजणत्तुद्वेवइत्ताणं १४ सुत्तज्जाञ्चायरिया विह्वणदाय

गासमहाडं फलमणधवगयच उक्त्वाचक्रुहसिंकरगासीसा १५ पञ्चदशस्सगिहिस्सय विणयवेवक्रुवालापससति
नङ्कपावड् श्यायिणीउंकिंसिचजसचलीगंमि १६ जाणताविणयविणयकेडकम्माणु जावदीसेणनिळतिपउजिहाश्रुति
यारागचोसहि १७ श्यन्नतस्सविपयरड्कित्तचजसलीगमि पुरिसस्सनहिलियारा विणीयस्सन्नत्तस्स १८ विद्यप
रिन्नवमाणो श्यायरियाण गुणेपणायमोरिसिघायगाणलोयधच्चइमित्तत्तसजुष्टो १९ नङ्कसुलहाश्रयरउ विद्याण
दयागासमहाणउक्त्वाच अपरिप्तत्तानङ्कसुलहासिरकगासीया २० विणयस्सगुणत्रिसेसा एवमएवन्नियातमासेण श्य
यरियाणचगुणे एवमणामेनिसामेह २१ युत्तश्ययरियगुणे श्यणेगगुणसयसहस्सधारिण यवहारदेसगाणसुयरयणसु
सठवाहाण २२ पुठवीवस्ससुह मेरुवृक्षकपिरयियधम्मो चदत्तसोमसप्तश्यायरियपससति २३ श्यप्परिसाविश्या
लोयणारिह उकारणविहिन्नुगभीरुत्तस्स रिसस श्यायरियपससि २४ लोडयवेड्यनीमाडएसुसयेसुजस्सयरकेयोससम
यपरसमयत्रिक तस्यायरियपससति २५ लीडयवेड्यनीमाडएसुसयेसुजस्सयरकेयो ससमयत्तरसमय त्रिक तस्या
यरिय पससति २६ धारसहिविश्रगेहि सामाड्यमाडपुत्तनिष्ठत्तत्तत्त गहियत्तस्यायरियपससति २७ श्यायरि
पसहस्साड्ढपजीवीजवेहिधक्काएहिकम्मसुयमिप्पेसुत्तिकायश्रुत्तेसुपधम्मचरणेसु २८ जेपुणजिणीवड्ढे निगा
य पवयणमिश्यायरियाससारमुरकमग्गस्सदेसगात्तत्तश्यायरिया २९ जहदीवासय पयप्पएसोउंविप्पएदीयसमाश्या

यदियाश्चप्यत्रपरचदीवंति ३० धन्नाश्यायरियाण निञ्चंशाडञ्चदन्वयाणं संमारमहन्त्रवत्तारयाण ॥ पाएणणिवयं
ति ३१ डहलोइयंचकिहिलहडयरियन्निराएणदेवलोए विनगांगपत्रयणंअसरत्ता ॥ अठरणमङ्गया अपरिएव
दयाडति ३२ वधयमठसमङ्गुवालसेहिं मासठ्मासखमणहि ॥ अकरिनागुङ्गवयणंअतेऊतिअतसंसासी ३३ एए
अन्तेअत्रऊअयरियाणं गुणाअपरिमेऊामीसाणगुणविमेने कयिममासेणबुठामि ३४ नीय विहिविणीयं ममुत्त
मंगुणावियाणयंसुयण अयरियमडवियाणि सीसकुमीलापससंति ३५ सीयमहउरहसहवायसहं कुहपिवासाअरेइ
सह पुठवीविससहमहसीस कुसलापससति ३६ लानेसुअलानेसुय अत्रचन्नेजस्महोडसुहचन्तो अप्पितंमत्रुठं सी
संकुगुलापससति ३७ वड्विहावेगयविहिल् अमविनुमोऊबुञ्जइविणत्तं इहिगारवरहियं सीसकुमलापससति ३८
श्यायरियवन्नवयगणि सेविकिनिवठणधीर धीअणियवधकठ सीसकुगुलापाससति ३९ हंतणमङ्गमाण सीमोही
ऊगजाविसिरलहि सीसस्मऊति सीसाअनीनस्म ४० वयणाडनकङ्गयाड पणडनिमिठाड विसहिणञ्जाडं सीनेणा
यरीयाण निस्सेमणमाणेण ४१ जडकुसलरूवजोअण वलविरियममनसज्जत्त मिउमठवायमपिसुण मनठमथठ
अलोत्तं २४ पडिपुन्नपाणिपाय अणुलोमनिदुत्तंअचियमगीर गतीरत्रुगनाम उदोमडिठिथिनालत्तं ४३ जिण
जिणसासणमणुरत्तं गुरुजणसुहपित्तगचओरच महागुणपडिपुत्त विकारविगयविणयमूल ४४ कालन्तूदेमन्तू नम

यन्तुसीलखवत्रिणयन्तु लोहजपमोहरहिय जियनिदपरिसहचेव १५ जइविसुयनाणकुसलोहीठ नरोहीउकारणवि
 हिन्तु श्रियणीय नतसुयहरापससति १६ सीसमुयमणुरस निच्चंविणतंयपारसजुत्त वापजायगुणयुत्त पययणसो
 हाकारधार १७ इत्तोजापरिहारोणो गुणाहिगुणसयनउवचेएहि मुत्तपिनधइजा किपुणसीसगुणविहाण ४७ एसा
 सोसपरिस्का कहियानिउणवसयउवइहा सोसोपरिरिकयत्तो पारसमग्गामाणेण १९ सीसाणगुणकित्ती एसामे
 वन्तियासमातण विपस्सनिग्गहगुणतु होयमायानिसामेह ५० विणतमुस्कहारविणय मात्तकयाविचक्राजाष्ट्य प्य
 सुहोविक्कपुरिसो विणएणखवेइकम्माइ ५१ जोश्रियणीयविणण जिनइसीलेणजिनइ निस्सीलसोजिनइतिन्ति
 लोण पायमपाविणसोजिनइ ५२ जइविसुडनाणकुसलोहीठ नरंहिउकारणविहिन्तु श्रियणीयगारविय नतसुपह
 रापससति ३म सुयस्सुयपिपुरिसकुशला श्रियणीयमिवायहि गुणहीणविणयहीण चरिणजोगेहिपासय ५४ इव
 नियमसीलकलिय उज्जुत्तनाणदञ्जणचरिणे श्रियणीयपिक्कगुरिस यत्तसुयपयमिगयति ५५ सम्मतमियनाणश्याय
 स दसणचरित्तियि खतियालउयत्तवो नियमयिसासोयविणयान ५६ सत्तयत्तयविसेसा नियमयिथोसोय नयिक्क
 विणउजसि मुक्कफलनिरत्तयत्तेसि ५७ पुत्तपट्टुविठजिणवरहि विणतंश्रियणत्तनाणीहि सत्तायुकम्मन्तुमीसु निच्चंवि
 यमुक्कमगोमि ५८ जोविणतंत्तनाणजनाण सोक्कयुत्तइविणतं विणएणलहइनाणे नाणेणविआणइविणप ५९ सत्ते

एव एवपत्तिं च इदं वा प्रायसं सयं मां ८ ।

चरित्तसरोविणायंमि पडठिउसुणुस्साण नज्जविणयविप्पनीणं निग्गंथरिसीपसंसंति ६० सुवज्जसुत्तविजीखलुच्चवि
 णीत्तमदसठसवेगो नरहिइचरित्तज्जोत्तमडजीवो ६१ थेवेणविसंत्तुठो सुवेणजोविणयकरणसजुत्तो पंचमहव्वयजु
 त्तो गुत्तोष्णाराहत्तहोइ ६२ वज्जयंपिसुयमहीयं किकार्हिंविणयविप्पहोणस्स इंधस्सजहपलित्ता दीवसयसहस्सको
 णीवि ६३ विणयस्सगुणविसेसा एवमाएवंनियासमासेण नाणस्सगुणविसेसा उहियकनानिसमिह ६४ नज्जसक्का
 नात्तजे नाणजेणदेसियंमहाविसयं सेधन्नाजेपुरिसा नाणोयचरित्तमत्ताया ६५ सेधन्नाजेपुरिसुयनाणात्त उह्वचच्च
 हेयत्तिरियलीयंच ससुरासुरंसमणुय समल्लज्जुपगंसगंधत्तं ६६ जाणत्तिवंधमुक्कं जीवार्जविपपुत्तपावंच च्छासत्त
 सयरनिज्जा तोकिरनाचरणहेत्तं ६७ नापाणंदोनाणं विवडिणासेवणागुणाणंच धम्मस्ससासाहणाइं दुत्तविकिर
 नात्ताइं ६८ नाणाविषयवत्तंत्ता गुणेदीसेयत्तेयवज्जित्ती दासाणंचनमुत्तइं सेसिनवत्तेगुणालहड ६९ नाणेणविणा
 करणाकरणं करणेणविणानत्तारयनाणं जवससारत्तमुत्तं नाणीकरणत्तिउत्तरइ ७० इत्तंसजमेणवत्त इत्तानाणेणयत्तदे
 हिवज्जएहि कम्ममलंसुहमसुत्तं करणेदढोधुणएनाणी ७१ सवेणविणाजीहो जीहोणविणायजरिसंसव्वं नाणेणविण
 करणं करणेणविनात्तहानाणं ७२ नादंसणस्सनाणं नाविनाणस्सज्जतिकरणगुणा इत्तगुणस्सनविमुक्कस्सो नविच्च
 मुक्कस्सनिह्वाण ८३ जनानंतकरणं जकरणंपवयणस्ससोसारो जोपवयणस्ससारो सोपरमवत्तिनायत्तो ७४ प

मयगहियसारायधं मुक्कषसेधिजाणस्ता वाऊणधंघुमुक्क खवतिपोराणयकम्म ७५ नाणेणहीहकरण करणनापेण
 फासियहोइ टण्हपिसमायोगे होइविमोहीचरिहस्स ७६ नाणपगासयंसोहउत्त वोसजमोयगुत्तिकरो हिरहपिसमा
 योगे मुक्कोजिणसासणोज्जणित्त ७७ किंहोउत्तपरशुत्तो रतरथमुदरत्तरवाच दमिहससत्तोग्ग वज्जसुपसुहपलोयति
 ७८ चदानुनियहजुरहा वज्जसुयमुद्दात्तनियहजिणययण जसोऊणमणुस्सा तरतिसत्तारकत्तार ७९ सुहजहासमुत्ता
 ननसहरकयकरमिपक्रियाधि जीवो जहाससुत्तो ननस्सइगत्तविसत्तार ८० सुहजहास्यसुत्ता नासइसुत्तेशुदिस्समा
 ण मजीवोहसुत्तो नासइमित्ताशुसजुत्तो ८१ परमत्तमिसुदिठे शुत्तिणठेसुत्तवसजमणू सल्लगर्हविसिद्धास
 रसारेविणठेवि ८२ जहश्यागमेणविज्जा जाणहवाहि त्तिगित्तिउत्तिणो त्तहश्यागमेणनाणी जाणहसोहिचरित्त
 स्स ८३ जहश्यागमेणहीणो विहोवाहियस्सनमुणहत्तिगित्त सुहश्यागमपरिहीणो चरित्तसोहनजाणेइ ८४ सुम्हा
 त्तिथपरपक्कवियमि नाणमिशुत्तसत्तमि उज्जोत्तकायहो नरणमुक्कात्तिकामेण ८५ वारस्सविहमित्तये सस्सिहत्तरवा
 हीरेजिणस्काण नविशुत्तनविपहोही ससायसमत्तवोकम्म ८६ मेहाज्जानज्जवज्ज मेद्दात्तसमेणकमाइ उज्जोउका
 यहोनाणशुत्तिस्सकमणेण ८७ कम्ममसस्सिज्जानवस्साथइ शुणुसमयमेवश्याउत्तो वज्जयत्तवसविय पक्कससाणस्सणेस्स
 वइ ८८ सत्तिरियसुएसुरनरो सकिनरमहोरगा सुगधह्वासहोयउम्मज्जणो पत्तिपुत्तइकेवललोए ८९ इत्तमिधिजा

राय वलपतिविह वरदुर वा वायम सरइ प्राण ८

म्मेपसंवेगं वज्रं नरोत्तमिस्क्रंतं तस्योडनाग जेणविरागं त्त्रणमुजाड १० इच्छामिविस्मिपए सवेगं वीयएयमग्गंमि व
 च्चनरोत्तमिस्क्रंतं मरणंतणमत्तव ११ इच्छामिविजंमिए सवेगकुणइवीयएयपएसो तेणमोहजालखवेइ अण्णप्य
 एणजोगेणं १२ नज्जमरणंमिउवग्गो सङ्गावारसविहायस्क्रधो सङ्गावणुचिंतउ जणियमिसमबच्चिणेण १३ तम्हाड
 क्कपिययं चित्तनीत्तमिदेसकालमि श्याराडणाववत्तो १४ सम्मकाऊणसुविहिउ कालोउक्कोसतिन्निन्नवे गत्रूणंलह
 डनिह्वाण १५ नाणस्सगुणविसेसानं हियहियानिसामेहं १६ हेधन्नाजेधम्मचरियं जिणदेसियपयत्तेणं मिहीपा
 सवंधात्तं सुसुमुक्कासव्वजावेण ०७ जावेणंअणन्नमणा जेजिणवपणंनराअणुचरत्ति तेमरमंठिउवग्गे नविसीयगुण
 सामिहा १८ सीयत्तेत्तेमणुस्सा सामन्तंदुल्लज्जपिल्लूणं नहअण्णाननिउयत्तो दुस्समिमुस्सकंमिमग्ग १९ दुस्साणत्तेम
 णुस्सा पारगत्तत्तिजियठढधीया जावेणअन्तमणा पारत्तहियंगवेसति १०० मग्गंतिपरमसुह तेपरिजाखवंतितु
 ज्जुत्ता कोहमाणमायं लेज्जअरइंदुगुल्लञ्च १ लहूणंवमाणुस्संदुल्लहं जेपुणोविरहित्ति तेजिन्तपायसत्तिया वपत्तादु
 क्कत्ति २ लहूणविसामन्तं पुरिसाजोगेहिजेनहायत्ति तेलहूपायसजत्तिय वपत्तादुहीज्जत्ति ३ लहूणविसामन्तं पुरि
 साजोगेहिजेनहायत्ति तेलहूपायसजत्ति यावपवानसोयत्ति ४ नज्जसुलहमाणुस्स लहूणविहोडदुल्लहावोही वोही
 पुरिसाजोगेहिजेनहायत्ति ५ तेलहूपोयसजत्ति यावपवानसोयत्तिय अग्गमिपुचरित्तसो हीहवही

दृष्ट्वा ६ श्रुतिपुणकेर्दपुरिसासमस्त नियमसोयससस्ति केर्द्वारीससोहि नाणवतहापससत्ति ७ समस्तचरिष्ठाण
 दुरहपिसमागणसप्तण कितयगिरिहयस्य पुरिसेणवृद्धिमसेण ८ समस्तचरिष्ठास ह्यस्यजहाकरहसेणियाण श्रु
 जेपुणचरिष्ठासप्तण त्सेसिमियमेणसप्त ९ जठेणचरिष्ठासप्त सुद्युयरहसणगहेयस्य सिद्धतिचरणरहिया दसणारहियान
 सिद्धति १० उक्त्वोसचरिष्ठासप्त पठेद्वमिद्यत्तजावत्तकोवि किपुणसम्मदिठि सएगधम्मामियहसो ११ श्रुतिरहिया
 जस्समह पथाहिसमिह हिर्त्तहीगुप्तीहियकुणहरागदोस सस्सचरिष्ठासप्त १२ सन्हासेसुपयस्यहक उक्त्वेसुयउक्त
 मपयसेण सम्मत्तमियमापमाएह १३ चरणस्सगुणविसेसा एयमह्निययासमासेण मरणस्सगुणविसेसा उहियहिप
 यानिसामेह १४ जहस्यनियमियत्राए श्रुणाणमाणेजरोसमारुढो इत्तेइयराणीयस्यइरकत्तुजो श्रुकपजोगो १५ सो
 पुरिसोस्ररत्तुपुणश्रुनियमियत्राए श्रुणाणमाणेजरोसमारुढो इत्तेइपराणीय १६ श्रुत्तुजोश्रुकपजोगो करणजे
 गिण वहुणपराणीयंजत्त दोवसग्गमे १७ एवसकारियजोगो पुरिसोमएणउवत्तिएसत्तेन जयइपरीसहसहोश्रुगे सु
 परीसहनिवाए १८ पुण्णकरियजोगो समाहिकामोयमरणकालमि उवइयपरीसहसहोवि सपसुह्नियारिउश्रुप्या
 १९ पुण्णकरियपरिकम्मो पुरिसोमरणेउवत्तिएसत्ते यिदइपरिसहसहोवि यपरीसुप्यहारेण ५० वाहिदिइदियाह पु
 ष्मत्तारिपपरत्तारिस श्रुकयपरिकम्मकाशो मुसहस्याराहणकालो २१ श्रागमस्युसससिइ विद्यवसलोडुयपरह

राय वनपविस्ति बरापुर का धामस सग्र भाग ५।

॥४॥ तिज्जयणसरीर वेदं सधवयणरयणमंगलंनमिउं समणस्सउत्तमठे मरणविहीसंगहंयुत्तं १ सुणहसुयसारनिसं
 हससमयपरसमयनिम्मायं सीसोसमणगुणं परेपुत्तइवायगकिचि २ अज्जिजाइसत्तवि कमसुयसीलविमुत्तिखंतिगु
 णकलियं अयाारविणधमह्वि विज्जाचरणगरमुदारं ३ किच्चीगुणगयहरंजस खाणितवनिहिंसुयमसिद्धं सीलगुण
 नाणदंसण चरित्तयणागरंधीरं ४ तिविहंतिकरणसुद्धं मयरहियंदुविहठाणपुणरत्त विणएणकम्मविसुद्धं चउसिरं
 वारसावत्त ५ दुगुणयअहाजायंएय काऊणत्तस्सकिइकम्मं जत्तीडजरियहियत्तं हरिसवसुप्पिन्तारोवंचो ६ उवएसा
 हेउकुसलं तपवयणरयसिरिघणंजणड इत्तामिजाणिउजो मरणसमाहिंसमासेणं ७ अप्पुज्जयविहारइत्थ जिनदेसिय
 त्रिउपसत्थ नाउमहापुरिसदेसियंअप्पुज्जयमरणं ८ तुत्तिठसामिसुअजलहिया रगासमससधनिप्पवया तुत्थंखुपा
 यमूलेसा मत्तंउत्तामिस्सामि ९ सोजरियमक्करजलहरग जीरसरनिसत्तत्तंजणड सुणहाणिधम्मवत्तल मरणमाहिस
 मासेण १० सुणजहयत्तिमकाले यत्थिमत्तित्ययरदोसियमुयाणं पत्थानित्थियपत्तउचिंति अप्पुत्तयमरणं ११ पत्तजो
 ईसत्तंकाऊणा लोऊणवसुविसुद्धं दंसणनाणचरित्ते निसत्तोविहिरच्चिरकालं १२ अयाउत्तयेयसमत्तीति मित्तपजहवि
 सारत्तं विसोरोअयाकागहि उसानिरुयंअयाउरंकुणइ १३ एवंएवयणसुय सारपारगोसोचरित्तसुठीए पायत्तत्तवि
 हिनूत्तं अणगारविसोहेइ १४ जणइयत्तिविहाज्जणिया सुविहियअाराहणाजिनदेहि संमत्तमियएत्त मानाणचरित्ते

हिदीश्रणा १५ सहस्रगायत्रियगरीय गाजस्सवीरत्रयणस्स समत्तश्चणुसरसा दसणश्चाराहणाकृति १६ ससारस
 मीषन्ते यत्थिश्चिहेमुहेमस्सिपचेय एण्डुयिहेजीवे श्रोणाएसहहेनिच्च १७ धम्माधम्मागासञ्च पुग्गलेजीवमत्थिकायच
 श्रानाडसहकहता मम्मसाराहगाजणिया १८ श्ररहसिठचेईय गुरुमुयधम्मसाज्जवग्गंय श्रायरियउवसाए एष्ठा
 याणसच्चसघयं १९ एणसुचन्तितुम्हा पूयताश्ररहश्चणसामाणा समत्तश्चणुसरिप्तो परिप्तससारियाकृति २० सुवि
 हिपडुमयडन्त श्रसहसंसेहिश्चणेगजीवाहि थालमरणाणितोए मायाइकालेश्चणताइ २१ एगपक्रियमरण मरिऊण
 पुष्पोयच्छणिमरणाणि नमरतिश्चप्पमन्ना चरिप्तश्चाराहियाजेहि २२ दुयिहमिश्रहस्काएसु सघकापुष्पसगमुक्का जेउ
 वयतिसरीर पक्रियमरणमयसेहि २३ एयपक्रियमरण जधीराउवगयाउठाएण तस्सउवाएसुडमा परिकम्मविहीउ
 जंजीया २४ जेकंससखनाऊणमाऊ श्रजिश्चगगणयक्यतऊण सरिकप्पासुयकप्पिय श्राहारविहारचिटागा २५
 निच्चतिदक्रियरया तिगुत्तातिसह्वनिसह्वा तिणिहे गश्चप्यवत्ता जगजीवदयावरसमाणा २६ पचमहस्यसत्यय सपु
 णचरित्तसोलसत्तात्ता जहत्तहमयामहेकीह वत्तिश्रः उदमासमणा २७ इक्कश्चप्पाणजाणिऊण काऊणश्चत्तहिययच
 तोनाणदंसणचरिप्त तवमुठीमुणाकृति २८ परिणाभजीगसुठा दोसुयदोदोनिरामयपत्तो इहलोएयरलोए जीविय
 मरणासएषेव २९ ससारठमाणणिय रागद्वासनियलाणत्तितुण सम्मदसणसुनिसिय तिस्सुचिइमऊलग्गेण ३० दु

राव धर्पणिसहस्र एर का पापम सयइ प्राप १०

ससहमरणं मरिऊणमहस्रयमिसंसारं पुणरविज्जमंतिजीवा जावाजमणमरणाइं वज्जयाइं ५३ पंचसमित्तत्तिगुत्तो सु
चिरकामुविहरिऊण मरणं विराहयत्तो धम्ममणाराहनं जणित्तं ५४ वज्जमोहोविहरीत्ता पत्तिमकालं सिसंबुत्तो सोल
णाराहणं वउत्तो जिणं हिण्णाराहनं जणित्तं ५५ जोयवुत्ता वसुत्तो णाराहणमत्तिमुहो विसं जंतो संथारं पत्तिवत्तो इ
णमोहियणं विचिंतिज्जा ५६ इक्कोमेसासत्तं ण्या नाणदेसणसजुत्तं सेसामेवाहिरात्तावा सत्ते संजोगलस्कणा ५७
इक्कोहंनविमेकोविड नत्तिवाकस्सईं ण्यह नत्तपिस्सकामिजस्साहं नसत्तावोयजोनहं ५८ देवत्तमाणसत्तत्तिरिस्सा जी
णीतहेवयनर पचपत्तो णत्तखुत्ती पुत्तं ण्यत्ताणंदोसेणं ५९ नयसंपत्तो सण्हि कम्मोहि दुक्कमूलेहिं नयलत्तापरिसु
त्ता बुत्ती संमत्तसजुत्तात्ता ३० सुचिरपित्तेमणुस्सा ज्जमत्तिसंसारसायरेज्जगो जेज्जकरंति पसायं दुक्कविमुक्कं मिधम्मं
मि ६१ दुक्काणत्तेमणुसा पारगत्तत्तिजेयदिढधिईया पुत्तं पुरिसाणत्तिन्तं जिणवयणपहनसुत्तं ६२ मग्गमित्तिप
रमसुक्कं तं पुरिसाजेखत्तं पिउत्तं ज्जा कोहमाणं मायं लोत्ततहरागदीसत्तं ६३ नविमायानविद्यपिया नवधवानविप
यइमित्ताइ पुरिसस्समरणकालेन ज्जत्तिणालं वलं वणकिं चि ६४ नहरिन्तवादात्तो दासजाणग्गंवा पुरिसस्समरण
काले नत्तत्तिणालं वलं वणकिं चि ६५ एवणाराहताजिणो वइत्तसमाहिमरणत्तु उत्तरियत्तावसत्तो सुत्ताइजीवो धुय
किलेत्तो ६६ जाणंतेण विज्जइणा वयारिइयारस्ससोहणो वायपरसरिकया विसोही कायत्तात्तावसत्तस्स ६७ जहसु

कुलोवित्रिज्जोष्वस्सकहेह् श्यप्पणोधाहीसीसेकरहत्तिगिठ सात्तवित्तहागुदुसकासे ६८ इयसमुप्पइमुणिणा पञ्ज्जा
 मरणकालसमयमि जोउणमुत्तइमरणे सात्तश्याराहत्त ६९ विणयश्यापरियगुणे सीसगुणेविणयनिग्गहगुणेय नाण
 गुणेश्वरणगुणे मरणगुणविहिंससीऊण ७० सहघत्तहकाउजे जहमुयहगस्यथासवसहीण मरणपुनप्पवजम्भण दुगाड
 विणिवायगवणेण ७१ ॥ इत्तिगणविद्या पयन्तोसमाप्ताम् ॥ १ ॥ राय धनपत्तिसिहयहादुरस्य जैनागम सग्रहे ग
 गिविदनामक नवमो जाग समाप्ता ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥



राय धनपत्तिसिहयहादुर का प्रागम सग्रह मास ८ ।

स्स जडविमरणेसमाहि हविह्वनविज्जज्जयज्जयाणं २२ अस्समत्तसुत्तविसुणी पुत्तंसुकयपरिकम्भपरिहवो संजमम
 रणपडन्त सुहमाह्वित्तसमाणेइ २३ इहियसुहसाउलत्तं घोरपरीसहपरह्वसत्तित्तो अकयपरिकम्भकीवो मुत्तडत्ता
 राहणाकाले २४ नचएडकिविकाउ पुत्तंसकयपरिकम्भवालियस्स खोहंपरिसहमू धिइवलविणिवारियामरणे २५
 पुत्तकारियजोगो अत्तियणोइहिज्जणमइकुसली सत्तवत्तात्तपत्तित्तो सकज्जजोगंसमाणेइ २६ उप्पोलियासएसण
 गहियाउहचावनि वपमईउविधडचंद गाविसंनविधेइ २७ त्थम्हाचदगाविसंसं ऊरणत्तप्पमाइएगनिच्चं अविहह
 यगुणो अत्तप्पाकायह्वोमुखमग्गंमि २८ समत्तलत्तवुत्तिस्स चरमत्तययमित्तमाणस्स अत्तोइयनिदिय गरहियस्सम
 रणंहवइसुत्तं २९ जेमेजाणंत्तिजिणा अत्तएहानाणदंसणचरित्ते तेसत्तेत्तोए उवत्तित्तसत्तत्तावेण ३० जोत्तुत्तिजी
 वसहिया संजत्तसंसारवधणा पावारोगंदीसत्तत्ताहा सोमरणेहोइकयजोगो ३१ जोत्तिव्विजीवसहिया दंत्तामणव
 सहिया संजत्तसत्तावंधणापावा रोगंदीसत्तत्ताहा सोमरणेहोइकयजोगो ३२ जोत्तत्तारिकसाए घोरिससरीरसत्तवे निच्चंजणगररिएकसाए सोमरणेहोइजोगो ३३ जंपचइंदियाइत्तत्ताणी
 विसयसंपलत्ताइ नाणंकुसेणगिरहइ सोमरणेहोइजोगो ३४ जेणजियात्तत्तमयागुत्तो विज्जनवत्तित्तत्ताणीहिं अत्ता
 उत्तोदसकत्ते सोमरणेहोइकयजोगो ३५ जोत्तिसहइवावीसं परीसहात्तुस्सहाउवसग्गा सुत्तवत्ताउत्तेत्ता सोमरणे

होइकयजोगी ३७ घन्ताणशुकसाया जगदिज्जताधिपस्कसाएहि निवृत्तिमुठित्तासु निविठोपगुलोषेव ३८ सा
 मन्ममणचरत्तस्स कसायाजस्सउक्कफाङ्गि मन्तामिउठपुप्फ वनिप्पलत्तस्ससामया ३९ जश्चज्जियचरिस्स देसूणा
 एपुष्पकोट्टिए त्तपिकसाइयमि तोहारेइनरोमुक्कप्पेण ४० जश्चज्जियचक्रम्म श्चत्तकालपमायदोसेण त्तनिहयरो
 गदोसो स्वविज्जापुष्पाणकोट्टीए ४१ जडत्तवसतकसात्त उठइश्रणपुणोविपक्किवाय क्किसक्कावीससय योविधिकय
 ससेसपिमि ४२ स्त्रीणिसुत्ताणस्सेम जम्मजीयसुश्चनयश्चनइए सुत्तठसुयाविनठ सुक्कचजत्तकसायाण ४३ घन्तानि
 सुसराजिए वयगरयानियत्तियकसाया निसगनिम्ममत्ता विहरतिजडत्तियासात्त ४४ घन्ताश्चयिरहियगुणा धिह
 रत्तीसुक्कमग्गमत्तणाड्ड ह्यपरमत्तलोए जीवियकरणश्चपक्कियत्ता ४५ मिठत्तवमिज्जण समत्तमिधाणेयश्चडरगारे
 कायव्वोयुद्धिमयामरण समुग्घायकालमि ४६ इत्तियत्तियमिधीरा मरणेपच्चाउवमिए सत्तेमरणसमुग्घाएण श्चत्तसा
 मत्तमिठत्त ४७ होपुष्पयुद्धिमया श्चालोडयनिदिउगुरुसकासेका पच्चाश्चणूसुत्ती पच्चाज्जाइयजसरइ ४८ ताहे
 जत्तिसुग्घपापत्तित्त जडरियजस्सउक्कामिन्नित्तणित्ता श्चत्तमत्तियमिश्रित्तं ४९ परमत्तउमुण श्चत्तराहोनेत्तहोइकाय
 व्वो धत्तियस्सपमाएण पक्कमत्तस्सकामत्त ५० पत्तित्तेणविसोही पमायत्तज्जलस्सहाड्डजीवस्स श्चैणत्तयक्कुसज्जूय चरि
 यत्तचरणरक्कठा ५१ नुविसुसत्तसत्ता जडत्तिय सुत्तजाणत्तीहि मरणत्तवत्तिया श्चालोयननदगासात्त ५२ इक्क

रापपपपपपपप रापपपपपपप रापपपपपपप रापपपपपपप रापपपपपपप

प्यणिहिपुयपियहिऊतिन्नि तिहोचेवगारविमुक्ता कायमणंचवायमं णवयसाकासावेव ३१ तवपरसूणायत्थित्तू
णतिणिउज्जखतिविहियनिसिएण दुग्गइमग्गातरिएणं मणवयसाकायपदंका ३२ वन्ताऊणकासाए चउरोपंचहि
यपचेहंतूण पंचासवेउहियमहह्ययगुणेहिं ३३ तज्जीवनिकाएरखिकऊण बलदोसवज्जियाजइणो तिगलेसोपरिहा
णा पत्थिमलेसापनिजगुत्थाय ३४ पगदुगतिगचउपण सत्तठगनवदसगठाणेसु अ्सुहेसुत्थिप्पहीणा सुत्तेसुसठिया
जेत्त ३५ वेयगवेयावत्ते इरियठाएयंसंजमठाए तहपाणवत्तिया त्ठंपुणधम्मविंताए ३६ त्सुठाणेसुत्तमेसुय अण
यंरकारणसमुप्पणे कफ्फजोगाअ्याहारं करतिजयणानिमित्तंतु ३७ जोएसुकिलायंती सरीरसकप्पवेळमवयंता अवी
कप्पावज्जत्ती कूउचिंतिउप्पुज्जयमरणं ३८ अ्यायंकेउवसग्गे त्तिरिक्कयावंजचंरगुत्तीसु पाणितदयातवहेउं सरीरप
रिहोरवुत्थेत्त ३९ एळीमासुसीहजिक्कालिया मुक्करेअज्जिगाहाईअ्य घेत्थियअज्जित्तरए वंजेयतवेसमणुरन्ता ४० अ
चिकलसीलायारा पफ्फिवन्नाजेउत्तमंअ्यत्तं पुत्थिलाणयमाणय ज्जणियाअ्याराहणाचेव ४१ जहपुत्थुठअ्यगमणो करणवी
हीणोविसागरेणेत्त तीरासन्नपावइ रहिउअ्यवत्तगाइहि ४२ तहसुकरणोमहेसान्नि करणअ्यारउधवंहीइ अ्यहलहइ
उत्तमत्तं तअ्यइलात्तत्तणंजाणं ४३ एससमासोत्तणित्तं परिणामवसेणसुविहियजणस्सइ त्तोजहकरणिज्जां पंथियमर
णतहामुणह ४४ फासेहित्तिचरित्तं सत्तंसुहसीलयपरिऊणं घोरपरीहवसुं अ्यहियासित्तीधेइबलेण ४५ सद्देरूवेगंधे

रसेय फासेयनिग्धिणधिद्वए सहेसुकसाएंसुय निहतुपरमोसयाहीह १६ चेडऊणकसाएइदिए यसावयगारवेहतु तो
 मलियरागदोसो करेहश्याराहणासुद्धि ४७। दंसणनाणचरिहे एअसाईसुजोअइयारो तसहश्यालोहि निरविसेसपणि
 हिश्यप्पो ४८ जहकठएयिठो ससुगंवेयणटिउहोइ तहचेवउद्धिमिउ नीससोनिस्सुउहोइ ४९ एयमणुठियदो सोमा
 इल्लोतणदुरिकहोइ सोचेववसुदोसो सुविसुंठोनिस्सुउहोइ ५० रागदोसाजिहया सससुमरणमरतिजेमुठा तेदुरकस
 एयज्जलो जेमासिससारकतारे ५१ जेपुणतिगारज्जा निस्सवाविसणोचरित्तेया थिहरतिमुक्कसगा पतितेससुदुस्क
 इः ५२ सुचिरमविसेसकिलिठवि हरतजाणसथरायिहीण नाणीसधरजक्षी जिणहशुहोरसुमित्तेण ५३ अनिउत्तरेइ
 कम्म अ्सयुत्तोसुयज्जाण विक्कालेण तवुत्तोतिगुत्तो खवेइउसासमित्तेण ४५ सुयज्जमुपाविसतो जेमूठासीलसजमगु
 णाहि नकरतिजायसुत्तिंतेदुस्कनिजेलाजाति ५५ जेपुणसुयसपत्ता चरित्तदोसेहिनीथिलिप्पंप्पि तसुविसुठचरिता
 करतिदुस्करकयसाह ५६ दुसुमकारियजोगो समाहिकामोविमरण कालमि नजवडपरीसहसुहोविं सधमुहपराडउजी
 वो ५७ तएवजाणतो महतरसुविहिएसु दंसणचरिस्सुच्छी निस्ससुवोविहरतधीर ५८ इत्यपुणजायणानं पचइमाज्ज
 तिसकलिठानं श्याराहितसुविहिया जोनिस्सुअज्जिणिज्जाए ५९ कदप्पदेयकिस्सेइ सशुज्जिउगाश्यासुरोयसमोहा पया
 उस कलिठा अ्सकिठाहयइच्छया ६० कदप्पकोकयाइय दसुसीलोनिस्सुहासणकहाणं विम्हाचितोउपर कदप्पजा

१
 २
 ३
 ४
 ५
 ६
 ७
 ८
 ९
 १०

राय यणपविधिइ ११५५ का प्रागम सग्रह मग १० १

वणकुण्ड ६१ नाणस्सकेवलीणं धम्मापरियस्ससहस्राणं माइच्चवणवाइ किच्चिसियंजावणकुण्ड ६२ मंतोजि
 उगकोडगज्जूईकम्मवजोजणोकुण्ड सायरसडहिहेसुं अजिउगंजावणकुण्ड ६३ अधुवधुरोसधुगाह सम्मत्तहानि
 मिन्नपफिसेवी एएहिंकारणेहि० आसुरियंजावणकुण्ड ६४ उम्मग्गदेसणानी णडूसणामग्गविप्पसोच्च मोहणमोह
 यंतसि जावणंजाणसमोह ६५ एयाउपंचवज्जियड णमोळठीइविहरतंधीरपंचसमिउत्ति गुत्तोनिस्संगोसहसजेहि ६
 ६एयाएजावणाए विहरविसुद्धाडदीहकालमि काऊणअतसुठिं दंसणनाणेचरित्तेय ६७ पंचविहजेसुठिं पंचहविवेग
 संजयमकानुं इहउवणमतिमरणं तेउसमाहिनयाविंति ६८ पंचविहंजेसुठिं पत्तानिखिलेणनित्थियमइया पंचविठं
 चविठेग तेऊसमाहिंपरपत्तो ६९ लहिकणसंसारे सुदुल्लहंकहविमाणुसंजमं नलहतिमरणदुलह जीवाधम्मंजिणस्का
 यं ७० किच्चाठिपावयंमि विसोमाणकम्मसत्तिउसन्ता सियतिमायदुलहो पंकोसन्तोयजहानामो ७१ जहकागणी
 इहेउं मणीरयणाणंतुहारएकोठि तहसिद्धसुहपरुखो अंबुढासज्जतिकामेसु ७२ चोरीरस्कसपत्तं अत्यत्योहणडपथि
 यसूहो इहालिगीसुहरस्कसपहनुं विसयाउरीधम्मं ७३ तेसुविच्चलद्धपसरा अविद्यन्हापुस्सियागयसडया समुविति
 मरणकालेए गामजेयचरवंनरगं ७४ धम्मोन्नकउसाहून जेसिउंननियंसियंसराहं हरिहंपरंपरारुतिय निवयपत्तइंचसु
 र्काइ ७५ साहूणनोवकयं परलोअत्येयसंजमोन्नकनुं दुहउवितउविहलो अहजम्मोधम्मंरुखाणं ७६ दिस्सकमइले

माणा मोहमहायज्ञसंगराजिहयो तस्सश्चपकिक्कम तामरतियालमरणाहं ७७ इयधिमोहपउत्ता मोहमोसूणगुरुस
 गासमि श्यालोडयनिस्सह्ला मरउंश्याराहगातेवि ७८ इत्यधिमोसोत्तणइ त्यलणाश्चथिनामज्जजिणकप्पो किपुणहं
 परमणाप तेणविहीदेसिउहणमो ८१ अप्पविहीणाजाहे धीरासुयसारसरियपरमत्या तेश्यायरियविदिज उविसि
 श्चसुसयमरण ८० श्यालोयणाहंसाले हणाहस्वमणाहकालह स्सगोउगासेसंधारे निसग्गवेरग्गसुस्काए ८१ काऊ
 णावसेसालेस म्मतंपापगमणयधेव चउदसपउउएसविहा पठमोसरणमिनायस्सी ८२ विणउयमारमाणस्स जजणापू
 यणागुरुजणस्स तित्थयराणयश्चना सुयधम्माराहणाकिरिया ८३ ळ्ठीसाटाजेसुय जेपययणसारस्सरियपरमत्या त
 सिंपासोसोही पन्तप्ता धीरपुरिसेहि ८४ यमठक्कम्मायळक्क पारसगतहश्चकप्पगिहिजाण पालियकगिहिनिंसिज्जासु
 नयलिमहणसिणाण ८५ श्यायारवचउवधा रयधवचहारविहिविहसूय उवीलगायधीरा पळ्ळप्रणापविहणूय ८६
 तहयश्चवायविहमूनि ऊयगाजिणवर्यमिगहियत्या अपरिस्साइतहावि सरहस्सस्सानित्थिहा ८७ पटमश्चठारस
 ग श्चठयठाणाणिएवज्जणियाणि इत्तीदसठाणाणिय जेसुउठावणान्नाणिया ८८ श्चणवठतिगंधारतिगंधतिगमेयत्य
 हीगिहीनूया जाणतिजेणउएएसु श्चस्यणकरुमासूरी ९९ सम्मइसणवप्प० जेयधियाणतिश्चागमविहसु जाणतिश्च
 रिष्ठात्त श्चनिग्गयपरिसेसात्त १० जीश्वारनेयहइ विश्वक्किह्णणुसाधीय सोगोयजावदसमो जेसुवहावणान्

जगिया ११ एएसुविहविहणू षष्ठीसाठाणएसुजेसूरी तेपवयणसुहकेउ च्छतीसगुणहीनायहो १२ तेसिमेरुमहोयांह
मेयणिससिसूरसरिसकप्याण पामूलेयविसीही णिजासुविहियजणेणं १३ काइयवाइयमाणसियं सेवणदुप्यउग
संजुयं जोअइयारोकाइ तंअलोएअगूहिं १४ असुगम्मिइउकाले असुगत्येअसुगगामनावेणं जंजहनिसेवियंखलु
जेणयसव्वंतहालोए १५ मित्यादंसणसल्ल मायासल्लनियानसल्लंच तंसंखेवाहुविहं दव्वेजावेयवोधव्वं १६ विविहंतु
जावसल्लंदसणनाणेचरिचलोमेय सच्चित्ताच्चिह्वेविय मीसाएयावीदव्वमि १७ न्नमज्जांपिजावसल्लं अणुसुरित्ताउजोकुणइ
कालं लज्जायगारवेणेय नज्जसोअाराहउजणिन १८ तिविहपिजावसल्लं समुअरित्ताउजोकुणइकालं एअज्जाइंसम्मंसहो
इअाराहउमरणे १९ तन्हासुत्तरमूल अविकुलमवित्युयंअणुविगो निम्मीहियमणिगूहं सम्मसहोअलोअएसव्वं १००
जहवालो जयंतो कद्दमकद्दचउज्जयंजणइ तत्तहअलोपज्जा मायामयविप्पसुक्कोय १ कयपावीविमणूसो अलोइ
निंदिउगुरुसगासे होइअइरेगलज्जउ हरियजरोव्वजारवहो २ लव्वोइगारवेणय जेनालोयंतिगुरुसगासमि धंतपिसु
कुसमिअ नज्जतेअाराहगाज्जंति ३ जहसुकुसलोविविज्जो अन्नस्सकहेइअत्तणोवाहि तंत्तहअलोयव्व सुठुविवहार
यंसलेण ४ जपुव्वत्तपुव्वजहाणु पुव्विज्जहक्कमंसव्वं अलोइव्वसुविहिउ कमकालविहअनिदतो ५ अतरपराजागेहिय
एवंसुअट्टिउपउगेहिं असुगेहिकुअसुगेहिय असुयकमंठाणकरणहि ६ व गंाहियगधेहिय सदफरिसन्नेअ वगंधेहिं ७

क्रियेयणाकाया पञ्चवेदिकायाजेहियजिह्व ७ जोजोगउश्चपरिणामउश्चदसण अरिहृष्टईयारो षष्ठाण्यसुरोया
 वि ८ मउजजावपरिणउ रागदोसचपयणुंएऊण तिथिहेणउश्चरिक्का-गुरुपामूलेश्चगूहितो ९ नवतसस्यवधिसच दुष्प
 उतुष्कुणइयेयालो जतयदुष्पउप्त सप्पुष्पएमाइउकुन्तो १० जंकुणजोयसप्त श्युणुहियउप्तमठकालमि दुष्पहयोहीयत्त
 श्यणतससारियत्तघ ११ सोउश्चरतिगारव रहियामूलपुणधलयाण मिक्कादसणसप्त मायासप्त श्ययाणच १२ रागेणघ
 दोसेणघ जएणहासेणनहएमाएण रागेणायकेणघ चप्पीइयराजिउगेण १३ गिह्विक्कायपरिण वसयस्कपरघम्मि
 उवसग्गेण तिरियाजोणिगएण हृदिवमणूसोयसग्गेण १४ उवहीयहयनियनीयइ वतहसावपयतिएणवपरेण श्यप्पा
 णजएण कयपररसठदाणुवप्पीए १५ सहसक्कारमणाजोग उश्चपवणाहिगारेण सन्तिकरणेयिसोही पुणागारोययन्त
 ता १६ उक्काश्चमालोइहो करणपरिणामजोगपरिसुद्धो सोपयणुपडक्कम सुग्गडमग्गश्चिमुहेह १७ उवहीनिय
 क्रियडठो साहिजोकुणइसोगडकामो माइपप्पिकुवतो करेइवदुत्तियमूढो १८ श्यालोपणाइदेसे वसदोगाडवधणे
 परिहत्तो तम्हाश्यालोइजो मायमुत्तुणनिसोव १९ जेमेजाणतिजाणा श्यवराहाजेसुठाणंसु तेहीश्यालोयमी उवधि
 उसक्कायायेण २० एवउवहियस्सविकि श्यालोपउविसुद्धनायस्स अकिञ्चिद्विचिसुरिय सहसक्कारेणवावुक्का २१ श्या
 राइउवहविसो गारवपरिकुवणामयविक्कणो जिणदेसियस्सधीरो सहइगोमुत्तियमग्गसुवा २२ श्यासेयणाश्चुमाणा

णं जदिठंवायरंचसुहमंच लन्नसद्दाउलगं वज्जजणञ्चत्ततस्सेवी २३ श्यालोयणाड्ढीसे दसदुग्गडवहणाधसूतूण
श्यालोड्ढजसुतिहिउ गारवमायामयविज्जणो २४ ततोपरियागवल श्यागमंचकालकरणंच पुरिसजाञ्चतहा खित्तं
परिनेवणविहिच २५ जोगंपायत्तित्ततम्मयच्छानं णवतियश्यायरिया दंसणनाणचरित्ते तवेयकुणमप्पमायति २६
अणसणउमोयरिया वन्नित्तयेउअरसस्सपरिह्वानं कायस्सपरिकिले सोल्लोसलीणयाचेव २७ विणएवेयावञ्चे पा
यत्तित्तेविवेगसज्जाए अजितेरत्तवत्तिहं च्छठंज्जाणवियाणाहि २८ वारसविहम्मित्तवे अजितरवाहारेकुसलदिठे न
विअत्थिनविय होहीसज्जायसमतवोकम्मं २९ जेपयणुत्तपाणासुय हेउतेतवस्सिणोसमए वोअत्तवोसुयहीणा वाहि
रमोसोबुहाहारो ३० लल्लमदसमदुवाले सेहिअवज्जसुयसजासोही तत्तोवज्जतरगुणिया हविज्जजिनियस्सनाण
स्स ३१ कल्लकल्लपिवरंश्या हारोपरमिउअपत्तोअ नयखमणोपारण पवज्जवज्जतरोवज्जविहोय ६२ एगाहेणतवस्स
हविज्जनत्थित्तससउकोड एगाहेणसुयहारो नहोइधंतपितुरमाणो ३३ सोनामअणसणत्तवो जेणमणोमगुलनतेइ
जेणनइदियहाणो जे णयजोगानहायति ३४ जंअन्नाणोकमखवेइ वज्जश्याइंवासाकाफ्फीहि तंनाणातिहिगुत्तो खा
वड्ढसासमित्तेण ३५ नाणेश्याउत्ताणनाणी णंनाणजोगज्जत्ताणं कोनिज्जरंतुलिज्जा चरणेयपरक्कमंठाणं ३६ ना
णेणवज्जाणिज वज्जित्तइयकरणिज्जां नाणीजाणइकरणं कज्जमकज्जांचवज्जित्तं ३७ नाणसहियंचरित्त नाणसंपुयागं

गुणसयाण एसजिणाणश्चाणो नत्थिचरिण्णयिणाण ३८ नाणसुसिक्खियसु नरेणल्लूणदुल्लहंयोहि जोइत्यइनाउ
 जे जीवस्सविसोहणामग्ग ३९ नाणेणसङ्गजावाणज्जती सङ्गजीवलोष्णमि तम्हानाणकुसलेण सिक्खिय सूपयत्तेण ४०
 नज्जसङ्गानासउं नाणश्चरहवजासिर्यलोए तेघन्तासेपुरीसा नाणायचरिण्णज्जासाय ४१ यधमुक्कगहरागयस जीवा
 जजीवलोयमि जाणतिसुयसमिठा जाणसासणचेइयविहणू ४२ जहसुयसुययाणसङ्गए यत्थेसुपुत्थयिज्जाण नाणे
 णजोगवयरो सिद्ध पिगसुसिद्धेसु ४३ किंइत्थील्लय्यर अठरय्यरवसुदरत्तरया चवमियसङ्गलोगा बज्जसुयसुयसुहपा
 लयति ४४ अदाउनीइजमहायज्ज मुयमइानीइजिणवयण जसोऊणसुविहििया' प्परतिससारकत्तार ४५ अउदसपुइ
 धाराण उहिनाणीणकेयलीणच लोगुत्तमपुरिसाणते सिनाणश्चिनाण ४६ नाणेणयिणाकरण नहोइनाणपिकरण
 हीणधु नाणेणयकरणेणया दाहियिदुक्कस्सकयहोइ ४७ दसुत्तसुलमहाण मिवित्रमेगोविसुयसीलसपणो मोहसुयसी
 विग्गो लक्काहिसिनाणएवयणमि ४८ तमहासुयमित्थीगो कायसीहोइअप्यमत्तेण जेणपारपरपिय दुक्कसमुह्हाउ
 हारेइ ४९ परमत्थमिसमिसुदिद्धे अविण्णठेसुसयसजमगुणेषु उट्ठपइगइयिसुत्ता चरीरसारेविण्णठमि ५० अविर
 हियजस्समइ पत्तहिसमिहइतिहिविगुत्थीहिं मयकुणहरागदीसे तस्सचरित्तइवइसुत्त ५१ उक्कीसचरिणाविय परि
 वरुइमित्तजावणकुण्णं किपुणसम्मदिठी चरागधम्ममिबहत्तो ५२ तम्हायअहादासु विफाउजेउत्तमपयत्तेण सम

यसुहसुहलोलुयापउहस्स जडयिमरणेसमाही क्कजनसाहोडयक्रयाण ६८ अस्समसुपयिमुगी पस्सिसुकयपरिकम्म
 परिहत्थो सजमनियमपट्टन्त सुहमच्चहिउसमणेइ ६९ नवयतिकिचिकाउ पुस्सिसुकयपरिकम्मजोगस्स खोहपरीस
 हयमु घडयलपराहयामरणे ७० सोतविपुसुचरणा जयणाएजोगसगहयिहीहि तोतेकरतिदसण चरित्तसहनाय
 णाहेउ ७१ जापुसुजावियाकारहोइ सुइअरणदसणेयक्रलाहा साहोडयीयजूया कयपरिकम्मस्सम्मरणमि ७२ त
 फानहिअरित्त नुमपिसुइसीलयपक्कतेण ससुपरीसहचत्त अहिपासप्तोधिइयलेण ७३ सहेइयवेगधेरसेय फासेयमु
 यिहिउज्जणेहि ससेसुक्रसाएसु अनिग्गहपरमोसयाहेहि ७४ ससेसेयपणीए निउहेऊणयतलुज्जाहि अमयरेगुवहा
 णेण सलिहेअप्यगकमसो ७५ सलेहणांयदुविहा अन्तितरियायकहिराचेय अन्तितरियकसाए थाहिरियाहोडयसरीरे
 ७६ उग्गमउप्पायणए सणविचसुं णअणप्यणेण मियविरसलुरकलूहेणो दुसुलपुणसअप्पाण ७७ उल्लीणोल्लीणेहि
 य अहवनपगतयसुमाणेहि सलिहसरीरमेय आहारयिहिपयणुयतो ७८ तप्तोअणुपुहेणा डारउवहितोसुउयएसेण
 यिहतत्रोक्कमेहिय इवियविक्कियलियाडहि ७९ विविहाइएसणाहिय विविहेहिअन्तियहेहिउग्गेहि सजमविराहि
 हो जहायलसलिहसरीर ८० विविहाडिअपणिमाहि अयलसीरियजडय सगहोडसुहतानं विनथाहिहीज हक्कमस
 ललहसमि ८१ लमासियाजहन्ता उक्कोसांआरिसेअरिसाइ आयंयिलमहेसी तस्यपउक्कोसयंअिति ८२

समद्रुवालमेहि नत्तेहिं चित्रकठेहि मिषलकुकंशाहारं करेहि श्यायं विलविहिणा ७३ परिविठि उवहाणे रहा रुठिरा
वियफामुलिकलीनं सलिहियतणुसरीरो अस्पपरउमुणीनिच्चं ८४ एवंसरीरसलेहणा विहिं वक्रविहिं पिफासिंतो
अप्रसाणविसुष्टि सणपितोमापमाड्या ८५ अप्रवसाणविसुष्टी विवज्जिया जेतवविगठमधि कुवृत्तिवाललेसा न
गोडमाकेवलसुठो ८६ एयसरागसलेहणा विहिं जईसमायरड अप्रप्यसजयमई सोपावडकेवलसुष्टी ८७ निखिना
फामेयज्ञा सरीरसलेहणा विहीए डत्तोकसायजोगा अस्पविहिं यरमबुठ ८८ कोहंखमाइमाण महवयाअज्जवेण
मायं च मतीमेणवल्लोहं निज्जिणिचत्तारिविकरसाए ८९ कोवस्सयमाणस्स यमायालोनेसुवानएएसिचइं ९० जाचं
निकेडठाणा उदोरगाज्जतिह्रकसायाणं तउसयाविज्जितो वियुत्तसगीमुणीविहरे ९१ संतोवसत्तधिडमं पसहविहि
यसमहियासती निस्सगयासुविहिया संलिहमोहेकसाएय ९२ इहाणिठेसुसयासद्द फरिसल्लवगधेहिं सुहदुखनि
हिमेसो जियसंगपरीसहोविहरे ९३ समिडसुयंचसमिउ जिणाहितंएदिमुठु तिविहिं गारवेहि रहिउहोइतिगुत्तो
यदफेहि ९४ सन्तासुअ्यासवे सुअअहेरुहेअतविसुष्ट्यो रागहोसपवंचे निज्जिणिउसल्लुणोज्जतो ९५ कीदुखकंपावि
ज्जाकम्मप सुखेहिं विमहउज्ज्जा कोविनलज्जिज्जमुख रागहोसोज्जनदुज्जा ९७ निवतंकुणइअमितो सुठुविराहि
उसमत्योवि जदोविअनिग्गहिया करिंतिरागोयदीसोय ९८ तंसुयहरागदीसेयेय चित्तदअप्यणोनिच्चं जतेहिंइ

त्यहगुण तत्रुक्ताहयकृतरपत्या ११ इहंलोएश्यायासश्रय सधकरितिगुणविणासंघ पसयंतियपरलोए सारीरमणोगए
 दुस्के २०० धिठीश्रुहोश्रुकऊंजं नाणतोविरागदोसेहि फलमउलकद्रुयरस तत्रेवनिसेवएजीवो १ तजइडलसिगसुती
 र नत्रसायस्सघोरस्स तोसवसंजमजंरुसु त्रिहिपगिणहाहिसूरंती २ यकृत्तयकरदोसाण समभ्रचरिहगुणविणासाण
 नकृत्तयसमागतसु रागदोसाणपावाण ३ जनउहइसमभ्रं लरुणत्रिजनहोव्वेरग्ग विसयसुहेसुयरऊइ सोदोसोरागदो
 साण ४ नत्रसयसहस्सदुलहे जाइजरामरणसागरुत्तारे जिणवयणमिगुणा गरस्वमविमाकाहिसिपमाय ५ दसेहि
 पञ्जावेहिय समभ्रसगेहिसुहुविजयय्या निप्यणयपेमरा गोजइसम्ममेइमुस्कत्थ ६ एवकयसलस श्रुत्तितरयाहिरमि
 सठहे ससारमुखबुद्धी श्रुत्तियाणोदोस्सत्रिहराहि ७ एवकहियसमाही तइत्रिहसस्वगकरणगत्तीरो श्राउरपञ्चरका
 ण मुणराविसीहोयलोपण ८ नकृत्तसापुणरुत्तविही जोसंवेगकरेइत्तणती श्रायरपञ्चरकाणे तेणेकहाजोइयाजज्जो ९
 एसकारेमिपणामति त्यराणश्रुत्तगठण सत्तेसिचजिणाण सिद्धाणसजयाणच १० जकिचविदुच्चरियत महनिदा
 मिसजात्रेण सामाहयचतिविहं तिथिहेणकरेमणाग्गारं ११ श्रुत्तितरंघतह थाहिरचउवहीसरीरसाहारं मणघा
 यकायति करणसुहोहमिस्सिएकरेमि १२ यधयउसंहारिसरइ मरइदोणत्तयत्तयसांग रागदोसत्रिसाय ऊसगत्तावचप
 यहामि १३ रागेणवदोसेणव श्रुत्तवाश्रुकयतुपत्तिनिसघेण जोमेकिचिचिज्जणितं तमहतिविहेणस्वामेमि १४ सत्तेसु

यदुस्त्रेसुय हिउएहिनिम्ममत्ताए अालंबणंचश्याया दंसणनागेचरिहेय १५ श्यायापचरकाणे श्यायामेसजमेतवेजो
गी जिणवथणविहिविलग्गा अथसेसुविहितुदंसेहि १६ मूलगुणनुत्तरगुणे जेमेनाराहियापमायणं तेसुहेनिदामी
पकिक्कमेश्यागमिस्सणं १७ एगोसयंकक्काइंश्यायामे नाणदंसणवलस्को सजोगलस्सणाखलु सेसामोवाहिराजावा
१८ पत्ताणिदुहसयाइं संजोगस्साणुएणजीवेणं तम्हाणंदुस्सं वयासिसजोगसंबंधं १९ अस्संसंजममणाणं मिच्छत्तं
सत्तुउत्तमंच जीवेसुअजीवेसुय तंनिंदेत्तंचगरिहामि २० परिजाणेमित्तं सत्तुअस्सजमंअकरियच सत्तुंचेवममत्त
व यामिसत्तुचखामेमि २१ जेमेजाणंतिजिणा अथराहाजेसुजेसुठाणेसु तेहश्यालोएमी उवठिउसत्तुजावेणं २२ उ
प्यन्ताणुप्यन्ता मायाअणुमग्गउनिहनत्ता श्यालीयणनिदणगरिहणा हिनपुणोत्थियाविडय २३ जहवालो जपंती कज्ज
मकज्जंचउज्जयत्तणड ततहश्यालीयत्तं मायमुत्तूणत्तिस्सस २४ कवज्जपिजावसत्तु श्यालोपज्जणगुरुसगासमिं निम्म
त्तसंधारं उवेडअाराहउहोड २५ अप्पंपिजावसत्तु जेणलीयंतिगुरुसगासमि धतपिसुयमसिद्धा नज्जतेअाराहगाज्जं
ति २६ नवितविसंवत्थं च उदुप्पउत्तुक्कुण्डवेयालो जंतंबदुप्पउत्तस पुत्तुपसायउज्जवित्तु २७ जंकुणइजावसत्तु अ
लुहियंउत्तमठकालंमि दुत्तहवोहीयत्तं अणंसतंसारियत्तंच २८ तोउत्तरतिगारव रहियामूलपुणज्जवलयाण मिळादंस
णसत्तु मयोत्तंनियणं च २९ कयपावोत्थिमणूसो श्यालीइयनिदियगुरुसगासे होइअइरेगलज्जं हरियत्तरुत्तुत्तार

जिणेहिंपन्नं सुष्टोउष्टियसन्नो पाउवगमंपरीहामि ४६ संसारवक्त्रवालेसहे वियदुगालामएवज्जो ञ्णाहिरियाव
परिणामि यायनयतेसुतिन्नोह ४७ ञ्णाहरनिमित्तेणं मत्यावत्यंतणुत्तारतरथं सचिन्नाहारविहितेण उमणसाविनि
च्चा मि ४८ तण कहेणवञ्जगी लवणसमुद्धीनइसहस्सेहिं नइमोजीवोसक्कातिप्पेउं कामजोगेहिं ४९ लवणयसुहसह
सामाणो दृप्पूरोधणउञ्जपरमिज्जो नज्जसक्कातिप्पेउं जीवोससारियमुहेहिं ५० कप्पतरुसज्जवेसुया देवुत्तरकुरुवसंय
सूपसु परिजाणेणन निन्ना नरविज्जाहरमुरेसु ५१ देविदवक्त्रवहित्थणाइ रज्जाइउत्तमानोगा पत्तोञ्जणंतखुत्तो नय
हतिन्निगउत्तेहिं ५२ पयस्कीचुरसेसुय उसासमहोदहीसुवज्जसोवि उववन्तो नवणत्तहात्थि न्नात्तेसीयलजलेहिं ५३
तिविहेणविसुहमउल जम्हाकामरडसियसुस्काण वज्जसोविसमणु जूयनयतुहन्हापरिच्छिन्ना ५४ जकोइयत्थणाउ
कमेए रागदीभवसएण पफिवधेणवज्जविहा त्तनिदेत्तचगरिहामि ५५ हंतूणयमोहजालत्थित्तू णयञ्जहकम्मसंकलियं
जम्मणमरणरहंजि जूणजावाणमुच्चिहित्थि ५६ पचयमहत्थयाइतिविहं ति विहेणञ्जारहेज्जणं मणवयणकायगुत्तो स
ज्जोमरणंफित्थिवा ५७ कीहंमाणमयंलोह पिच्चतहेवदीसच चडऊणञ्जप्पमत्तो रक्कामिमहवएपच ५८ कलहिञ्ज
च्चयस्काणपेसुत्त पियपरस्सपरिवायं परिवज्जित्तोगुत्तो रक्कामिमहत्थएपच ५९ किमणहानीलकाउले संकाणाणि
ञ्जप्पसत्याणि विपरिवज्जित्तोगुत्तो रक्कामिमहत्थएपच ६० तेउपनहसुक्कलेसा ऊाणाणिसुप्पसत्याणि उवसपन्तो

जम्भी रस्कामिमहस्रएपच ६१ पचिदिएसवरण पचेवनिर्झञ्जिजणामगुणे श्यष्टासायणधिरत्त रस्कामिमहस्रएपच ६२
सत्तत्तयविष्पमृक्तीचम्भा रिनिञ्जञ्जिजणयकसाए श्यठमयठाणजहो रस्कामिमहस्रएपच ६३ मणसामणसस्रयिज
वायासष्टेणकरणसष्टेण तिधिहेणश्यप्यमम्भा रस्कामिमहस्रएपच ६४ एवतिदकधिरत्त शिकरणसुठीतिसप्तनिसप्तौ
तिधिहेणश्यप्यमत्तो रस्कामिमहस्रएपच ६५ समर्सेसमिनुगुत्ती उजावणाउनाणच उयसपन्नोअत्तो रस्कामिमहस्रए
पच ६६ सगपरिजामिसप्त पियउरुामितिधिहेण गुप्तीउसमिद्वउस ताणचसरणच ६७ जहस्रुहियचक्कावालो पीय
रयणत्तरियरुसुद्धामि लज्जामयाधरिता कथरयणाशुसुसपन्ना ६८ तवपोश्यगुणत्तरिय परीससहम्भाहिधणियमाह
ठ स्रहश्याराहितियिज उषएसयलयगाधीरा ६९ जहतावतेसुपुरीसो श्यारीयवियत्तरानिरकयस्का गिरिकुहरकदर
गया साहितियश्यप्यणोश्यह ७० जहतावसाधवाकुल गिरिकदरविसमदुग्गमग्गोसु धिद्वधणिययधगळा साहस्रिश्य
स्रमश्यठ ७१ किवणश्यणग्गारसहोपगोणा वरम्मासगहत्रलेण परलोपणवक्कास सारमाहोदहितरिठ ७२ जिणयय
णमप्यमेय मञ्जरकस्सामयसुणत्ताण सक्कोक्कासोक्कमसो साहेउश्यप्यणोश्यठ ७३ धीरपुरिसपन्नस सप्पुरिसनिसेवि
यपरमधोर धन्तासिलातलगया साहिस्तीश्यप्यणोश्यठ ७४ साहेड्वत्थिययाह पुह्मकारियपद्धठशारिसम श्यकयपारि
कम्मधीय मरणसुश्यसपउत्तमि ७५ पुह्मकारियजागो समाहिकमोअिसरणकालमि ननवहपरीसहसहोवि सयसु

हपराइजीवो ७६ पुष्टिकारियजोगो अणियाणीइहिजसुहजावो ताहेमलिकसानुं सज्जोमरणंपफ्रित्यिज्जा ७७ पुांहुं
कारियजीगोसमाहि समाहिकामोयमरणकालंमि होइपरीसहसाहोवि सुयसुहनिवारिकजीवो ७८ पावाणंपावा
णकम्माणं अण्यणोसकम्माणं सक्कापलाउउं जेतत्तेणसमंपउत्तेण ७९ उक्कापफ्रियमरणं पफ्रिवज्जइसुपुरिसोअसंजं
तो खिप्पंसोमरणं कहेइअणंतंअणंतं ८० कितपफ्रियमरणंकाणिव अालंबणाणिअणिअणि एयाइंनाऊणं
किं अायरियापसति ८१ अणसणपाउवगमणं अालंबणसाणजावणां अएयाइंनाऊणंपफ्रिय मरणंपससति ८२
इदियसुहसाउलुं घोरपरीसहपराइयपरज्जो अकयपरिकम्मकीवो सुसइअाराहणाकाले ८३ लज्जाइगारवेणंवज्ज
सुमयेणवाधिदुअरिय जेनकहितिगूळण नज्जतेअाराहगाऊति ८४ सुसडदुक्करकारीजा णइमग्गतिपावएकित्तिं
विणिगूहिहोनिदत म्हाअालीयणासय ८५ अग्गिमियउदयंसियपाणे सुयपाणठीयहरियमु होइमउसंथोरो पफ्रि
वज्जइजोअसजंतो ८६ नाविकारणंतणमउं सथोरोनवियफासुयानूमी अण्योखलुसथोरो होइविसुअामरंत्तस्स ८७
जिणवयणमणुगया मोहोउमडंकाणजोगमल्लीणा जहतमिदेसकाले अमूठसन्धोवएदेह ८८ जाहहोइपमत्ताजिणव
र वयणरहिउअणायत्तो ताइदियचोरा करतितवसजमविलोम ८९ जिणवयणमणुगमई जवेलहोइसवरपविहो
अग्गीववायसहितं समूलफालइकम्म ९० जहइहइवायसहितं अग्गीहरिएथिरुक्कसघाए तहपुरिकारसहितं ना

११
 १२
 १३
 १४
 १५
 १६
 १७
 १८
 १९
 २०
 २१
 २२
 २३
 २४
 २५
 २६
 २७
 २८
 २९
 ३०
 ३१
 ३२
 ३३
 ३४
 ३५
 ३६
 ३७
 ३८
 ३९
 ४०
 ४१
 ४२
 ४३
 ४४
 ४५
 ४६
 ४७
 ४८
 ४९
 ५०
 ५१
 ५२
 ५३
 ५४
 ५५
 ५६
 ५७
 ५८
 ५९
 ६०
 ६१
 ६२
 ६३
 ६४
 ६५
 ६६
 ६७
 ६८
 ६९
 ७०
 ७१
 ७२
 ७३
 ७४
 ७५
 ७६
 ७७
 ७८
 ७९
 ८०
 ८१
 ८२
 ८३
 ८४
 ८५
 ८६
 ८७
 ८८
 ८९
 ९०
 ९१
 ९२
 ९३
 ९४
 ९५
 ९६
 ९७
 ९८
 ९९
 १००

यंमरणं ६ जहपत्यिमंमिकाले पत्यिमतित्यथरदेसियसुयार पत्योनित्ययवत्यंउवेड अष्टुष्टुयमरणं ८ लक्ष्मीसमयहि
याहिय कङ्कजोगीसगहत्रलेण उन्नमिऊवारमविहे यतवनियमवाणेण ९ संसाररगमसेधिइ बलसनह्वचकल्याउ
हतूणमीहमल्ल हराहिअाराहणपङ्गाग १० पोराणयचकङ्कखवेइ अन्ननवधायाइं कङ्ककलकलाचलिं लिङ्कडसथार
माङ्कडो ११ धीरपुरीसेहिकहिण सपुरीसनिसेवियपरधोरं उतिरुपामिऊरग हराभिअाराहणपङ्गाग १३ धीरप
ङ्गागाहरणंकरेमि जहतमिदेसेकालमि सुन्नत्यमणुगुणिंतोधिइ निह्लवन्नकल्याउ १४ चत्वारिकसाए तिन्निगारवे
पंचइदियग्गामो जिणिउपरीसहसहेह राहिअाराहणपङ्गाग १५ नयमणसचितिजाजीवा मिविरंमरामिवलकृति
जङ्कडवसितरिउजेस सारमहोअहिमरणं १६ जङ्कडवसिनीसरीउं सवेसिचेवपावकङ्कमाणं जिणवयणनाणदसण चरि
त्तजायुऊउजग्गा १७ दसणनाणचरित्तवे अाराहणाचउखंधाउ सोवेवहोईतिविहा उक्कोसामसिमहजहणा १८
अाराहेउणविऊउक्को साराहणचउखंध धम्मरयविप्पसुक्को तेणेवजवेणसिसिहा २० अाराहेऊणविउमसि मअ
राहणचउखंध उक्कोसेणयचउरो जवेसगतूणसिसिजा २१ धीरेणविमरियहं काउरिसेणाविअवस्समरियहं त्तस्था
अवसमरणेवर खुत्तधीरत्तणेमरिउ २२ एयंपन्नकाणअणुपले ऊणसुविहिउसम्मं खमाणिठवादवोह विह्ववाविसि
सिप्पा २३ एसोसवियारकउउ वक्कामोउत्तमठकालमि इत्तोउपुणोवुत्तं जोसकमोहोइअचियार २४ साङ्ककयसंले

होवि जियपरीसहकसावसताणो निजवएमग्गिज्जा सुयरयणसहस्सनिम्माए २५ पधसमिएतिगुत्ते श्याणास्सिए
रागदोससयरहिए कळजोगीकालणू नाणचरणदसणसमिधे २६ मरणसमाहिकुसालइ गियपत्थियसजाववेत्तारो
वधहारविहियिहणू अश्रुह्वयमरणसाहरिणो २७ उवएसहेउकारणगुण निचणायकारणविहणू त्रिणाणनाणकरणो
वधारसुपधारणसमत्थो २८ एगतगुणेरहियात्तुठीइ चउविहाइउववेया त्ठदणूपसुइया पच्चस्काणमियविहणू २९
दुखइश्यायरियाण ठोघेयावच्चकरणसिगुत्ता पाणगवेयायसुत्ते तत्रस्सिणोअन्निदोपत्ता ३० उच्चत्तणपरिवत्तण उच्चारु
स्सासकरणजोगेसु देवायगत्तिज्जोशु मुत्तकरणेजहन्तेण ३१ अ्सद्वहणवेयणाए पायत्तिहेपत्तिकम्मणाएय जोगा
यकहाजोगे पच्चस्काणेयश्यापरित्तं ३२ कप्पोकप्पविहणू दुयालसगसुयसारही त्त्तीसगुणोवेया पच्चिह्वयवियारिया
धीरा ३३ एएतेनिज्जवयापरिकहिया अत्तउत्तमत्तमि जेसिगुणसखाण नसमत्त्याणतयपायुत्त ३४ परिसयाणसेमु
रीण पययणप्पवाण पत्तिअत्तिह्वमत्तयस मणोअश्रुह्वयमरण ३५ श्यायरियउवत्ताए सीसेसाहम्मिएकुलगणीइ जेम
कियाकसाया सत्तेतिविहेणखामेमि ३६ पच्चसमणसघस्स जावअजलिकरेसीसे खच्चस्वमायत्ततो खमामिसच्चस्सअ
हयपि ३७ गरहिप्ताअप्पाण अणुत्तकारपत्तिकामिप्ताण नाणमिदसणमि अचरिप्ताजोगाड्यारेय ३७ तीसीलगुण
समिग्गी अणुवहपास्केवलवधामव विहरिह्वतवसमग्गी अनियाणोआगमसहात्तं ३९ मत्रसोमियगमग्गीस धिसि

राजालपागळमरोरो किल्याहियपरिहत्यो परिहरडकलेवरंजाहे ४० पञ्चस्काडयनाहे अफ्रतसमाहियत्तियमिति
 तिबिहेणाहारविहि दियमुग्गडकायपगईए ४१ इहलोएपरलोए निरासउजीविएअमरणेय सायाणुजावेजोगो ज
 स्नयअत्रदुणाडए ४२ निम्ममनिरहकोरो निरसेयायाकिचणोअपफिकंमो वोसहविसठगो चत्तवियत्तेणदेहेण ४३
 हेणविसहमाणी परिसहेदूसहेअउसग्गे विहरिह्वीसयरहा रयमलमसुन्नविज्जणमाणी ४४ नेहस्कडह्वदीवोजहखमु
 वणंइटीववहिमि खीणाहारसिणी होसरीरवहितहखवेइ ४५ एवपरज्जाअसईय रक्कमोपुह्वजणियमूरीण पासंमि
 उत्तमठे कुज्जातोएसपरिकम्म ४६ आगरससुठियतह अणुसिरवागतणपत्तकएय कठमिलाफलगंसिव अणजि
 ज्जियनिप्पकप्पमि ४७ निस्सधिणीतणमिवसुह पफिलेहेणजइपसत्येणं सथारो० कायत्तो उत्तरपुह्वस्सिसरोवावि ४
 ८ दोमुत्थअप्पमाणे अधकारेसममिअणिसहे निरुत्रहयमिगुणमणे वणंमिगुत्तेयसथारो ५१ उत्तेपमाणरडल उन्न
 उकालपफिलेहणासुद्धी विहिविहिउवसथारो आरुहियवोतिगुत्तेणं ५० आरुहियचरित्तजरो अन्नसुउपरमगुरुस
 गासमि दत्तेसुपज्जवेसुय खित्तेकालेयसह्वमि ५१ एडसुवेवठाणेषु चउसुसह्वोचउविनाहारो तवसंजममुत्तिकिह्वीवो
 सिरियह्वीतिगुत्तेणं ५२ अहवासमाहिहेउं कायह्वोपाणगस्सआहारो तोपाणगमिपत्तावो सिरियह्वजहाकाले ५३
 निसिरित्ताअप्पाणंसह्वगुण समत्तियमिनिज्जवए संथारगसनिविठो अनियोणोचेवविहरिज्जा ५४ इहलोएपरलो

एश्वनियानो जीविषयसरणोष वासीचदककप्पो समोयमाणावमाणेषु ५५ अहमकारफुल्लवियरु तहप्यसायकरणि
 ज्जविसयकय इज्जकहनिज्जयोसुड समन्ताहरणवेउ ५६ इहलोएपरलोए नाणवरणदसणमिय अथायदसेइनिया
 ण मियमायामित्थिससत्तेण ५७ थाउमरणेअथायतह यउवायअथाउमरणमि उरसासरज्जवेय हाणसेयतहगठप
 ठेया ५८ जहयअणुठयसत्तो ससत्तमरणणकोइमरिऊण दसणनाणविऊण मरतिअसमाहिमरणेण ५९ जहसायर
 सेगिआठठिय अहकारपायसुयमत्ता उसत्तथाउमरणा जमतिससारकतार ६० अहमित्तससत्ता मामासत्तेणज
 हससत्ताय जहनियाणससत्तामरति असमाहिमरणेण ६१ जहसेयणावसहामरति जहकेइइदियसहा जहयकसय
 सहा मरतिअसमाहिमरणेण ६२ जहसिद्धिमग्गदुग्गह सग्गगाउमोऊणाणिमरणाणि मरिऊणकेठसिद्धि उवितिसु
 समाहिमरणेण ६३ एथयज्जप्पमारसु अथायउत्तमहकालमि दसतिअथायणु सलुऊणेसुविहियाण ६४ दितियसि
 उयएसगुरुणो नाणाविहेहिहेऊहि जेणसुग्गज्जयतोस सारसयहुउहोइ ६५ नज्जत्तेसुवेयणखलु अहोविरमिद्धिदा
 रुणरुक्क सहणिऊत्ते ण मणसाएवाविधितिऊत्ता ६६ सागरवरणत्थिमर्ह इयस्सपायस्सज्जाएधुवे जीरसुस्सककालो
 नमोविठवितिकरतो ६७ तिल्लविऊणोदीधोनचिर दिप्यहजगमिपञ्चरु नयजउरत्थिउमत्थो जिअहचिरनेवपउ
 साइ इट अन्तरेणकेवोइइयमणमिठाविद्या जसविरेणविमोअ देहेकोत्तत्थपाठियघो-६ रत्थविधि ण

अत्र नमजाय उग्रहिय जणा जो अहवहइ काली अणग उइत्य आसिन्हा ७० जंसुचिरेण विहोहिइ अणावसंसमिकोम
 मीक रो देहे निरमदेहेपिए तिसुयत्तण नत्थि ७१ उवल्लोसिस्त्रिपहीनय अणुविणीपमायदे सेणं हाजीवअप्पवेरि
 य नज्जनेएयंनतप्पिहिइ ७२ नत्थियतेसथयणघोराय परीसहाअहेनिरया संसारोयअसारी अइप्पमाउअतंजीव
 ७३ कांहाइकसायाखलुवीयं ससारज्वदुहाण तेसुयत्तसुसया कत्तोसुक्कायसुक्कोवा ७४ जाउपरवंसेणं संसारेवे
 यणात्तघोराउ पत्ताउत्तारगत्ते अज्जाणात्ताउविचिंतिज्जा ७५ इन्निहसयं वसिस्सउत्तिरुव ममुक्कावसाणभूहकदूयं क
 ज्जाणमोसहपिअ परिणासुहनतंदुक्क ७६ संबंधिवंधवेसुअनय अणुराउखणंपिकायत्तो तिहियत्ततिअमिहा जहज
 णणोवत्तदत्तस्स ७७ वमिउणवसुहमिसेवच्चड पगाणिउडमाजीवो सुतूणसरीरधोरं जहकरहाभरणकालंमि ७८ इ
 रिहंवमज्जत्तेण गोसोवसुएवअहरत्तेवा जस्सनदज्जइवेला कद्विवसगलउजीवो ७९ एवमणुचिंतयंता ज्ञावणुजावा
 णुरत्तसियलेसो तद्विवसमरिउकामो बहोडकाणंमिउक्कंती ८० नरगतिरिक्कगइसुय माणुसदेवत्तणेवसंतेण जंसुह
 दुखपत्त त्त्वअणुचितिज्जसथारे ८१ नरपसुवेयणात्त अणोवसासीयउरहवेरान्त कायनिमित्तंपत्ताणं अत्तखुत्तोवज्ज
 विहात्त ८२ देवत्तेमाणुस्सेपराहिउ गत्तणंउवगएण दुक्कपरिकेसविहा अणंत्तखुत्तोसमणुज्जूया ८३ त्तिन्नांदेयपवि
 दियतिरिय रक्ककायमिणेगसठाणे जम्भणमरणरहहु अणंतखुत्तोगउजीवो ८४ सुविहियअइकाले अणंतकाएसुते

णजीवेण जम्भणमरणमरत यच्चनवगहणसमणुत्तयं ८५ घोरम्मिगच्चयवासे कलमलजघालञ्चसुहयीत्तये वसिउञ्च
 णत्तखुत्तो जीवीकम्भाणुत्तयेण ८६ जोणीसुहनिग्गत्य तेणसंसारेइमेणजीवेण रसियञ्चइयीत्तये कलीकलाहंतरग
 एण ८७ जञ्चसिपथीत्तये च्चसुहधीरम्मिगच्चयसमि तच्चित्तिकणसयसुरक मिमइनिवेसिज्जा ८८ वमिऊणविमाणे
 मुयजीया पसरसिमणिमऊहेसु वसिउपुणोविसुच्चिय जोणिसहस्सघयारेसु ८९ वसिऊणदेवेलोए निञ्चुत्तोएसयए
 तजीया वेसइऊलवेगकलम विउलअलयामुहेघोरे ९० वसिऊणसुरनरी सरवमीयररिच्चिमणहरेसु तसिउनरगनि
 रत्त रत्तअजेरवपजरेजीवी ९१ वसिऊणविच्चिहेसु च्चविमाणमणत्तवणसोत्तसिहारमु वसइत्तिरिएसुगिरिगुह विव
 रमहाकदरदरीसु ९२ च्चुत्तुणविजोगसुह सुरनरस्वयरेत्तुपुणयमाएण पियइनरएसु जेरवकलकलत्तउत्तयपाणाइ ९३
 सोऊणमुहयणरवइ जवेच्चजयसहमगलरवीर्यं सुणइनरएसुइह परञ्चस्सकुद्दाइसद्दाइ ९४ निहणहणगिरहइह पय
 उत्तिथयधरुधाहि फालेलोलेधोलधूरो खारेहिस्समत्त ९५ वयरणिस्साकलिमल वेसलकसलस्सकयकुलेसु वसिउनरप
 सुत्ति उहणहणघणघोरसद्धेसु ९६ त्तिरिएसुअजेरव सहपस्सणत्तयणसएमु वसिउत्तच्चियमाणी जीवीकुत्तिलमिस्ससारे
 ९७ मणुत्तयत्तणविच्चिहविच्चिहविच्चिहया यसहस्सजेत्तयणमि जोगपिथासाणुगत्त वसिउत्तयपजरेजीवी ९८ वसियद
 रासुत्तसिप गिरिसुत्तसियंमसुहमसेसु रुक्कम्मोसुत्तयसियं ससारेत्तसत्तेण ९९ पोययगच्च्चत्तीर सागरसल्लिताउत्तयच्च

चरञ्जना ससारमिच्छणंते माईणञ्णमणाणं १०० नयणोदगंपितासिं सागरसलिलाउवउथरंरुह्णा गलियंसूयमा
 णीण माईणञ्णमणाणं १ नित्थिजयमरणसमं ज्ञमणसरिसनिविज्जाएदुख तम्हाजरमरण करंविदममत्तंसरीरात्त
 २ अन्नडमसरीरं अस्स्योजीवुत्तिनिवियमईत्त दुखपरिकेसकर विदममत्तंसरीत्त ३ जावडयकिचिदुहं सरीरंमाण
 सत्रससारे पत्तञ्णतखुत्तो कायस्सममत्तदोसेणं ४ तम्हासरीरमाई अजित्तरवाहिरंनिरविसेसं विदममत्तंसुवि
 हियजई इत्थसिमुच्चिउदहाणं ५ सत्तेउवसगापरीसहेय तिविहेणनिज्जिणाड हिलज्जाएमुनिविये मुहोहिसिअाराहउ
 मरणे ६ माञ्जयसरीरसताविउ अतत्ताहिअहृद्दाइं सुत्तुविरुवियलिंगो वियहृद्दाणिस्सवत्ति ७ मित्तसुयवधवाई
 इत्ताणिठेसुइदियात्तेसु रागोवादोसोवाई सिमणेणंनकायत्तो ८ ऐगायंकेसुपुणो विउलासुयवेयणामुइन्नासु सम्म
 अहियासतोड णमोहियएणवित्तिज्जा ९ वज्जपलिधसागराइ सत्ताणिमेनरयतिरियजाईसु किंपुणसुहात्ताणंइ णमो
 सारनरदुहति १० सोलसरीगायकासहिया जहविक्किणाचउत्थेणं वाससहस्सासत्तउसा गणधरचचउगएण ११ तहउ
 त्तमठकाले देहेनिरवस्कयंउववाएणं तिलच्छित्तलावगाइ वअ्यायकाविसहियत्तात्त १२ पारियत्तायगत्तत्तो रायाप
 ठीइसेठिणीमूढो अत्तुगहपरमन्नदा सीवसुकोवियमणुस्सा १३ सायसलिलुत्तलोहिय मसवसापेसिधिगगलंधितु उ
 प्पाइयापहीत्त पाइजहरकसवज्जत्त १४ तेणयनिवियणगतूण तुसुविहियसगासे अरुहियचरित्तत्तरो सीहोरमियं

समाकृढो १५ तंमियमहिहरसिहरे सिलायलेमहाजागो वीसिरह्विरयइन्तो सस्रोहारमहतणूय १६ तिविहोयस
गासह पक्रिमसाध्यहमासियधीरो वाह्यपुष्पान्नि सुहोममधिइजन्तसजुमो १७ सायएगलंतलोहिय मेयवसामसलप
रीपट्टो खञ्जडखगेहिदूसह निसरुयुषुप्पहारहि १८ मसएहिमलियाहिय कीकिडिविमसपलगाहि खञ्जतोचिनक
पइ कम्मवित्रागगजेमाणो १९ वत्तिवपयह्विह सियसियालियाहि निरणुकपाहिंउवसग्गिअपधीरो नाणाविह
ह्वधारीहि २० वितेइयस्वरकयश्चासी पजरस्वगामगारपहाउ णमोनङ्ककठयरदुस्क निरयग्गिदुस्कात्त २१ एवच
गतपस्कोवीउपरको यदाहिणविसाए अवरणयिपस्कायिय समइक्कतोमहोसिस्स २२ तहउक्खणयस्कजगध अयिक
पमाणसोसहइ पक्रियउदुमासते नमोस्सिवोत्तुजिजिदाण २३ कयणपुरमिसिठी जिणधम्मोनामसायउश्चासि तसइ
मधरियपयं तउपयंकिस्सिममुणिसस २४ तेणविमत्थमुणिणाउ वसग्गोपरमदूसहासहिया तहउवसगोसुयिहिय स
व्वाउहियसव्वाउमठमि २५ निप्फेक्रियाणिदुणिविसी सावेढेणजस्सअत्थीणि तवसजमाउवलित मेअज्जोमदरगि
रिइ २६ जोकुषगाविराहे पाणिदयाकुषगपिमाइ क्कोजीवियमणुपेइ तमेयज्जरिसिनमसामि २७ जोतिहिंपएहिघ
म्म समगतसजमसमाकृढो धवसमवियगसवर सिलाइपुत्तनमसामि २८ साएहिअइगयाउ लोहियगधेणजस्स
कीळीउ खायतिउममग तंइक्करकारयंवदे २९ देहोपिपिलियाइ विलोइपुत्तसावलणिइकठ तणउविमणएएसो न

यजाउतंस्सताणुवरिं ३० धोरीधिलाइपुन्तस्स वालणिह्वकत्तं णवयधम्माउचलित्तं तंदुक्करकारयंबंदे ३१ गयमुकुमा
लमहेसी जइदठोपिडवणं मिसमुरेणंनयधम्माउचलि तंदुक्करकारयंबंदे ३२ सुईहिनत्तसेणंआगतूण तिरत्तोसपडस
पर्इणोघोरे० ३३ जोयम्मखमातइयाजो ज्ञावोजायदुक्करापफिमा त्तच्छणगारगुणा गरतुमंपिहियण्णचित्तिहिं ३४
सोऊणनिसासमए नलिणिविमाणस्सवणणधीरो संत्तरियादेवलोत्तं उज्जोणिश्चवंतिसुकुमालो ३६ यित्तूणसमदिस्सकं
नियमुज्जियसह्वादिवआहारो वाहिवसकुळगेया यवगमणंतिवत्तोत्तं ३७ वोसह्निसह्गोनाहि सोत्तुलुकियाइखइ
उउ मंदरगिरिनिक्कंपं तंदुक्करकारयंबंदे ३८ मरणंमिजस्समुक्कं सुकुमुमगंधोदयचदेवेहिं अज्जात्रिगधवई सात्तंच
कुळंगीसुरठाणं ३९ जहत्तेणतत्यमुणिणा सम्मसमणेणइंगिणीतिरहा तहतरहउत्तमहं त्तचमणंसनिवसेह ४० जी
त्तित्यएणगिणहइ देहत्ताएविनअठियकुण्डं सोसाहेइसकहळं जहचदवत्तिंचउराया ४१ दीवात्तिग्गहधारीदूसह घ
णविणयनिच्चलनगिंदे जहसोत्तिन्नपडणो तहंतरहतुमंपडन्नमि ४२ जहदमदंतमहेसीपळय कोरवमुणीयथूयगरहि
त्तं आसिसमोदुरहपि ऊएवसमानहसवत्य ४३ जहखंदगसीसेहंसुक्कं महासाणससियमाणहि नकउमणप्यउसो
पीलिज्जंतसुजतंपि ४४ तहधन्तसालिरयअणगारा दीवितवमहिहीया वत्तोरगिरिसमीवे नालंदाएसमीवंगि ४५
जअलसिलासथारेणय वगमणंउवगयाजगवं सासंअणूणगंते वासहत्तिसहसहंगा ४६ सीयायवप्पंफियंगाल गुठि

यससण्डारुणिविण्ठा दोविश्रुतखासी महेमिणारिद्धिमपणा ४७ श्रुत्येरयंचलोएता णुतिहिंदेवयाणुजावेण श्रु
 विश्रुतिनिवेश पक्खिसुसनामगाहत्थी ४८ जहतेसमसचमा दुवालयिलगोविणोयधलिया श्रुततयोकिलतवीसामेज
 णविणयपञ्चाग उवलठपणपावा फासुयसुमहकरेसीह ५० सुगहियसावगधम्मा जिणमहिमाणेसुजिणधसोहया
 जसहरमुणिणोपासे - निरक्कतातिस्सवेगा ५१ सुगिहियजिणधयणा - मयपरिपुष्ठासीलसुरहिगधठा विहरियगुरुस
 गास जिणधरवसुपुष्कृतित्यमि ५२ कणगावलिमुष्ठावलि रयणावलिसीहकीलियकलता काहीयससवेगा श्राययि
 लधहमाणच ५३ श्रासरियायमणोहर सिहरतरवरत्तपुस्करहय श्राडकरचणपकयसिर सेवियमालहिमवत्त ५४
 रमणिज्जहरयत्तवर परज्जश्रुसिज्जमरमज्जपरविलोलो श्रुयरगिरिविसयमणहरजिणधयणसुकाणणुहेस ५५ तमि
 सिलायलपुहवी पधविदेहठिडसुणियत्या कालगयाउववणा पधविश्रुपराजियविमाणे ५६ ताऊषडऊणइह नारह
 वासश्रुनसरितं पफुनराहिवतणया जायोजयलच्चिज्जहारो ५७ तेकहमरणदूसड - दुक्कममुप्पन्नतिस्सवेगा - सुहिय
 घेरसगोसे निरक्कताकायकिसीय ५८ जिठोषउदसपुष्ठी चउरोइक्कारसगधीश्रासी विहरियगुरुसगासे जसपक्खिह
 नरताजियलोए ६० तेविहरिऊणधिहिणा नधरिमुठकमेणसपन्ना सोउजिणनिष्ठाण जत्तपरिन्नकरेसीय ६१ धी
 राजिगाहधारीनीमो ऊतगागहियनिखाठं सतुज्जसीलसिहरे पाउवगयत्तगत्ताधोघो ६२ पुह्विराहियवत्तर उथ

मगसहस्ममास्यमिगिदो अविंकपोष्वादिमुणी नार्डण्डकपासमि ६३ दोमासेसंपुणेसम्मधिद धणियवेठकल्यात
नावउवसगिठु सोजावउपरिनिवुउन्नगवं ६४ सेसावियदुपन्तापाउ यगयाउनिवुयासहेए वधिडसपन्ता अणेवि
टुहाउमुत्रंति ६५ दवियकोष्णगारी अयावणन्नूमिससिउधीरो सहिउणपाणपाय समपरिनिवुउन्नगव ६६ सेल
मिविन्नकूळे कोसलोमुठिउउपक्रिमाए नियजणणीएसइ उवग्गीनावउवगयाए ६७ पक्रिमागनुअमुणी लांवेसु
विउवक्तुव्वाणेषु तहवियअऊलकूणनायो साऊरामाससुयापूणं ६८ एवपरिवुठुपावड ररिरीपछपहावते मूनु
णखुहुगकिरिअ नगिरिमम्मिउसुजसो ६९ तत्यसंधउल्लेपगा गीधीरनिलयमडुंनु योसिरिऊणसीररं उहमि
ठिउविषप्पाणो ७० तसोअडसुकुमोलोदिण यरकिरणगिगाताविभसरीरो हविपिटुअविलीणो उववणोदेवलोययि
७१ तवस्सयसरीरपूयंकासीय ररहेहिलोगपाळाउ वणरदावतागरी अऊतविसांयिसुउलोए ७२ नगवंपिवडरमा
मीपिड यगिरिदेवयाइकइउ, पूनुसपूडउल्लमरण कुजरजाणिएणअण्णं ७३ पूडयमुविहियदेहो पयाहिणेकुंजरेणतं
सेल कासीयसुरवरिदा तम्हासोउकुजरावत्तो ७४ तन्नामजीभसंगहण वडाणखणयंमिकोसंबी रोहगमवतिसेणी
अऊडमणिप्यजोनासो ७५ धम्मगसुसीसजयलं धम्मजसेतणरणासंभि नन्तंपञ्जकाइय सेसमिउयललातीरे ७६
अन्तितिरहकारो पगागीसेलकंदरसिलाए कासीयउत्तमतं सोनालोशाण्णपूणं ७७ उरहंमिसिसायहे न्हन्तं अ

रहणएणसुकुमाल विग्यारियसरीर स्थणचिंतिज्जातमुत्ताहं ७८ गुह्यरयाउवगतंसुयुधि णाणिग्घिणेणवाणक्कोदयो
 नयसवलितउसाह्ण चिद्धचित्तपिजात्र ७८ जहसोविसप्परासीवा सहनिसिद्धचताठं वसीपुन्नेहिंविनिगा एहिंथ्या
 गसमुस्किन्तो ७९ जहसायसीसघन्नायो सठयत्तादेइगोघोरा वापणउदावएण विगलमित्तल्लया ८० जसेणकस्क
 णणव सत्येहिवसावएहिविधिहेहि वहेविद्धस्सतेठसिपि अकप्पणाममणो ८१ परुणीययाडकेसि चम्मसेखीलठहि
 निहणिसा मक्कययमस्कियदेह पिपलियाणतदिज्जाहि ८२ जेणविरागोजयइ ततसप्पायरेणकरणिज्ज मुञ्चइइसस
 वेगो इत्थचिंताइपुत्तदिठता ८३ समुठणेसुयसुयिहियघोरे सुपरीसत्यसमग्गोवणमिकठेण पायहरोसवरण विह्वगजि
 स्कावणसुरेसु ८५ तत्येवयघणमिन्ना वेण्णगमरणनइइतन्हाए अित्थिणेसुणजप्प विठयविस्सारणकासि ८६ मुणि
 वदिणविदिणस्स रायगिहपरीसहोमहाघोरी जत्तोहरिवसथिक्क जणस्ससुत्थजिणिवस्स ८७ रायगिहनिग्गयास्सलु
 प्पि प्पिक्कवत्तगामुणीवउरो सायविक्ककामेण पहारेपहरेगयासिद्धिं ८८ उच्चिणतगररहंनगच पावसएसुसमणज
 हरिसी स्वमसमणस्सज्जरस्किया उच्चिणत्तेलउज्जेणो ९९ अरहंयजायमूय करोज्जनयोश्चटुलहायाहीउ कोसयीएक
 हित्त इत्थिएयूलज्जहारिसी ९० कुल्लहरमियवप्पो वरियाइसहेसमरकात्तं चिद्धिसुपत्तिमुत्थणत्थण अग्गुलदीवोयवास
 मि ९१ गयपुरकुरवत्तमुत्तनिसी हियाअण्णविदेसपप्पिमाए गोविकुत्थिएणदहागइ सुकुमालोज्जानगव ९२ तीअ

र ७ अणपठिसिद्धिं नारादुर का आनस उपर माण १० ।

नगाराधिजाडयाइ कोसंवितीगदत्ताउ पाउवगयाणदिणो सिजाएसगरोत्पूढा १४ मज्जराइमज्जरखमत अक्को
सपरीसाहउसविसेसो बीउरायगिहमित्त अस्सणमालारदिवत्तो १५ कुंजकारकफेनगरेखंद गसासाणजंतपीलयण
या एवविहेकरिजाडजह सहियंतस्समीसेहिं १६ तहसाणन्नाणवुत्तं गीएसठियस्ससमुयाण ततोअलाजगमिजह
कोहंनिज्जिणेकन्हे १७ मज्जराइमुज्जरखमत अक्कोसपरीसहेउसविसेसो बीउरोयगिहंमित्त अस्सणमालारदिठंतो १८
अंजकारकफेनगरेसावत्थी ज्जियसत्ततणउत्तिरकमणपप्पि कमतणफासिवारियपवियकं चणकुसलेसणकट्टणसहणं
१९ चंपामुणंदगविषसाज्ज दुगुंत्याज्जत्तखउरगे कीसंविजंसवनिरकमण वेयणंसाज्जपप्पिवाए १ मज्जराइडददत्तो
सक्कारोपायत्तेयणंठठा जत्ताइअसकालग सागरखमणोयदिठंतो २ नाणअसगफ्फतात्त खज्जगनीधीअणिहियामणे
ज्जहो दंसणपरीसहमित्त आसाफ्फजूईउअयारिया ३ वरियापमरणंमित्तसमुद्ध णपारोसहीयमुणीवज्जा विज्जतिउ
णजिण मयउवएसमुद्धअप्पाणं ४ उस्सगासंपयाणंमणहत्थिं विसयसुमरियमणंत नाणंकुसेणधीरो धरेइदित्तंपिथ
गइद ५ एएउअहाथूरामहिहि उकोत्तजाणिउससत्तो किंवात्तिमूत्रमाएजिण गणधरत्तेरचविएमु ६ किचित्तंजडना
णी सम्महिठीकरंति तंतयाहिंतिरिएहिं विदुरणुवराकेहिविअणुपानुधम्मो ७ अरणसिंवट्टणं सत्थोसणीमहामुत्तं
दमि होणगहिउत्तिकालो ससन्तिस्सवेगमावणी ८ अप्पाणंनिदंतोउत्तरिउणं गहेत्तवज्जलान्तं सावज्जजोगविरस

नत्तपरिन्तकरेसीय १ स्वगत्तुज्जिन्नदेहोड सहमूरग्गियाविचसरीरा कोलंकाजणसुरो उवउत्तोपयसहिणिजा १०
 सेवोनरुह्णहश्रकतारे मुविहिियाणुपाए नासुरधरयुद्धिधरो दवोवेमाणिउजात्त ११ तसीहसेणगयधरवरिय सोजग
 दुस्कररणे कोहणुतयेपमायकरे ज्जाजाउमणुस्सेमु १२ नूयगपुराहियउक्कोराया मरिजणसप्तइयणमि मुपसत्यगघ
 हत्पी यज्जन्तयनेलणोजात्त ३१ सोमीहधदमुणिवरपाणि मापाणिओहिउसुसवेगो पाणवहालियाओरिय अच्चनवरिय
 हनियधो ४१ रागदोसनियधो लठरकमणस्सपारणेताहो आससिजणपद्दु आधयत्तत्तजलपासी ५१ स्वमगत्तणनि
 म्मसोधवणि सिराजालअत्तयसरीरो विहरियअप्पप्पाणो मुणिउघएसविचित्ततो १६ सोअन्नयाणिदाहो पकोस
 स्रोथणनिरुत्त्याहो विरवेरिएणदिठो कुक्कुसप्पेणघोरेण १७ जिणवयणमणुगणितो ताहेसच्चउविहाहार योसि
 रिजणगह दोजावेणजिणेनमसीय १८ तत्थयवणयरसुरधर विम्हियकीरतपूयसक्कारो मअत्थोआसीकिर कलहेमु
 यजज्जरिजत्ते १९ समंसहिजणत्तहो कालगउसप्तसमिकणमि सिरित्तिलरमिअमाणे उक्कोसअिइमुराजात्त २० सुय
 दिठियायकाडिम एयअस्काणयनिसामित्ता पणियमरणमिन्नइ देहंवेसिप्पन्नावेण २१ जिणवयणमणुस्सहा दोवि
 नुयगामहाविसघोरा कासीयकोसिण सवत्तणमुत्तमुद्दगाण २२ एगोपथिमाणथासीजा उवरयिज्जायजरसरीरो
 धीउनदणकूलेयलु! सिजस्केमहहिठ २३ हिपबूलमुक्कयधीनद्दग्ग हिंसोयथूलज्जहय वेरासवसमेकहणा सुरत्तावेदसणे

स्वमणो २४ वावीसमाणुपुर्वि तिरस्कमणुयाविजिसणहाए विसयाणुकंपस्क णरिज्जदेवाउउवगं २५ संवयणधि
इंजत्तो नवदसपुष्ठीसुएणश्चगात्रा इंगिणिपाउवगमं पक्रिवज्जईपरिसीसाहू २६ निह्वातिप्पक्रिक्कम्मो निखि वएजं
जहिजहाश्चग पयपाउवगमस निहारिवाश्चनीहारिं २७ पाउवगमंजणिय समविममयायपुत्रजहपक्रितं नवरवर
प्पउगा कपिज्जजहाफलतरुहू २८ तसपाणचीयरहिए विलियणवियारथंगिलविसुद्धे एगतेनिहीसे च्चिचिचिच्य
ज्जयंमरणं २९ पुह्वन्नवियवरेण देवीसाहरड्डीविवायाले मासोचरिमसरीरी नवेश्चणंकिविपाविजा ३० उप्पन्ते उ
वसग्गे दिह्वेमाणुस्सएतिरिक्केश्च सव्वेयराजिणिहा पाउवगयाएविहरति ३१ जहनामश्च मीयकोसी च्चसीविखलुश्च
त्तोइयमेश्चन्तोजीवो च्चन्तोदेज्जिज्जिज्जाए ३२ पुह्वावरदाहिण उत्ररेणवाएहिश्चावरुनहिं जहंनविकपहमेहू त
हज्जणाउनविचलति ३३ पढमंमियसघयणे वहतसलकुसमाणा तेसिंपियबुच्छे उ चउदसपुष्ठीगवुच्छेत्तं ३४ पुढवि
दगश्चगणिमासुत्तसेसुकोइसाहरड वासठचत्तदेही च्चहाउश्चतंपरिखिज्जा ३५ देवोनेहेण देवा मरणंचउदमग
णवा जहियइठीकता सव्वसुहाज्जतिसुहजावा ३६ उवसग्गेतिविहोविय च्चणुकूलेचेववहयपक्रिकूले सम्मंश्चहियासं
तो करसखकयकारत्तहोइ ३७ पयपाउवगमइं गिणिपक्रिक्कम्मवणियसुत्ते तिल्यवरग्ग गहरे हियसाहूज्जयसेविप्रसुया
र ३८ सव्वेसव्वठाए सव्वतूसव्वकम्मनूमीसु सव्वगुहसव्वहिया सव्वमेहूश्चहिसित्तो ३९ सव्वहिहिलिहीह सव्वेविपरी

१०
११
१२

सहेपराइत्ता सहेभियतित्ययरा पाउवगयाउसिद्धिगया ४० अथसेसाश्रणगारा तीयपहुप्यन्नजोगया सधुकेईपा
उवगया पझुस्काणिगिणिकेइ ४१ सहेविश्रुश्रुज्जाठ सधुविषपढमसघयणवज्जा सहेयदेसविरया पझुस्काणेणयम
रति ४२ सधुसुहप्यजाव ठ जीविषसाराठसधुजणगाठ श्याहाराठरयण नहिज्जाईउत्तमलोय ४३ विग्गहमपयसि
ठेसु न्नालोगमिजत्तिपाजीवा सधुसध्वावत्य श्याहारंज्जातिश्याउत्ता ४४ त्तमारिसगरयण सारजसधुलोयणाण सधु
वरिञ्चुइत्ता याठवगहयाएविहरति ४५ एयपाउवगमनिप्यदि क्लमजिणेहिपन्नत्त तंसाज्जास्वमत्तं ववसायपरक्क
मक्कणइ ४६ धोरपुरिसपन्नत ? सप्युरिसन्तिसेधिएयपरमधम्मो धणासिंलायलगया निरावयस्काणिवज्जाति ४७ स
धुतियश्रुणगारा सुजयाणियासुश्रुधुधीसु गिरिकुहरकंदरासुय धिजणेसुयरुस्केहेठेसु ४८ धीघणियवधुक्कल्यात्ती
या जरमरणजम्मणसयाण सेलसिंलासयणत्या साहितिउत्तमठाइ ४९ दीवोददिरणेसुयस्वहिपा रावहियासुपुण
राधियतासु कमलसिरीमहिंलादिसु नत्तपरिन्ताकयाधीसु ५० जहुजावयाकुलगिरि कदरधिसमक्कणगासु साहितिउत्त
मठधिठ धणियसहायगाधीरा ५१ क्किपुणश्रुणगारसहाय गेणश्रुणुन्नसगहवलेण परलोणनसध्वासा हेउश्रुप्यजो
श्रुठ ५२ सुमहन्तेसुश्रुसुधियिदिय उवसगामहउणसुधिविहेसु हियणधित्तगिज्जर यणनिहीपसउवसगी ५३ विज्जा
यजइमण अइंथ एगागिठहपाणी वसिठहतिरियते वज्जासोएगागिउरणे ५४ वसिउणविजणमझे वसुइएगागिउ

१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
५२
५३
५४
५५
५६
५७
५८
५९
६०
६१
६२
६३
६४
६५
६६
६७
६८
६९
७०
७१
७२
७३
७४
७५
७६
७७
७८
७९
८०
८१
८२
८३
८४
८५
८६
८७
८८
८९
९०
९१
९२
९३
९४
९५
९६
९७
९८
९९
१००

इमोजीवो मूतूणसरीरघंम तुमुहाकट्टिसंसंते ५५ जहवीहतिष्णजीवा त्रिविहाणविण्णा गीतहसंमारगएहि
जीवंहिविहिसियाष्णत्ते ५६ सावयजयाजिज्जूउं वज्जसुष्णुवोसुनिरजिरामासु रहरिहरिणमहि सपूयरकरजोहि
रुक्कळायासु ५७ गयगवयखग्गंगंय वाग्घत्तरत्यत्यजल्लवरियासु तिल्लुकिककदीविय संजवसभ्याचक्रिणासु ५८
मत्तगडंदनिवाफिय तिल्लपुलिंटावकुंफियविणासु वसिउज्जतिरिपत्ते ? जीसणससारचारमि ५९ कत्ययसुद्धमिगत्तेत्र
ऊ सोष्णुवीसुपयइविममासु वग्घमहावफियणं रसियष्णुडजीयएणं ६० कत्यडुटुंशुइदुष्णिरको जीसणविगरा
लघोरवेयगोहं श्यासिमहवियघोरु रुमहिसवराहविद्वचत्तं ६१ कत्यडुटुंशुइदुष्णिरको जीसणविगरा
उवहिउयष्णं मणुस्सजम्मामिनिम्मारी ६२ वयइकुंफिलमिकत्यडु ससारेपाविज्जगज्जयत्तं वज्जसोउत्तियमाणो मय वे
वीहीवियासिन्तो ६३ विरसष्णारसमाणे केत्यइरणसुघाडउष्णहयं सावयगहेणंमिवणे जेयजील्लसुत्तियवित्तोह ६४
पत्तांविचित्तविरस दुक्कससारसागरगयणं रसियचष्णसरणेण कयंतदंत्ततरगएण ६५ तईयावयगहणंमिवकी सनहा
यडजीवो जईयासुसाणयविष्णुंलुकिकंकवायससहिए सुट्टीकिज्जाएदेहं ६६ तात्तंनिज्जिणिज्ज ग देहमुतूणवच्चएजीवो
ष्णविणासाज्जणित्तं तेलुक्कोदंसीहि ६७ तंजइतायनमुच्चइजीवो मरणस्सउवियंतोवियवात्तोवि तम्हामज्जनज्जाइ
दाऊणतस्सयष्ण्णाण ६८ एवमणुचित्तयंतासु विहियजरमरणजावियमइया पावतिकायपयत्ता मरणसमाहिमहा

नागा ६९ एवजावियचिष्टो संयोरवरमुचिहियसयावि नावेहिजावणात्थ यारसजिणवयणदिठानु ७० इहहसोत्र
 कुरंगोषउत्य मगज्जासुसाज्जाधम्ममि तम्मोहजावणात्थ यारसिमोयारसगविज्ज ७१ समणोणयसावणपया जाउनिच्च
 पिजावणिजत्थ ददसवेगकरीत्थ, विसेसउउत्तमत्थ मि ७२ पदमच्चणिच्चनाय अवरणयणगयच्च अन्नत्त सचारमसुनया
 पिय विविहलोमसहायच्च ७३ कम्मस्सञ्जासय सवरचनिज्जरणमुत्तमेयगुणे जिणसासणमियोहिच्च दुत्तहचित्तम
 हच्च ७४ रुद्धाणाङ्गञ्जासासणात्थ इहवेवदेवलोमेय सुरच्चसुत्तरात्थेण रिद्धिविसेमासुडवो ७५ मायापिह्मिहिसहहय
 ठिएहिपुत्तदारेहिं एगयउसहवासोपीत्थे एणउविच्चच्चणिच्च ७६ जयमेहिउययणहिय सयणासणजाणवाहणात्थेहि
 सजोगाविच्चणिच्चो तहपरलोमिहिसहसत्थि ७७ अलच्चिरियत्तजोत्थण सामग्गिसुजगयावपुसोना इददस्सच्चारु
 ग्गञ्जासासयजीवियवेव ७८ जम्मणजरामरणत्थे अच्चिणविविहयात्थित तत्थेलोगमिनत्थि सरणजिणिंदवरसासण
 मत्तु ७९ असासिहियहत्थीहि पच्चयमित्तेहिनिच्चमित्तेहि सावरणयत्थरणेहिय अलवयमत्तेहिजोत्तेहिं ८० महयात्त
 च्चरुगरणह कारणच्चयिच्चकवत्थिणामच्च नयजियपुत्तोकेणइ नीह्वलेणात्थिलोगमि ८१ विविहेहिमगलेहिम यिज्जा
 मतोमहीपउगेहि नविसक्कात्थारत्थ मरणाणविठ्ठणसोत्थेहिं ८२ पुन्तामित्थायपियासयणो यधयजणोच्चच्चत्थोया
 नयसमत्थातापठ मरणासिदाविदयगणा ८३ सयणसमसगत्थ रोगान्निहउकिलस्सइउहेगो सयणावियासरोगच्चि

एव पञ्चपतिविष्टि वरापुर का प्रागम सपर मल ह्म ।

रघईनेवनासेइ ७३ मप्रमिबंधयाणंइ क्रीमरइकलुणसयंताणं नयणंश्चन्नेतिहउ बंधुजणीवदागइं ८४ इक्कोकरेइ
 कम्म फलमविहस्सेकत्तं समणुहचइइक्कोजायइ मरइपरलोइइक्कोउजायइ ८५ पत्तेयपत्तेयनियमं कम्मफलंमणह
 वत्ताणं कोकस्सजणसयणी कोकस्सपरजणेजणित्तं ९६ कोक्केणसमंजायइ कोक्केणसमचपरत्तवंजायइ कोथाकरेकि
 वा कस्सवकोकंनियत्तेइ ८७ श्णुसोश्चइश्णुजणं श्चन्तन्नचनरगत्तुत्तवालजणी नविसोयइश्चप्पाणं किलिस्समाणं
 जवममुइ ८८ श्चन्तइमसरीरंश्चन्तोहं बधचाधिमेश्चन्तो एवन्ताऊणखम कुंसलस्सनजखमकात्तं ८९ हाजहमोहिय
 मडणा सुग्गइसग्गश्चजाणमाणेणं जीमेजवसंनारे सुत्थिरधविमियत्तयकरमि ९ जोणिसयतहस्सेसुय श्चसयजाय
 मयवणेगासु सजोगठिप्पउगो पत्तादुस्काणिपवत्तुणि ९१ सग्गेसुयनरगेमुपमाणु स्संतहतिरिक्कजोणीसुजायम
 यचत्तज्जसोसं सारंससरत्तेणं ९२ निरयत्तुणावमाणण वहबंधणरुधणावणविणा णेगायरोगसोगा पत्ताजाइसहस्से
 सु ९३ सोनत्थिइहोगासोलोए थालग्गकोक्किमित्तात्थि जम्मणमरणाणव हा श्चणेगसोजत्थनयपत्ता ९४ सत्ताणिम
 हलोए ह्त्तधीदत्ताणिपत्तपुत्ताणि देहोवस्करयरिजोगयाइ दुस्केसुत्तज्जसु ९५ सबधिवधवत्तेसत्ते जीवाश्चणेगसोमसं
 विवहवहवंरजणया दासासामीयमेच्छासी ९६ लोगसहावोधीधीजत्थ वमायामयाहवइधूया पुत्ताविथाहोपिया
 पियाविपुत्तत्तणसुवेइ ९७ जत्थिपियपुत्तगस्सत्थि मायात्तायात्तवत्तरगयस्स तुठ।खात्तइमसइ तीक्किहयरमत्तं ९८

धीससरोजहियं जवाजशणउपरमह्यगहियनं मरिऊणजोयडकिमी तत्येवकलेघेरेनियए ११ यज्ञमोशुणुनूयाई
 शुहपकालमिसह्वुस्काड पाविहिइपुणोवुस्कं नकरेडिडजोजणोघम्म १०० घम्मोणत्रिणाजडदेसिए षनन्तत्यश्रुत्य
 किविमुह ठाणथाकजायास देवामणुयासुरेलीए १ श्रुत्यघम्मकामजागिय कजागितिन्निमित्ति जतत्यघम्मकजा
 तपुनमियराणिश्रुसुजाणि २ श्यायासकिलेसाण वेराणश्यागरोत्तपकरोय यज्ञदोखदुग्गडकरो श्रुत्योमूलश्रुणत्याण
 ३ कित्याडिणाविपुजे पसायज्ञनयकिलेसकरा तस्कणसुहावज्जदुहा सकारधियदुणाकामा ४ मत्यिइहससारे ठाण
 किचिनिरुथहुयनाम ससुरासुरेसुमणुण निरयसुतिरिक्कजोणीए ५ यज्ञदुरकपीलियोण मइमूढाणश्रणप्यवसगाण
 तिरियाणनत्यिसुह नेरइयाणकउवेष ६ ह्यगण्णयासजम्मण वाहिजरामरणरोगस्सगेहि श्रुतिनूएमाणुस्से यज्ञदो
 सेहिनसुहमत्यि ७ मसठियसघारा मुत्तपुरीसाज्जरियनविठ्ठिहे श्रुसुहंपरिस्सत्तेसुहसरीरम्मिकेश्रुत्य ८ इठजण
 विप्यउगो ववणज्जयचेवदेवलोगाडसं पयारिसागिसग्गे देवाविदुहाणपाविति ९ पुरिसयदोसयमय कीहलोइदोसे
 हिपवमाइहि देवाविसमज्जिन्नुया तेसुधियकउसुहश्रुत्य १० पुरिसयदोसेपुणेसुत्तो ससारसायरेजीवो जंश्रुहचिरं
 किलिस्सइ सप्राप्तवहेउश्रुसहं ११ रागदोसपमन्तोइ दियधसउकरेइकम्माइ श्यासवदारेहिअवं गुहतिविहेणकर
 जेण १२ धिठीमोइजेणिहहिप कामोखलुसपावमायरइ नज्जापावइअइहिय विसजहाजीधियत्यिम्मा १३ रागस्स

यदीसस्सय धिरत्युजनामसद्वहंतोवि पावेसुकुणइजवं श्याउरविक्रमश्चिहिएसु १४ लोनेगश्चहवघत्या कज्जानगणइ
 श्यायश्चिहियंपि श्चइलोहेणविणस्सइ मबुधुजहागलंगलिउ १५ श्यत्यधम्मंकामतिण विबुध्वाजणोपरिच्चयइ ताइंक
 रेइजेहिउ किलस्सइइहपरिजवेय १६ ऊतिश्चज्जतस्सविणासगाणिपंचिंदियाणिपुरिसस्स उरगाइचउग्गविसा गहि
 यामतोमहीहिविणा १७ श्चसेयदारेहिसया हिंसाइएहिकम्ममासवइ जहनावाइविणा सत्यिद्वेहिजलंतयहिमझे १८
 कम्मासवदाराइ निह्लजियठइइंदियाइच हत्तघायकसाया तिविहतिविहेणमुखकत्यं १९ निग्गहिणकभोएहि श्यास
 वमूलउयाऊति श्चिहियारेमुक्को रोगाइपश्याउरजणस्स २० नाणेणयसाणेणय तत्रोवलेणयवलानिसज्जति इंदिय
 विसयकसाया घरियातुरगावरप्पुहिं २१ ऊतिगुणकारगाइं सुइरजूहिंधणियंतियमियाइं नियगाणिइंदियाइं जइ
 णोतुरगीडवमुदंता २२ मणवयणकायजोगा जेज्जणियाकरणसणिया तिणितेजतस्सगुण कराऊतिश्चज्जतस्सदीसक
 रा २३ सम्मज्जमाइपासइ जूएश्चश्चप्पज्जएय कम्ममलेणनलिप्पइ सोसवरियासवदुवारं २४ धणासत्तहियाइसुणंति
 घणाकरमुतिगियाइं धणोसुग्गइमग्गं मरंतिधणागयासिद्धि २० धणाकलज्जनियलेहि विप्फमुक्कामुसत्तसंजत्ता वा
 रीउवगयवराय रवारीउविनिप्फइय २६ धणानकरंतितवस जमजोगेहिकम्ममठवियहं तवसलिलेणमुणिणो धु
 णतिपोराणयंकम्म २७ नाणमयवायसहि उसीलुधज्जालिउवोमउश्चग्गी ससारकरणवीयं दइइदवग्गीचवणरासिं २८

षण्णमीसुगडुपहोसु टेसिउउस्कडजिगवरेहिं तैधन्नाजेवयपह मणयऊपयऊति २९ ऋहेयवावियसु इहपरलोएय
 होइकसाप तापयजिणकहिय पक्रियऊहनावउधम्म ३० जहजहदोसोच्चरमो जहजहयिमएसुदोडवेरग्ग तह २ वि
 णय आसन्तसएयपरम ३१ दुग्गोत्तपकसारे जममाणेहिसुधिरपहहि दिठोजिषइठोणोडसुग्गइमग्गेकहविएसो ३३
 माणुस्सदेमकुलकाल जाह्विपयलाययाणश्च विन्नाप्यसिद्धादेसुसणश्च दुउहसुसाज्जण ३२ पत्तेसुधिपणसु मोडस्सुदएण
 दुस्रहोसुपहोक्कपञ्जयज्जपसुजेणय विसयसुहणश्चलोत्तण ३४ सोयपहोउवल्लो जएवाहिरोजलोयज्जत्त सपत्तियियन
 धिर तम्होत्तस्समोपमाउमे ३५ जहजहददप्पहणोत्तमणोपेरग्गजावेणकुण्ड तहत्तम्हश्चसुत्तयाप यहयश्चसीयस्सयमु
 ह ३६ एगश्चोत्तरेणविदुत्त परिणामाश्चणुत्तरजति कळरिउपुळरित्तं अहरगइउत्तगमणेसु ३७ धारहयिजायणास
 एत्तसखेयउत्तमत्ताउ जावेमाणोत्तयो जाउत्तमात्तह्वेरग्ग ३८ जाविजजावणात्तं पाळिऊपयाइरयणसरिसाई प
 क्रियुणपात्तस्समणे अउरासिद्धिपिपावहिहि ३९ मुहसुरसमंक्खइ निरउत्तमत्तयइ दुक्कक्कइतिरियसरित्त्य माणु
 सजाइयज्जवितित्ता ४० दहुणेयिश्चप्पमुहंमाणस्स जेगटोत्तसजत्त सुहुविउत्तियमुत्तइत्त कप्पेत्तमुणोत्तमूत्तज्जणो ४१
 जहनत्तमपहणत्तं सत्तेसुत्तमिमुत्तजावेण नलहत्तिनराल ह माणुस्सजावत्तहापना ४२ सपत्तेत्तलधिरपस ज्जयात्तपरि
 स्कणश्चजाणती नलहत्तियीहिलत्तं दग्गइमग्गश्चपावति ४३ अत्तापियरोत्ताया ज्जत्तापुत्तासरीरश्चत्तोय ज्जयसा

एय पणपविधिरे इत्थदुर वा प्राणस संपद मास ३३।

गरंमिघोरे नञ्जंतिताणंचसरणंच ४४ नविमायानवियपिया मपुत्रदाराचेवबंधजणो नविवंधणंनविघन्तं दुस्कसु
इन्तउवसमति ४५ जडयासयणिज्जगत्तु दुस्कतोसयणबंधुपरिहीणो उच्चत्तइपरियत्तड उरगोजहण्णिगिमसमि ४६
असुइसरीरंरोगा जम्मणसयसाहणंत्तुहात णहाउराहंसीयंवाउए हाज्जिचयोयणगविहा ४७ सोजरामरणाइंपरिस्स
म्मोदीरणयायदारिहं तहयवेपियविप्पमाउ अप्पियजणसपउगाय ४८ पयाणियहोसोणिमाणुस्स वज्जंविहाणिदु
स्काणि पच्चस्सकपिस्सकत्तो कोनमरइतंविचितंत्तो ४९ ददूणविाणुसंसुदुल्लहं कइकम्मवोसेण साहासुणेमणुरत्ता मरी
णसमुद्देविगाहिति ५० तेणउडहलोगसुह सुतूणंम्माणससियमडत्तं विरतिस्सकमरणत्तोउ फूलोगमूर्डेकरणदोगुंच्छ
५१ दारिहदुस्कवेयणवज्जं विहतन्ज्जन्हखुप्पिवासाणं अरइज्जयसोगसामिय तक्करदुज्जिस्सकमरणाइं ५२ एएसिंतुदुह
णं जंपाणिवस्सकंसुहत्तितंलोए जंपुणअच्चत्तसुहंतस्स परुस्सकोसयांलोए ५३ जम्मनत्तुहाइतज्जासीउ वहंपिवदुस्कंमुक्कि
ठं नयंअसुइयंसरीरं तस्ससणाईंसुकिंकज्जां ५४ जहनिंत्तदुमुप्पन्तो जंजोकफुपपिमन्तएमज्जरं तहमुस्कसुहपरुस्सा
संसारदुहंसुहविति ५५ जेकफुयदुमुप्पन्ता कीळावरकप्पपायवपरुस्सा तेसिदिसालवल्लीधि ससग्गायमुस्सकोय ५६
तहपरतित्थियकीळावि सयविसंकुरविमूढंदिठीया जिणसासणकप्पतइधर पारुस्करासांकिलिस्सति ५७ तस्वामु
स्कमहातरुसासय सिवफलयसुस्कसत्तेणं मुतूणलीगसणं पणियरणेणमरियत्तं ५८ जिणमयताविअ्चित्तो लोगसु

२०
१०
३५

इंमलविरेक्षणं काठं धम्ममिहसाणे सुक्केयमहविधेसेह ५९' सुणहजहणिज्जिणवयणासयजाधिय एणसाणव्रावरी
करणिहोसुमणेण ऊणणेमुसायसु ६० इति श्रीमरणविजहीपइन्नसमत्त ॥ सधत् १९४२ पीप छक्र ३ तृतीयया
तिथी काश्या जैनप्रजाकरनाम्निमन्त्रे मुद्रित ॥

श्रीयुत रायधनप्रतिसिंह याहादुरस्य आगमसमहे ३३-भाग समाप्त ॥

श्रीयुक्त राम घनपतिसिंह बहादुर का जैनागमसङ्ग्रह भाग

तदुसवपाली २४ देविद्वय २५ कविपीठ २६ बरबर २७ सघार २८
घातरपदरका २९ भक्तपरीक्षा ३० बल्लुकि ३१ माहापदरका ३२ मरुविमति ३३

॥ इति दशपयन्ना मूल सूत्र समाप्तः ॥

पुस्तकालय लीलागच्छीय याचनाशोध रामचन्द्रजीगयी ज्ञानानन्दजीकी आज्ञानुसार

[प्रतापजी अर्पणहतरा करकेसर्वाभितहीके मुहीतहुवा] बनारस जैन प्रभाकर प्रेस] अक्टू १९४२ । अन् १००५ ईशवी ।

५०० विनपुर् नुवाएतो से
५०० राय परपतिविर् वरा

परिलो वरे १००० पसब
इस की पसब ५) और
केनी माइयो के सिरे २॥